



# मदरलैण्ड वॉइस

सोमवार, 9 मई 2022

दिल्ली से प्रकाशित एवं जयपुर, लुधियाना, चंडीगढ़, पटना, रायपुर, देहरादून, शिमला में प्रसारित

राष्ट्र प्रेमियों का दैनिक समाचार पत्र

## अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन के अचानक यूक्रेन दौरे से खलबली जेलेंस्की की पत्नी के साथ स्कूल पहुंचीं

कीव, एजेंसी। अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन रविवार को अचानक युद्ध प्रभावित यूक्रेन की अघोषित यात्रा की है। इस दौरान उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की की पत्नी ओलेना जेलेंस्की से मुलाकात की। रूस के साथ जारी युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी का यूक्रेन दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 124 फरवरी को रूसी आक्रमण की शुरुआत होने के बाद अमेरिका समेत नाटो देशों के कई नेता यूक्रेन का दौरा कर चुके हैं। हालांकि, जो बाइडेन ने यूक्रेन की यात्रा करने से अभी तक दूरी बना रखी है।

**जिल बाइडेन की यूक्रेन यात्रा को रखा गया गुप्त**

रिपोर्ट के अनुसार, जिल बाइडेन की यूक्रेन यात्रा को काफी गुप्त रखा गया। उन्होंने ओलेना जेलेंस्की को बताया कि मैं मदर्स डे पर यूक्रेन आना चाहती थी। मैंने सोचा कि यूक्रेनी लोगों



को यह दिखाना महत्वपूर्ण था कि इस युद्ध को रोकना है, यह युद्ध विनाशकारी रहा है और अमेरिका के लोग यूक्रेन के लोगों के साथ खड़े हैं। उन्होंने ओलेना जेलेंस्की के साथ यूक्रेन के सीमावर्ती शहर उन्हेरोड की यात्रा की। यह शहर स्लोवाकिया की सीमा से काफी सटा हुआ है।

**यूक्रेनी राष्ट्रपति के साथ स्कूल का किया दौरा**

अपनी यात्रा के दौरान जिल बाइडेन और ओलेना जेलेंस्की एक स्कूल का दौरा करने पहुंचे। उन्होंने एक छोटी सी क्लास में मेज के आस-पास बैठकर बात की। उनकी यात्रा को लेकर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की

की पत्नी ओलेना ने जिल बाइडेन का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि युद्ध के दौरान अमेरिका की प्रथम महिला को यहां आने के लिए क्या करना पड़ा है, जब हर दिन सैन्य कार्रवाई हो रही है, जहां आज भी हर दिन हवाई सायरन बज रहे हैं।

**जिल बाइडेन के यूक्रेन दौरे को माना जा रहा अहम**

जिस स्कूल में अमेरिका और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों की पत्नियों ने मुलाकात की, उसे यूक्रेनी प्रवासियों के लिए अस्थायी आवास में बदल दिया गया है। इस स्कूल की यात्रा के दौरान जिल बाइडेन ने राष्ट्रपति जो बाइडेन से गिफ्ट मिले एक मदर्स डे कोर्सिंग पहना हुआ था। मुलाकात के दौरान दोनों देशों की प्रथम महिलाओं ने एक दूसरे को गले लगाया और ओलेना ने जिल बाइडेन का बुके देकर स्वागत किया।

## डॉक्टरों के खिलाफ बढ़ती हिंसा दुखद, उन्हें बेहतर माहौल दिया जाना जरूरी : रमण

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण ने डॉक्टरों के खिलाफ बढ़ती हिंसा तथा उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए जाने पर चिंता व्यक्त की। न्यायमूर्ति रमण ने कहा कि वह डॉक्टरों की अदृष्ट भावना के प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहेंगे जो अपने मरीजों के लिए चौबीसों घंटे काम करते हैं। उन्होंने कहा, डॉक्टर परामर्शदाता, मार्गदर्शक, दोस्त और सलाहकार होते हैं। उन्हें हमेशा समाज के सक्रिय सदस्य बने रहना चाहिए और लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, डॉक्टरों के खिलाफ बढ़ती हिंसा को देखकर मुझे बेहद दुख होता है। ईमानदार और मेहनती डॉक्टरों के खिलाफ कई झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं। उन्हें काम करने के बेहतर और अधिक सुरक्षित माहौल की जरूरत है। डॉ. कर्नल सीएस पंत और डॉ. वनीता कपूर द्वारा लिखी गई पुस्तक एटलस ऑफ ब्रेस्ट इलास्ट्रोग्राफी एंड अल्ट्रासाउंड गाइडेड फाइन नीडल साइटोलॉजी के विमोचन अवसर पर बोलते हुए जस्टिस रमण ने कहा, यह वह जगह है जहां पेशेवर चिकित्सा संघ बहुत महत्व रखते हैं। उन्हें डॉक्टरों की मांगों को उठाने में सक्रिय रहना होगा।

उन्होंने कहा महिलाएं देश की आबादी का 50 प्रतिशत हैं और वे परिवार तथा समाज की रीढ़ हैं और इसलिए, उनके स्वास्थ्य को समाज तथा नीतियों में समान रूप से स्थान मिलना चाहिए। न्यायमूर्ति रमण ने कहा लोग,



विशेष रूप से घर में महिलाएं, अपने स्वास्थ्य को छोड़कर सभी के स्वास्थ्य का ख्याल रखती हैं। परिवार के अन्य सदस्यों, विशेष रूप से पति और बच्चों का यह कर्तव्य है कि वे उसे नियमित स्वास्थ्य जांच के वास्ते भेजें जिससे कि वह अपने शरीर और स्वास्थ्य को समझने की स्थिति में हो सके। उन्होंने कहा, हमें पत्नी या मां के महत्व का एहसास तब होता है जब वह नहीं होती है।

मुझे एहसास है कि भले ही मेरी मां का 80 वर्ष की आयु में निधन हुआ हो, लेकिन आज तक मुझे अपनी मां के खोने का एहसास है। इसलिए प्रत्येक परिवार को उस गृहिणी के महत्व को पहचानना चाहिए जो पूरे परिवार की देखभाल करती है।

## संक्षिप्त समाचार

### 15 से 21 मई के बीच दो कैरेबियाई देशों जमैका और एसवीजी का दौरा करेंगे राष्ट्रपति कोविंद

नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 15 मई से जमैका और सेंट विसेंट एंड ग्रेनेडाइन्स (एसवीजी) के एक सप्ताह के दौरे पर रहेंगे। यह किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की इन दो कैरेबियाई देशों की पहली यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह यात्रा कैरिबियाई क्षेत्र के देशों के साथ भारत के उच्च-स्तरीय जुड़ाव की निरंतरता को दर्शाती है और छोटे विकासशील द्वीपीय देशों के साथ काम करने की प्रतिबद्धता पर जोर देती है। मंत्रालय की ओर से शरीर बयान में कहा गया है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 15 से 21 मई तक जमैका और सेंट विसेंट एंड ग्रेनेडाइन्स (एसवीजी) की आधिकारिक यात्रा करेंगे। यह इन देशों की किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की पहली यात्रा होगी। उन्होंने कहा कि कोविंद 15 से 18 मई तक जमैका में रहेंगे, इस दौरान वह अपने समकक्ष, जमैका के गवर्नर जनरल सर पैट्रिक एलन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। कोविंद वहां के प्रधानमंत्री एंड्रयू होल्नेस और अन्य गणमान्य व्यक्तियों से भी मुलाकात करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रपति जमैका की संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक को भी संबोधित करेंगे। जमैका में 70,000 प्रवासी भारतीय रहते हैं, जो भारत के साथ एक जीवंत संतुष्ट का काम करते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह यात्रा एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है क्योंकि 2022 में भारत और जमैका के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 60 वर्ष पूरे हुए हैं। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कोविंद 18 से 21 मई तक एसवीजी का दौरा करेंगे।

### अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए सिंधिया कोई चुनौती नहीं : दिग्विजय

ग्यालियर, एजेंसी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने कहा कि उनके पूर्व संसदीय के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रदेश के अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए कोई चुनौती नहीं साबित होंगे। दिग्विजय सिंह ने ग्यालियर चंबल संभाग के कांग्रेस नेताओं की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सिंधिया कांग्रेस के लिए चुनौती नहीं हैं। इस समय सबसे बड़ी चुनौती भाजपा की विचारधारा और उसकी दमनकारी नीतियां हैं। कोई व्यक्ति चुनौती नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी लेकिन धनबल के कारण वह गिर गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 2023 में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगले चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी, बिजली के बढ़े हुए बिल, किसानों की समस्या और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ दर्ज फर्जी मुकदमे मुद्दे होंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज होने के खिलाफ एक माह के अंदर दतिया में बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा।

## सीमा की रक्षा करने वालों को सुविधाएं मुहैया कराना सर्वोच्च प्राथमिकता : राजनाथ

नई दिल्ली, एजेंसी। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की सीमा की रक्षा करने वालों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मुहैया कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित करना सरकार की व्यापक रक्षण नीति का एक प्रमुख हिस्सा है। राजनाथ सिंह ने कहा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मुहैया कराना है, जो हमारी सुरक्षा के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं, जो इस



देश की सीमा के पहरदार हैं। रक्षामंत्री ने देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में

सुधार के लिए बीआरओ की भी सहानुभूति की।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास का उदाहरण देते हुए सिंह ने कहा कि यह अब देश के समग्र विकास के लिए नया प्रवेश द्वार बन गया है। उन्होंने कहा कि मानव सभ्यता की यात्रा में सड़कों का बहुत महत्व रहा है। रक्षामंत्री ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, खाद्यान्न आपूर्ति, सेना की सामरिक जरूरतें, उद्योग और सामाजिक-आर्थिक प्रगति से जुड़े अन्य कार्यों को पूरा करने में सड़कों और पुलों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।

### जेपी नड्डा ने दिल्ली भाजपा से 'आप' पर हमले तेज करने को कहा

बेंगलूरु, एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी की दिल्ली इकाई से आम आदमी पार्टी (आप) पर हमला तेज करने को कहा है। इसके साथ ही नड्डा ने दिल्ली के नेताओं से दिल्ली सरकार की कमियों को उजागर करने को भी कहा है। नड्डा को शनिवार को दिल्ली भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ पंजाब पुलिस की कार्रवाई के बारे में जानकारी दी गई। भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने शनिवार को दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेजयंत जय पांडा, महासचिव (संगठन) दिल्ली सिद्धार्थन सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। सूत्रों ने कहा कि नड्डा को बग्गा प्रकरण और इस मामले में पार्टी द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी दी गई। सूत्रों ने कहा कि बैठक के दौरान आने वाले दिनों में संगठनात्मक कार्यों के



विवरण पर भी चर्चा की गई और एक विस्तृत रोडमैप तैयार किया गया। दक्षिण बेंगलूरु के भाजपा सांसद तेजस्वी सुर्या ने कहा कि शनिवार मध्यरात्रि को पंजाब हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई की और पंजाब पुलिस को आली सुनवाई तक बग्गा के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया। बग्गा ने कहा कि आप ने उनके खिलाफ एक टेलीविजन शो पर उनकी टिप्पणी के 'काट छंट' वाले वीडियो के आधार पर एक एफआईआर दर्ज की। जिसमें उन्होंने दिल्ली विधानसभा में कश्मीरी पंडितों के पलायन पर अपने भाषण के लिए अरविंद केजरीवाल से माफी की मांगी थी।

### सीएपीएफ और असम राइफल के जवानों को सेवानिवृत्ति के बाद आसानी से मिलेगा रोजगार

**गृहमंत्रालय ने लांच किया सीएपीएफ पुनर्वास पोर्टल**

नई दिल्ली, एजेंसी। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) और असम राइफल के कर्मियों को अब सेवानिवृत्त होने के बाद भी रोजगार मिल सकेगा। निजी सुरक्षा एजेंसियों के साथ रोजगार सुरक्षित करने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय ने कल्याण और पुनर्वास बोर्ड (डब्ल्यूआरबी) के माध्यम से 'सीएपीएफ पुनर्वास' पोर्टल शुरू किया है। यह पोर्टल सेवानिवृत्त कर्मियों को उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र और पसंदीदा रोजगार स्थान के साथ-साथ डब्ल्यूआरबी वेबसाइट पर उनके व्यक्तिगत विवरण अपलोड करके एक उपयुक्त काम खोजने में मदद करेगा। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने निर्देश पर यह कदम उठाया गया है। गृह मंत्रालय निजी सुरक्षा एजेंसियों (पीएसए) के पंजीकरण के लिए निजी सुरक्षा एजेंसियों के विनियमन अधिनियम (पीएसएआरए) के तहत एक पोर्टल चलाता है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार दोनों

वेबसाइटों को अब आपस में जोड़ा गया है, जिससे सेवानिवृत्त सीएपीएफ कर्मियों का 'डेटाबेस, जिन्होंने 'सीएपीएफ पुनर्वास' पर आवेदन किया है, पीएसए द्वारा वेबसाइट के माध्यम से देखा जा सकेगा। इसके परिणामस्वरूप नौकरी चाहने वालों और नौकरी प्रदाताओं दोनों के लिए एक ही मंच अब मिलने वाला है। इस कदम से सेवानिवृत्त कर्मियों को काफी फायदा होने वाला है।

उल्लेखनीय है कि सीएपीएफ कर्मियों और उनके परिवारों का कल्याण नरेंद्र मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है। गृह मंत्रालय की यह नई पहल 'सीएपीएफ पुनर्वास' के तहत पीएसए को डिजिटल रूप से डेटा बेस तक पहुंच प्रदान करती है। सुरक्षा सेवाओं की आवश्यकता वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की संख्या में वृद्धि के साथ, पीएसए की पर्याप्त वृद्धि ने सुरक्षा कर्मियों की उपलब्धता को बढ़ाया है।

### सिर्फ कांग्रेस गरीबों, मध्यम वर्गीय परिवारों के कल्याण के लिए करती है काम : राहुल



नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में वृद्धि को लेकर रविवार को सरकार पर हमला तेज करते हुए कहा कि केवल उन्हीं की पार्टी गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों की भलाई के लिए काम करती है। गौरतलब है कि शनिवार को रसोई गैस के दाम प्रति सिलेंडर 50 रुपये तक बढ़ा दिए गए हैं, जो बीते छह हफ्तों से अधिक समय में गैस की कीमतों में दूसरी वृद्धि है।

राहुल ने एक ट्वीट में घरेलू सिलेंडर के दामों की तुलना की। उन्होंने बताया कि 2014 में कांग्रेस नीत सरकार में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 827 रुपये की सब्सिडी के साथ 410 रुपये थी, जबकि 2022 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार के तहत इसकी कीमत 999 रुपये से अधिक है और 'सब्सिडी' 'शून्य' है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा तब के दो सिलेंडर की कीमत के बराबर आज एक सिलेंडर की कीमत है। केवल कांग्रेस गरीब और मध्यम वर्गीय भारतीय परिवारों की भलाई के लिए काम करती है। यह हमारी आर्थिक नीति का मूल है।

शनिवार को सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि के बाद राहुल ने कहा था कि करोड़ों भारतीय परिवार 'अत्यधिक महंगाई', बेरोजगारी और 'खराब शासन' के खिलाफ मुश्किल जंग लड़ रहे हैं।

## कश्मीर के बांदीपोरा में पकड़े गए दो हाइब्रिड आतंकी

जम्मू, एजेंसी। जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा जिले में दो हाइब्रिड आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने रविवार को बताया कि इन लोगों के पास से हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं। कहा जा रहा है कि ये आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि उन्हें इनपुट मिला था कि ये आतंकी बांदीपोरा से श्रीनगर जा रहे हैं। इस पर एक जगह सुरक्षा बलों ने चेक पॉइंट लगाया और इन लोगों को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि नाकेबंदी के दौरान पैदल गुजरने वाले और वाहन सवार लोगों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान एक कार में ये संदिग्ध लोग मिले और इनकी ओर से पहचान छिपाने की कोशिश की जा रही थी। ये लोग बचकर निकलना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने सूझबूझ के साथ इन्हें



गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार हाइब्रिड आतंकी को पहचान आबिद अली और फैसल हसन परं के तौर पर की गई है। दोनों ही लोग पुलवामा के हेरपोरा अचन के रहने वाले हैं। दोनों लोगों और वाहन की तलाश करने पर एक-47

राइफल समेत बड़े पैमाने पर हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। कार से दो मैगजीन, एक पिस्तौल और कुछ कारतूस पाए गए हैं। पुलिस की ओर से उस कार को भी सीज कर लिया गया है, जिसका इस्तेमाल हाइब्रिड आतंकी

बांदीपोरा से श्रीनगर जा रहे हैं। इस पर एक जगह सुरक्षा बलों ने चेक पॉइंट लगाया और इन लोगों को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि नाकेबंदी के दौरान पैदल गुजरने वाले और वाहन सवार लोगों की जांच की जा रही थी।

इसी दौरान एक कार में ये संदिग्ध लोग मिले और इनकी ओर से पहचान छिपाने की कोशिश की जा रही थी। ये लोग बचकर निकलना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने सूझबूझ के साथ इन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार हाइब्रिड आतंकी को पहचान आबिद अली और फैसल हसन परं के तौर पर की गई है। दोनों ही लोग पुलवामा के हेरपोरा अचन के रहने वाले हैं। दोनों लोगों और वाहन की तलाश करने पर एक-47 राइफल समेत बड़े पैमाने पर हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। कार से दो मैगजीन, एक पिस्तौल और कुछ कारतूस पाए गए हैं। पुलिस की ओर से उस कार को भी सीज कर लिया गया है, जिसका इस्तेमाल हाइब्रिड आतंकी कर रहे थे। इनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है।

### पंजाब से आए लोगों ने हिमाचल विधानसभा के बाहर फहराया खालिस्तानी झंडा

नई दिल्ली, एजेंसी। हिमाचल विधानसभा के मुख्य द्वार और दीवारों पर 'खालिस्तान' के झंडे बंधे पाए जाने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रविवार को कहा कि सरकार विभिन्न राज्यों के साथ सीमाओं पर सुरक्षा की समीक्षा करेगी। कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक ने इस बात की संभावना जताई है कि घटना में 'पंजाब के कुछ पर्यटकों' का हाथ है। सीएम ने इसी के बाद सीमा सुरक्षा की समीक्षा की बात कही है। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है जो भारत के विभिन्न हिस्सों से पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब के साथ अपनी सीमा साझा करता है। जयराम ठाकुर ने कहा, 'मैं घटना की निंदा करता हूँ। मैं राज्य के लोगों से शांति बनाए रखने का आग्रह करता हूँ। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम

जल्द ही अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि घटना के बाद प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और दोषियों को पकड़ने के लिए जांच के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा, 'घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और मैंने जांच के आदेश दिए हैं। एक प्राथमिकी भी दर्ज की गई है और हम दोषियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं।' जयराम ठाकुर ने कहा कि दोषियों ने विधानसभा परिसर के भीतरी इलाकों में पुलिस की तैनाती का फायदा उठाकर दीवारों और गेट पर झंडे लगा दिए। उन्होंने कहा, हकूत जा रहा है कि घटना रात में हुई थी। विधानसभा परिसर के अंदरूनी हिस्सों में पुलिस तैनात है, क्योंकि यह बहुत बड़ा है। इसलिए पोस्टर को दीवार और विधानसभा के मुख्य द्वार पर लगाया गया। दोषियों के बारे में सुराग हासिल करने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है।



## संक्षिप्त समाचार

## एस .जे .डी पब्लिक स्कूल में मनाया गया मातृत्व दिवस

अजय सक्सेना, मदरलैंड संवाददाता, मैनपुरी। आज के भौतिकवादी परिवेश में माता का स्थान सर्वोच्च है, हमें माता के दिशा निर्देश का सदैव पालन करना चाहिए। उक्त विचार एस .जे. डी पब्लिक स्कूल में प्रधानाचार्य लोकेंद्र पाल ने मातृ दिवस पर विद्यालय में आयोजित गोष्ठी में व्यक्त करते हुए कहा कि मां जीवनदायिनी है मां के कारण ही हम इस सुंदर संसार को देख पाते हैं, मां के चरणों में स्वर्ग होता है। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य लोकेंद्र ने कहा कि मां भगवान का दूसरा रूप है, मां की सेवा ही भगवान की पूजा है। इस अवसर पर विनय, संतोष श्रीवास्तव, नीतू, राजश्री, कंचन, दामिनी, मधु, प्रिया, शिखा, अर्चना, शिवानी, दीक्षा, सपना और चुन्नी आदि उपस्थित रहे।

## मदर्स-डे के मौके पर माता का सम्मान किया गया

मयंद मोहन, मदरलैंड संवाददाता, नूंह/मेवात। जिला में मदर्स-डे के मौके पर माता का सम्मान किया गया। जहां नन्हें-मुन्नों ने अपनी माता को उपहार भेंट किए तो बड़ों ने भी अपनी माता के चरण छुए। वैसे तो भारत वर्ष में हर दिन मदर्स-डे होता है लेकिन पाश्चात्य संस्कृति की छाप के अलावा माता के लिए भी एक दिन विशेषता के चलते यहां इस दिन की धूम थी। स्कूलों में भी प्रबंधन ने इस दिन अपनी माता को उपहार देकर फोटो स्कूल के ग्रुप पर डालने को कहने पर कई स्कूली बच्चों तनिष्का, लव, पियूष आदि ने शनिवार से ही तैयारियों में जुटकर रविवार को अपनी माता को उपहार दिये। माता भी अपने बच्चों द्वारा दिए गए उपहार के बाद स्नेहपूर्वक उनको धन्यवाद कर रही थी। वहीं, जिन की माता अब इस दुनिया में नहीं रही वह अपनी माता की तस्वीर व यादों के सहारे इस दिन को मनाकर आंखें गीली करते दिखाई दिए।



## तीन दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ

मदरलैंड संवाददाता, नूंह/मेवात। आयुष विभाग हरियाणा एवं हरियाणा आयोग योग के संयुक्त त्वाधान में रविवार को हिन्दू वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, नूंह में तीन दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। इस योग प्रशिक्षण में श्रीमति नीरज रानी व मनीष आर्य द्वारा योग आसनो व प्रणायाम के द्वारा शरीर के सभी रोगों से मुक्ति का तरीका बताया गया और स्कूल में उपस्थित सभी बच्चों व जन साधारण को योग करवाया। इस योग कार्यक्रम के नीडल अधिकारी डा0 रामावतार शर्मा, योग विशेषज्ञ ने बताया कि यह योग प्रशिक्षण 10 मई 2022 तक चलेगा। सभी शहरवासी इस स्वास्थ्य शिविर का भरपूर लाभ उठावें। इस प्रशिक्षण का सीधा प्रसारण हरियाणा योग आयोग के फेसबुक पेज पर भी किया जा रहा है। इस मौके पर डा0 मोहम्मद कम्मर, जिला आयुष अधिकारी, डा0 शशांक, डा0 सोनिया, डा0 सीमा, डा0 अर्चना, डा0 असलम, डा0 तरुण, राजेश शास्त्री झम्मन लाल व उनके अन्य साथी भी शामिल रहे।



## प्रेमी को पिटाता देख प्रेमिका ने खराया जहर, लड़के की मौत

बिजनौर, एजेंसी। जिले में एक लड़की ने अपने प्रेमी को पिटाता देख जहर खा लिया। जबकि प्रेमी को प्रेमिका के घरवालों ने पिटाई के बाद जहर खिला दिया। इससे उसकी मौत हो गई। दरअसल, युवक अपनी प्रेमिका के बुलावे पर उसके घर गया था। लेकिन लड़की के घर वालों ने उसे पकड़ लिया। उसकी जमकर पिटाई की। लड़की उसे छोड़ देने की मिनतें करती रही। लेकिन घरवालों ने उसे नहीं छोड़ा। इसके बाद प्रेमिका ने घर के भीतर जाकर सल्फाश की गोली खा लिया। वहीं, लड़के के परिजनों का आरोप है कि लड़की के घर वालों ने उनके बेटे को जहर दिया है। जानकारी के मुताबिक यह मामला चांपपुर थाना क्षेत्र के जलीलपुर गांव का है। जलीलपुर गांव निवासी अशोक का पड़ोस में रहने वाली लड़की से कई सालों से प्रेम संबंध था। अशोक की मां ने बताया कि लड़की ने शनिवार देर रात उनके बेटे को घर बुलाया था। पास में ही घर था तो वो चला गया। सुबह परिवार के लोगों ने अशोक को लड़की के साथ देख लिया। उसके बाद अशोक को पीटना शुरू कर दिया। लड़की ने अपने घरवालों से अशोक को छोड़ने की बात कही। साथ ही यह भी कहा कि इसके मत मारो, वरना मैं जहर खा लूंगी। फिर भी घरवालों ने प्रेमी को पीटना बंद नहीं किया। इस पर लड़की ने घर में रखा जहर खा लिया। आरोप है कि प्रेमिका के घरवालों ने लड़के को भी जहर खिला दिया। बताया जा रहा है कि अशोक भागते-भागते घर आया और किसी तरह उसने पूरी बात बताई। अशोक के परिजन उसे लेकर अस्पताल की तरफ भागे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। अस्पताल में भर्ती प्रेमिका की मां ने लड़के पर रेप का आरोप लगाया है। वहीं, मृतक प्रेमी की मां का कहना है कि दोनों एक-दूसरे से प्यार करते थे। लड़की के घरवालों ने मेरे बेटे को जहर देकर उसे मार दिया। इस मामले में पुलिस ने मृतक लड़के की मां की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा।

## स्कूल बसों में दो इमरजेंसी गेट व 5 से 7 ग्लि अनिवार्य

गाजियाबाद, एजेंसी। गाजियाबाद जिले के मोदीनगर हादसे के बाद स्कूल बसों के लिए सुरक्षा के नए मानक तय किए गए हैं। जनपद में अब नए नियम के अनुरूप स्कूल बसों की फिटनेस होगी। बड़ी बसों में दो आपातकालीन गेट होंगे। एक आपातकालीन गेट बस के पीछे होगा। इसके अलावा मिनी बस में भी पूरा आपातकालीन गेट लगाया होगा। आग बुझाने के लिए मिनी बस में दो सिलेंडर रखे जाएंगे। छोटे बच्चों के लिए सीट बेल्ट लगाना जरूरी नहीं होगा। बस में बैठकर बच्चे मुंह बाहर न निकालें, इसके लिए पांच से सात ग्लि लगाना अनिवार्य किया गया है। मोदीनगर के दयावती स्कूल बस हादसे में छत्र अनुराग शर्मा की मौत हो गई थी। 11 वर्षीय छत्र जिस बस से स्कूल आया था, वह अनफिट थी। दो साल से बस बिना फिटनेस चल रही थी। हालांकि, विभाग ने बस को ब्लैक लिस्ट में डाल रखा था। इस मामले में लापरवाही बरतने पर तीन अधिकारियों को निलंबित किया गया था। इस घटना के बाद शासन ने स्कूल बसों के लिए नए नियम बनाए हैं, जिन्हें तत्काल लागू कराने के आदेश जारी हुए हैं। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) प्रणव झा ने बताया कि स्कूल की बड़ी बसों में अभी तक एक ही आपातकालीन गेट होता था। वह बस की साइड में रहता है।

## रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं - अविनाश

» मदरलैंड संवाददाता

मैनपुरी। विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वाधान में महाराजा तेज सिंह जिला चिकित्सालय में आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ करते हुए जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है, रक्तदान करने वाले व्यक्ति द्वारा दिए गए ब्लड से कई लोगो की जिंदागी बचाई जा सकती है। उन्होंने रक्त दाताओं से कहा कि आप द्वारा दान किया गया रक्त किसी को नया जीवन देने का कार्य करेगा।

उन्होंने कहा कि संसार में रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया रक्तदान बिना किसी जाति, धर्म, मजहब, देश, प्रदेश का भेदभाव किए बिना, ऐसे व्यक्तियों जिन्हें ब्लड की आवश्यकता है, का जीवन बचाने का कार्य करेगा। श्री सिंह ने कहा कि समाज हित में

## सुपरटेक के अवैध ट्विन टावर को गिराने की तारीख नहीं बढेगी

नोएडा, एजेंसी। सेक्टर-93ए सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट परिसर में बने ट्विन टावर को गिराने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने अतिरिक्त समय देने से इनकार कर दिया है। प्राधिकरण ने तय 22 मई को ही टावर ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। एजेंसी ने इनको गिराने के लिए तीन महीने का अतिरिक्त समय मांगा था। ट्विन टावर को गिराने से पहले उसमें हर फ्लोर पर बनी चारदीवारी, फ्लैटों के अंदर बने अलग-अलग हिस्से आदि को तोड़े जाने का काम चल रहा है। दो दिन से सीबीआरआई की टीम ने ट्विन टावर का निरीक्षण भी किया था। टीम ने अभी तक हुए काम की प्रगति देखी। महत्वपूर्ण यह है कि पिछले महीने एजेंसी ने ध्वस्तीकरण के लिए 22 मई के बाद दिन महीने का और समय मांगने के लिए नोएडा प्राधिकरण में पत्र दिया था। इस पत्र को लेकर कुछ दिन तक मंथन करने के बाद नोएडा प्राधिकरण ने इसको खारिज कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी को अतिरिक्त समय नहीं दिया जा सकता। तय समय में ही एजेंसी को टावर गिराने होंगे। वहीं एजेंसी के अधिकारी भी मान चुके हैं कि 22 मई को टावर



ध्वस्तीकरण करना संभव ही नहीं है। अधिकारिक सूत्रों की मानें तो अब अतिरिक्त समय लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुपरटेक बिल्डर को जाना होगा। ट्विन टावर को गिराने से पहले उसमें हर फ्लोर पर बनी चारदीवारी, फ्लैटों के अंदर बने अलग-अलग हिस्से आदि को तोड़े जाने का काम चल रहा है। दो दिन से सीबीआरआई की टीम ने ट्विन टावर का निरीक्षण भी किया था। टीम ने अभी तक हुए काम की प्रगति देखी। महत्वपूर्ण यह है कि पिछले महीने एजेंसी ने ध्वस्तीकरण के लिए 22 मई के बाद तीन

है इसे व्यर्थ न जाने दें हर धर्म, मजहब परोपकार का संदेश देता है किसी भी धर्म ने किसी दूसरे व्यक्ति को दुख पहुंचाने का संदेश नहीं दिया है इसलिए सभी लोग अपने-अपने धर्म के अनुसार जीवन यापन कर मानव कल्याण के लिए कार्य करें। आयोजित रक्त दान शिविर में रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव डॉ.आर.पी सिंह सहित 7 रक्त दाताओं ने रक्तदान किया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी राम जी मिश्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. पी पी सिंह, प्रभारी सीएमएस डॉ. अशोक कुमार, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजीव राव बहादुर, डॉ. आरपी सिंह, डीटीओ अशोक मिश्र, कोषाध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी घनश्याम दास गुप्ता, सदस्य डॉ. चंद्र मोहन सक्सेना, डीएमसी यूनिफेस संजीव पाण्डेय, डॉ. राज विक्रम सिंह, जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी रवींद्र सिंह गौर, विनोद कुमार तिवारी, जैनेंद्र सिंह, निधि दास, संतोष वर्मा, ओमजी शुक्ला, वाय.पी सिंह आदि उपस्थित रहे।

## मुस्लिम समाज पहले गौमाँस खाने से परहेज करे, तमी होगा गौतस्करी का अंत- खुशीद राजाका

» मदरलैंड संवाददाता

नूंह/मेवात। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक खुशीद राजाका ने गौतस्करी के खिलाफ हो रही सामाजिक पंचायतों का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि पंचायत करने का उद्देश्य तब ही सफल होगा जब मुस्लिम समाज गौमाँस खाने से परहेज करेगा इसलिये गौतस्करी का विरोध करने के साथ पहले मुस्लिम समाज गौमाँस खाना बंद करे और मुस्लिम समाज के धर्मगुरु, जन प्रतिनिधि और समाजसेवी खुलकर इस्लाम और कानून की रोशनी में लोगों को गौहत्या के खिलाफ जागरूक करें। आज जनप्रतिनिधियों को वोट बैंक की राजनीति के लिये गौतस्करी को हिमायत करने के बजाय पुलिस प्रशासन का सहयोग करना चाहिए वना मेवात अपराध की भट्टी में जलकर खाक हो जायेगा। संयोजक खुशीद राजाका ने बताया कि वर्ष 2015 में फिरोजपुर झिरका में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने मुस्लिम गौपालक सम्मेलन में गौहत्या को रोकने के लिये मुस्लिम गौपालकों को सम्मानित किया था। कार्यक्रम में मुस्लिम गौपालकों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल और आरएसएस के इन्द्रेक्ष कुमार को दो गाय दान में देकर गौसेवा के क्षेत्र में नया इतिहास लिखा था। लेकिन सम्मेलन के तुरन्त बाद गडित गौसेवा



आयोग में किसी मुस्लिम गौपालक को सदस्य भी नहीं बनाया और ना ही गौसेवा आयोग ने गौरक्षा के लिए मुस्लिम समाज के बीच कोई जागरूकता अभियान चलाया। क्योंकि इस बुराई को मिटाना एकदिन का काम नहीं है बल्कि निरंतर प्रयास करते रहने के जरूरत है। इसलिये मुस्लिम समाज के जिम्मेदार लोग पहले स्वयं गौमाँस खाने का त्याग करके खुद एक मिसाल बनें, तब जाकर ही आम व्यक्ति पर इसका असर होगा।

## अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने चलाया नाईट डोमिनेशन अभियान

» मदरलैंड संवाददाता

नारनौल। पुलिस ने जिले में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए शनिवार/रविवार की रात को नाईट डोमिनेशन अभियान चलाया। अभियान के दौरान जिले भर की पुलिस रात भर अलर्ट रही। इसके साथ ही पुलिस ने रात के समय सड़क पर दौड़ने वाले वाहनों व सड़क किनारे की गहनता से जांच व पूछताछ करने के बाद ही आगे बढ़ने दिया। अभियान के दौरान पुलिस की 58 चौकियां पार्टीयों ने चौकियां की। जिसमें पुलिस के द्वारा 1094 वाहनों को चैक किया गया। इनमें से 72 वाहनों के चालान किए गए और एक वाहन को इंपाउंड किया गया। महेंद्रगढ़ जिले में बीती रात को पुलिस विभाग द्वारा रात्रि 10 बजे से सुबह 4 बजे तक नाईट डोमिनेशन किया गया। जिसमें पूरे जिले में 33 स्थानों पर नाके लगाए गए और 20 अलग-अलग स्थानों पर पैट्रोल इंचाज लगाई। जिले के सभी थाना प्रबंधकों व चौकी इंचाज में भी अपने-अपने क्षेत्र में नाके लगाए। साथ-साथ सभी पीसीआर के साथ कुल 384 पुलिस कर्मचारियों समेत जिले के एएसपी और डीएसपी नाईट डोमिनेशन में रहे। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस महानिदेशक हरियाणा के आदेश से पूरे हरियाणा में नाईट डोमिनेशन किया गया। जिसके तहत जिला महेंद्रगढ़ में भी पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन ने डीजीपी साहब के आदेश की पालना करते हुए नाईट डोमिनेशन अभियान चलाया। जिले को पूरी



तरह सील करने के लिए 33 स्थानों पर नाके लगाए, 384 पुलिस कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया गया और 20 अलग-अलग जगहों पर पैट्रोल गस्त, पीसीआर ड्यूटी लगाई गई। जिले के सभी एएसपी, डीएसपी भी रात्रि चौकियां पर रहे। एएसपी विक्रान्त भूषण ने अपने आदेश में कहा कि रात्रि चौकियां के दौरान दुपहिया व चौपहिया सभी वाहनों को चैक करेंगे, खासकर स्कार्पियो, बुलेरो, टाटा 407, पिक अप व बिना नंबर वाले वाहनों की गहनता से चौकियां करेंगे। इन वाहनों का पूरा विवरण रजिस्टर में दर्ज करेंगे और पैट्रोल आने जाने वाले लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। उन्होंने कहा कि चौकियां के दौरान जिले में अवैध शराब, गांजा व अस्पला पकड़ा जा चुका है। आगे भी इस तरह का चौकियां अभियान जारी रहेगा। डीजीपी पंचकुला, हरियाणा के आदेशों के अनुपालना में कल रात महेंद्रगढ़ जिले में एक रात्री वरुच्य अभियान ने एएसपी विक्रान्त भूषण के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। इस अभियान के दौरान 10 लोग गिरफ्तार किए, जिनमें अवैध शराब का कारोबार करने वाले और अवैध हथियार रखने वाले शामिल हैं।

गा और एक वाहन को इंपाउंड किया गया। नाईट डोमिनेशन में वाहनों की चौकियां के दौरान अबकारी अधिनियम के तहत 9 मुकदमे दर्ज किए गए। जिनमें अवैध शराब की करीब 81 बोतल देशी शराब और 12 बोतलें बरामद की गई हैं व 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। नाईट डोमिनेशन के दौरान पुलिस ने अवैध रूप से शराब का कारोबार करने वालों पर शिकंजा कसा है। इसके साथ ही नाईट डोमिनेशन के दौरान जिला पुलिस ने अवैध देशी पिस्टल के साथ एक आरोपित को गिरफ्तार किया है, जो लूट और हत्या के मामलों में फरार चल रहा था और वांछित अपराधी था।

यह नाईट डोमिनेशन समय-समय पर पुलिस महानिदेशक हरियाणा के आदेश से पूरे हरियाणा में चलाया जाता है। इस अभियान का मुख्य कारण यह है कि कई बार चौकियां के दौरान वांछित अपराधी भी पुलिस की गिरफ्तार में फंस जाते हैं। पहले भी चौकियां के दौरान जिले में अवैध शराब, गांजा व अस्पला पकड़ा जा चुका है। आगे भी इस तरह का चौकियां अभियान जारी रहेगा। डीजीपी पंचकुला, हरियाणा के आदेशों के अनुपालना में कल रात महेंद्रगढ़ जिले में एक रात्री वरुच्य अभियान ने एएसपी विक्रान्त भूषण के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। इस अभियान के दौरान 10 लोग गिरफ्तार किए, जिनमें अवैध शराब का कारोबार करने वाले और अवैध हथियार रखने वाले शामिल हैं।

## गौगस्टर संजीव जीवा की चार करोड़ की संपत्ति जब्त

मुजफ्फरनगर, एजेंसी। जिला

प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट में कुख्यात संजीव उर्फ जीवा की चार करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली। जिलाधिकारी के आदेश पर राजस्व विभाग के अधिकारियों ने महावीर चौक स्थित तीन मंजिला भवन को उग्र. गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा-14(1) के तहत जब्त किया। इस दौरान आसपास भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। चार दिन पहले इस तीन मंजिला भवन को अवैध निर्माण बताते हुए एमडीए ने सील कर दिया था। इस भवन में जूतों का शुरुम चलता है। एएसपी अभिषेक यादव ने बताया कि संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा पुत्र ओमप्रकाश माहेश्वरी निवासी आदमपुर थाना शाहपुर, उमद सिंह, मालाराम थानेदार, शमशेर सिंह, आशीष के परिवार से भूपसिंह, सतबीर, अभय सिंह, अजित सिंह, जिले सिंह व प्रमोद काट रहा है। संजीव जीवा का नाम पूर्वांचल के विधायकों ब्रह्मदत्त द्विवेदी और कृष्णानंद हत्याकांड में भी आया। हालांकि इसका सहयोग नहीं किया गया है। आशीष ने यह गोल्ड मेडल अपने स्वर्गवासी पिता प्रदीप कुमार को समर्पित किया। गौरतलब है कि आशीष ने बंगलुरु में आयोजित खेले इंडिया कबड्डी प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय कोटा की तरफ से खेलते हुए गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। अपने फाइनल मैच में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी के साथ खेलते हुए आशीष की टीम ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। आशीष इस टीम के कप्तान थे। इस सफलता पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टीम को सम्मानित किया था।

मुजफ्फरनगर, एजेंसी। जिला प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट में कुख्यात संजीव उर्फ जीवा की चार करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली। जिलाधिकारी के आदेश पर राजस्व विभाग के अधिकारियों ने महावीर चौक स्थित तीन मंजिला भवन को उग्र. गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा-14(1) के तहत जब्त किया। इस दौरान आसपास भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। चार दिन पहले इस तीन मंजिला भवन को अवैध निर्माण बताते हुए एमडीए ने सील कर दिया था। इस भवन में जूतों का शुरुम चलता है। एएसपी अभिषेक यादव ने बताया कि संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा पुत्र ओमप्रकाश माहेश्वरी निवासी आदमपुर थाना शाहपुर, उमद सिंह, मालाराम थानेदार, शमशेर सिंह, आशीष के परिवार से भूपसिंह, सतबीर, अभय सिंह, अजित सिंह, जिले सिंह व प्रमोद काट रहा है। संजीव जीवा का नाम पूर्वांचल के विधायकों ब्रह्मदत्त द्विवेदी और कृष्णानंद हत्याकांड में भी आया। हालांकि इसका सहयोग नहीं किया गया है। आशीष ने यह गोल्ड मेडल अपने स्वर्गवासी पिता प्रदीप कुमार को समर्पित किया। गौरतलब है कि आशीष ने बंगलुरु में आयोजित खेले इंडिया कबड्डी प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय कोटा की तरफ से खेलते हुए गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। अपने फाइनल मैच में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी के साथ खेलते हुए आशीष की टीम ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। आशीष इस टीम के कप्तान थे। इस सफलता पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टीम को सम्मानित किया था।

## गोल्ड मेडल विजेता आशीष बड़ेसरा के सम्मान समारोह में पहुंचे उपायुक्त, खेल समिति व ग्रामीणों ने लाखों रुपये देकर खिलाड़ी की हौसला अफजाई की

» मदरलैंड संवाददाता

नारनौल। कोई भी संस्था या व्यक्ति जब तक सफल नहीं होता तब तक उसकी राह में कठिनाइयां नहीं होती। गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी आशीष ने इसी तरह की बाधाओं को झेलते हुए गांव व जिले का नाम रोशन किया है। यह बात उपायुक्त श्यामलाल पूनिया ने रविवार को खेले इंडिया कबड्डी प्रतियोगिता के गोल्ड मेडल विजेता आशीष बड़ेसरा के अपने गांव गहली में पहुंचने पर समस्त ग्रामवासियों व युवा खेल कमेटी की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में कही। इस अवसर पर ग्रामीणों व खेल समिति ने लाखों रुपये देकर खिलाड़ी की हौसला अफजाई की। उपायुक्त ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। यहां के खिलाड़ियों के लिए गांव में कबड्डी के लिए



दांचागत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, ताकि युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने का मौका मिले। उन्होंने कहा कि मदर डे पर आशीष ने अपनी मां को गोल्ड मेडल के रूप में बहुत बड़ा तोहफा दिया है। मुख्य अतिथि

के तौर पर पहुंचे उपायुक्त श्यामलाल पूनिया का घोसारा मंत्रबंदार, सरपंच नरेश कुमार, राजवीर बड़ेसरा ने पगड़ी पहनाकर सम्मान किया। जाट महासभा महेंद्रगढ़ के प्रधान विजयपाल एडवोकेट, जेजेपी के जिला

प्रवक्ता सिकंदर गहली, योगेश महरमपुर, सुरेंद्र सोनी, उत्तम बड़ेसरा, इनेलो से छोटे लाल प्रधान, बीजेपी से सतबीर बड़ेसरा, छोटे लाल, युवा प्रदेश महासचिव नवीन राव, प्रवक्ता धर्मसिंह, मास्टर कुलदीप सिंह, अमरजीत बड़ेसरा, महेंद्र बड़ेसरा, छाजू पटेल, महिपाल, जगदेव जाखड़, सतपाल मास्टर, रवि, धर्मपाल, मास्टर सतनारायण, अनिल पहलवान, अमित, मोहित, नीरज, विनोद पहलवान, रोहतास सिंह, रविंद्र डीपी, मुख्तियार, रामफल, उमद सिंह, मालाराम थानेदार, शमशेर सिंह, आशीष के परिवार से भूपसिंह, सतबीर, अभय सिंह, अजित सिंह, जिले सिंह व प्रमोद काट रहा है। संजीव जीवा का नाम पूर्वांचल के विधायकों ब्रह्मदत्त द्विवेदी और कृष्णानंद हत्याकांड में भी आया। हालांकि इसका सहयोग नहीं किया गया है। आशीष ने यह गोल्ड मेडल अपने स्वर्गवासी पिता प्रदीप कुमार को समर्पित किया। गौरतलब है कि आशीष ने बंगलुरु में आयोजित खेले इंडिया कबड्डी प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय कोटा की तरफ से खेलते हुए गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। अपने फाइनल मैच में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी के साथ खेलते हुए आशीष की टीम ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। आशीष इस टीम के कप्तान थे। इस सफलता पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टीम को सम्मानित किया था।

संक्षिप्त समाचार

हरकी पैड़ी से बाइक चोरी करने वाले दो गिरफ्तार

हरिद्वार, एजेंसी। पुलिस ने हरकी पैड़ी क्षेत्र से बाइक चोरी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से चोरी की एक बाइक समेत वारदात में इस्तेमाल बाइक को भी बरामद किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सम्बंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। जिनको पुलिस ने मेडिकल के बाद न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। कोतवाली नगर प्रभारी निरीक्षक राकेन्द्र सिंह कठैत ने बताया कि संदीप पुत्र महिपाल निवासी पनियाला गंग नहर हरिद्वार बाइक पर शनिवार को स्नान के लिए हरकी पैड़ी आए थे। जिन्होंने गुरु के लंगर के पास अपनी बाइक खड़ी कर गंगा स्नान करने चले गए, जब वापस लौटे तो बाइक नादरत मिली। जिन्होंने बाइक की आसपास काफी तलाश की, मगर कोई सुरांग नहीं लग सका। पीड़ित ने बाइक चोरी के सम्बंध में हरकी पैड़ी चैकी पुलिस को तहरीर देकर घटना की शिकायत की। हरकी पैड़ी चैकी प्रभारी मुकेश थलेडी ने तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। चैकी प्रभारी मुकेश थलेडी ने घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालते हुए चोरी की पहचान के प्रयास करते हुए तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान पुलिस ने सूचना पर रोड़ी बेलवाला क्षेत्र स्थित रैन बसेरा के पास चोरी की बाइक के साथ दो युवकों को दबोच लिया। आरोपियों ने बाइक की पहचान छुपाने के लिए नम्बर प्लेट निकाल कर फेंक दी थी। पुलिस दोनों आरोपियों को कोतवाली लेकर पहुंची, जहां पर पुछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना नाम सुनी प्रसतीश निवासी मिरस्पूर कनखल और इसरार पुत्र सतार निवासी पदार्था चधरी हरिद्वार बताते हुए खुलासा किया कि वह भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में खड़ी बाइकों के बीच अपनी बाइक खड़ी कर देते थे और उनका साथी बगल में खड़ी का ताला तोड़कर चोरी कर ले जाता था। चोरी की बाइक को वह औने पौने दामों में बेच कर अपना खर्च चलाते थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सम्बंधित धाराओं में मामला दर्ज करते हुए मेडिकल के बाद न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। वहीं वारदात में इस्तेमाल बाइक को सीज कर दिया।

पुलिस को मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

हरिद्वार, एजेंसी। सिडकुल थाना क्षेत्र में युवक के शव की शिनाख्त न होने पर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखे शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार है। बता दें कि अज्ञात शव को 72 घंटे तक शिनाख्त के लिए इंतजार किया जाता है। जिसके बाद तलाश की शिनाख्त नहीं होती तो पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाती है। पुलिस सिडकुल भी क्षेत्र से मिले शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसमें मृतक युवक की मौत के राज से पर्दा उठ सकेगा। सिडकुल थाना प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार उनियाल ने बताया कि डेडो वैक के पास लहुलुहान हालत में मिले युवक के शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है, जिसकी पहचान के प्रयास करवाए जा रहे हैं। मृतक के शरीर पर चोट के निशान नहीं थे, पर उसका गुसांग बुरी तरह से लहुलुहान किया गया था। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पहचान के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है। लावारिस होने के कारण नियमानुसार 72 घंटे तक शव को रखा जाता है। यदि 72 घंटे के बाद भी अगर कोई शिनाख्त नहीं हो पाती, तो पुलिस पोस्टमार्टम की कार्यवाही शुरू करती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ही युवक की हत्या की पुष्टी सुलझ सकती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक की मौत का समय व हत्या करने से पहले उसे कोई जहरीला पदार्थ तो नहीं दिया गया था, तमाम बिंदुओं पर जांच के बाद पुलिस केस को समाप्त करने में कामयाब हो सकती है। प्रथम दृष्टया हत्या के पीछे अवैध संबंध माने जा रहे हैं।

शादी समारोह में कैदी को लेकर पहुंची पंजाब पुलिस

बाजपुर, एजेंसी। पंजाब कि नाभा जेल को तोड़ने के आरोप में जेल में बंद एक कैदी को हाईकोर्ट के आदेश पर पंजाब पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच शादी समारोह में भाग दिलवाने के लिए बाजपुर लेकर पहुंची। बड़ी संख्या में पंजाब पुलिस के बाजपुर पहुंचने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं शादी समारोह अज्ञात कारणों के चलते नहीं होने पर चंद घंटों के बाद पंजाब पुलिस मूलजिम को लेकर वापस लौट गई। बता दें कि बाजपुर के ग्राम धनखारा निवासी मो. आसिम बीते कई वर्षों से पंजाब की नाभा जेल को तोड़ने के आरोप में जेल में बंद है। जेल में बंद कैदी मोहम्मद आसिम की बहन की शादी कुछ दिनों के बाद होनी थी जिसको लेकर आसिम ने पंजाब हाईकोर्ट में शादी समारोह में भाग लेने के लिए अनुमति देने की मांग की थी। मोहम्मद आसिम की मांग पर हाईकोर्ट ने मोहम्मद आसिम को 5 दिन की कड़ी सुरक्षा के बीच पैरोल देने की स्वीकृति प्रदान की थी जिसके चलते कड़ी सुरक्षा के बीच मोहम्मद आसिम को बाजपुर लाया गया। बाजपुर में अचानक पंजाब पुलिस का जमावड़ा देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। जहां पंजाब पुलिस के आने की जानकारी लेने के लिए लोग काफी उत्सुक दिखाई दिए। वहीं जैसे ही पंजाब पुलिस बाजपुर कोवाली में कागजी कार्रवाई पूरी करने के उपरांत मोहम्मद आसिम के घर पहुंची तो मोहम्मद आसिम के परिजनों ने उसकी बहन की शादी को अज्ञात कारणों के चलते टल जाने की बात कही। इसी के चलते पंजाब पुलिस चंद घंटों के बाद मुलजिम मोहम्मद आसिम को लेकर वापस रवाना हो गई। पंजाब से पैरोल पर मोहम्मद आसिम को लाने के लिए 1 डीएसपी, 2 इंस्पेक्टर, 3 सब इंस्पेक्टर सहित 22 पुलिस सिपाही मौजूद रहे। इस दौरान पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर रमण जीत सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर मोहम्मद आसिम को पैरोल पर बाजपुर के ग्राम धनखारा लाया गया है।

श्रम महासंघ के 11 वे राष्ट्रीय अधिवेशन में देशभर से जुटे

» मदरलैण्ड संवाददाता

हरिद्वार। ट्रेड यूनियन को-ऑर्डिनेशन सेंटर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त श्रम महासंघ का 11वां राष्ट्रीय अधिवेशन अवधूत मंडल आश्रम ज्वालपुर के प्रांगण में आयोजित हो रहा है! अधिवेशन को 3 सदस्यीय अध्यक्ष मंडल हसरज अकेला उत्तर प्रदेश रत्नेश्वर गोगोई आसाम व जीआर गिलानी जम्मू एंड कश्मीर ने परिचालन किये। मंच का संचालन साथी रामेंद्र कुमार दिल्ली ने किया। उद्घाटन सत्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने टीयूसीसी का इंडाटोलन किया तत्पश्चात नेताजी सुभाष चन्द्र बोस एवं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की फोटो पर राष्ट्रीय महामंत्री शिव प्रसाद तिवारी पश्चिम बंगाल ने माल्यापण किये अधिवेशन के स्थल का नाम टीयूसीसी के दिवंगत पूर्व अध्यक्ष पी. नारायण स्वामी के नाम पर व मंच का नाम दिवंगत राष्ट्रीय सचिव साथी राजू दामोदर के नाम पर किया राष्ट्रीय अधिवेशन का शुभारंभ टीयूसीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष साथी हसरज अकेला के भाषण से शुरू हुआ उन्होंने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए केंद्र सरकार द्वारा ई-श्रम पोर्टल लागू किये जाने की प्रशंसा की एवं जीवन बीमा निगम, आयुध निगम, रेलवे, पोर्ट, हवाई अड्डों के निजीकरण की निंदा भी की उन्होंने संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। अधिवेशन का उद्घाटन टीयूसीसी के राष्ट्रीय महामंत्री साथी एसपी तिवारी ने अंतरराष्ट्रीय



परिस्थितियों के बारे में बोलते हुए उन्होंने रूस-यूक्रेन के युद्ध को तुरंत रोकने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से प्रयास करने का अनुरोध किये भारत की राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा करते हुए उन्होंने देश में धार्मिक हिंसा पर रोक लगाने मजदूरों को उचित अधिकार प्रदान करने असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने आदि के विषयों पर प्रकाश डाला अधिवेशन में विभिन्न प्रस्तावों पर खासकर राष्ट्रीय बजट बेरोजगारी की स्थिति सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण आदि पर विस्तृत चर्चा की अधिवेशन में 18 राज्यों के 226 प्रतिनिधियों ने भाग लिया दूसरे दिन के प्रथम सत्र में बीडी निर्माण, आयुध निगम, रेलवे, प्रवासी, खेतियर मजदूर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और भवन एवं अन्य संनिर्माण मजदूरों के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं को अधिवेशन में उठाया जम्मू एवं कश्मीर के

प्रतिनिधियों ने अपने संविदा अकुशल एवं अस्थाई मजदूरों को न्यूनतम वेतन एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने को भारत एवं केंद्र शासित प्रदेश के शासन से मांग की सम्मेलन में प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए समिति के अध्यक्ष नवीनचंद्र कुरील ने उत्तराखंड में भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं की समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए अपने विचार साझा किये इस अवसर पर कौसर अली, गौरी शंकर, प्रमोद कुमार पटेल, सुनीता सैनी, सीमा सैनी, सूरजभान, सरोजिनी सक्सेना, नाजिम अंशारी, सुषमा कुरील, सुशीला देवी, सरला चौहान, शिला त्रिपाठी, मंसूर अली, संदीप सैनी, सिंदू कुमार, के. गणेश राव, लाल बहादुर शर्मा, चन्द्र भूषण सिंह, एमसी कृष्ण, राजू श्याम राव कवाडे, दीपक कुमार यादव, संजय कटकमवार, विकास थापा, अरुण कुमार आदि प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

शमशान घाट समिति ने किया अज्ञात शवों का अस्थि विसर्जन



» मदरलैण्ड संवाददाता

रुड़की। सोलानी नदी शमशान घाट समिति द्वारा अज्ञात आत्माओं की शांति के लिए अस्थि कलश हरिद्वार गंगा तट पर विसर्जन के लिए ले जाये गये, हरिद्वार प्रस्थान से पूर्व पंडित सुमित मिश्रा ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कराई। समिति के संरक्षक व मेयर गौरव गोकुल एवं शमशान घाट समिति के सदस्य अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार के लिए रवाना हुए व अज्ञात व्यक्तियों की अस्थियों को पूरी विधि-विधान के साथ गंगा में विसर्जित किया गया। मेयर गौरव गोकुल ने कहा कि इन सभी अज्ञात व्यक्तियों की अस्थियों का हिंदू धार्मिक परंपराओं के अनुसार अंतिम संस्कार किया गया व गंगा में विसर्जन के पश्चात सभी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष शिवमंगल सिंह, महामंत्री करण सिंह, पार्षद अनुप राणा, देशबंधु गुप्ता, श्याम सिंह, विशाल, संजय कुमार, कमल स्नेही, अनूप बंसल, रविंद्र कुमार, सार्थक गोकुल, अंतरिक्ष जैन, इमरान देशभक्त आदि मौजूद रहे।

सीएम के प्रत्याशी घोषित होते ही भाजपाईयों में मना जश्न

» मदरलैण्ड संवाददाता

रुड़की! भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति ने चंपावत विधानसभा सीट पर उप चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को प्रत्याशी घोषित करते ही समर्थकों की भीड़ धामी को बधाई देने पहुंचने लगी है। भाजपा पश्चिमी मंडल रुड़की के पूर्वावली शक्ति केन्द्र के बृथ अध्यक्ष ठाकुर मोहित ने देहरादून मुख्यमंत्री आवास पहुंच कर उपचुनाव में धामी को चंपावत से प्रत्याशी घोषित होने पर शुभकामनाएं दी और कहा कि वह अपनी पूरी टीम के साथ चंपावत में डोर टूट कर चुनाव प्रचार करने के लिए धामी के साथ जायेंगे। ठाकुर मोहित ने बताया कि चुनाव हारने के बाद छह महीने के भीतर विधानसभा का सदस्य बनना जरूरी रहता है इसी वजह से बीजेपी द्वारा पुष्कर सिंह धामी के लिए एक सीट की तलाश की जा रही थी कई सीटों पर चर्चा थी, लेकिन चंपावत सीट से विधायक



कैलाश गहतोड़ी द्वारा खुद खाली कर दिया गया, इसीलिए हाईकमान ने इसी सीट से सीएम को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया। पॉलिसी रिसर्च विभाग के प्रदेश सह संयोजक डॉ. अनिल शर्मा ने कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है चंपावत की सम्मानित जनता विकास कार्यों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं पर अवश्य मुह्र लगाएंगी।

मदर्स डे पर हुआ कवि सम्मेलन, रचनाओं में झलकी मां की ममता

» मदरलैण्ड संवाददाता

रुड़की! 'नव सृजन' साहित्यिक संस्था रुड़की द्वारा सेवंध डे एडवेंटेस्ट कालेज के सहयोग से सेवंध डे कालेज सभागार में मातृ दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश के विभिन्न राज्यों से कवियों ने प्रभावशाली काव्यपाठ किया। विद्यालय के छात्रों के साथ ही समस्त स्टाफ व नगर के साहित्य प्रेमियों ने कविताओं का आनंद लिया। सम्मेलन में मंच पर आमंत्रित कवियों द्वारा गीत, छंद, व्यंग्य, हास्य, गजल, शेरों शायरी व विभिन्न कविताओं की जानदार प्रस्तुति की गयी। सभागार में उपस्थित श्रोताओं को देश के प्रतिष्ठित कवियों की रचनाओं से साक्षात्कार करने का अवसर प्राप्त हुआ। नव सृजन संस्था के वरिष्ठ संरक्षक एसके पुण्डरी ढासरित, महासचिव किसलय क्रांतिकारी, उपाध्यक्ष नवीन शरण निश्चल, कोषाध्यक्ष पंकज त्यागी असीम, सौ सिंह सैनी, अनुपमा गुप्ता,



प्रतिभा नैथानी, मनीश नैथानी, प्रणव नैथानी, रमेश चंद नैथानी, रावीर सिंह रावत, दीपिका सैनी, यादवेंद्र शरण, ममथ सिंह सैनी, एसएस नाम्या, मुकेश मसीह, मनोज सरकार आदि उपस्थित रहे। संचालन नीरज नैथानी व पंकज त्यागी असीम ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मिलोन राणा प्रधानाचार्य सेवंध डे, मुख्य अतिथि मंगल नसीम नई दिल्ली, विशिष्ट अतिथि डा अनंद भारद्वाज पौड़ी गढ़वाल ने की। कवि सम्मेलन का आरंभ संस्था के

विधि विधान के साथ खुले बद्दीनाथ धाम के कपाट देश-विदेश से आये हजारों श्रद्धालु कपाट खुलने के साक्षी बने

बद्दीनाथ, एजेंसी। विश्व प्रसिद्ध बद्दीनाथ धाम के कपाट रविवार सुबह 6 बजकर 15 मिनट पर वैदिक मंत्रोच्चारण एवं विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ के लिए खोल दिए गए। ग्रीष्मकाल के छह माह अब श्रद्धालु भगवान बद्दीनाथ के दर्शन व पूजा अर्चना बद्दीनाथ मंदिर में कर सकेगे। कपाटोद्घाटन के अवसर पर मंदिर को भव्य रूप से गेदें के फूलों से सजाया गया था। सेना के बैंड की भक्तिमय धुनों एवं जय बद्दीनाथ के जयकारों के साथ देश-विदेश से आये हजारों श्रद्धालु कपाट खुलने के साक्षी बने। श्री बद्दीनाथ मंदिर के कपाट खुलते ही चारधाम की यात्रा विधिवत शुरू हो गई है। उल्लेखनीय है कि 3 मई को श्री गंगोत्री व श्री यमुनोत्री धाम और 6 मई



को श्री केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ के लिए खोले गए। दो साल कोविड के कारण चारधाम यात्रा प्रभावित रही। लेकिन इस बार कपाट खुलने के दौरान से ही भारी संख्या में श्रद्धालु व भक्तगण चार धामों में पहुंचे हैं तथा यह सिलसिला लगातार जारी है। बद्दीनाथ धाम में

कपाटोद्घाटन के अवसर पर श्रद्धालु व भक्तजन देर रात से ही भगवान बद्दीनाथ के दर्शन करने हेतु कतार पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं द्वारा बारी बारी से भगवान बद्दीनाथ के दर्शन किये। इस अवसर पर श्री बद्दीनाथ धाम के मुख्य पुजारी श्री रावल ईश्वर प्रसाद नंबूदरी, नायब रावल अमरनाथ नंबूदरी, धर्माधिकारी आचार्य भुवन चंद्र उनियाल, बद्दी केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय, उपाध्यक्ष किशोर पंवार, विधायक बद्दीनाथ राजेन्द्र भंडारी, पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट, डीजीपी अशोक कुमार, आशुतोष डिमरी, वरिष्ठ असवाल, हरीश सेमवाल, जिलाधिकारी हिमांशु खुराना, एसपी श्वेता चैबे, सहित हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

पार्टी में किसी भी कीमत पर गुटबाजी बर्दाश नहीं की जाएगी: भावना झा

हरिद्वार, एजेंसी। महानगर कांग्रेस कमेटी हरिद्वार के तत्वधान में रविवार को एक बैठक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त डीआरओ श्रीमती भावना झा (पूर्व विधायक मधुबनी बिहार) के निर्देश अनुसार कनखल वृष्य कुमार सभा में आयोजित की गई। बैठक में भावना झा ने कहा कि देश एआईसीसी ने जनपद हरिद्वार में संगठन के चुनाव हेतु भेजा गया है, चाहे तो सर्वसम्मति से हो या चुनाव द्वारा ही यह निर्णय बाद में सभी के विचार जानने के बाद होगा। उन्होंने कहा जो लोग समानांतर कांग्रेस चला रहे हैं तथा मुख्य कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं उनके कार्यक्रमों को प्रदेश व केंद्र को अवगत करवाया जाएगा तथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन किसी भी कीमत पर पार्टी के भीतर गुटबाजी बर्दाश नहीं की जाएगी। अभी सभी बीआरओ हरिद्वार पहुंचे हैं वे लोग ब्लॉक वाइज मीटिंग करेंगे तथा अपनी रिपोर्ट डीआरओ को देंगे, तभी अंतिम निर्णय होगा। पूर्व राज्यमंत्री डॉ. संजय पालीवाल ने कहा कि हरिद्वार में कांग्रेस कमजोर नहीं है परंतु हमें जरूरत है एक होकर फिरका परस्त ताकतों से लड़ने की, तभी कामयाब होंगे व विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब दे पाएंगे, तभी भविष्य में कांग्रेस की सरकार तभी बनाएंगे। महानगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कहा कि अपने पूरे कार्यकाल में सभी को बिना किसी भेदभाव के जोड़ने का कार्य किया है तथा जब तक जिम्मेदारी रहेगी तब तक पार्टी हित के लिए काम करता रहूंगा। ज्वालपुर विधायक इंजीनियर रवि बहादुर ने कहा कि कांग्रेस के मजबूत संगठन की वजह से आज मैं विधायक हूँ। हरिद्वार महानगर संगठन के साथ खड़ा रहूंगा तथा तन मन धन से पार्टी की सेवा करूंगा।

विश्व रेडक्रॉस दिवस पर वानप्रस्थ आश्रम में स्वास्थ्य शिविर वैक्सिनेशन एवं संगोष्ठी का आयोजन

हरिद्वार, एजेंसी। जिलाधिकारी विनय शंकर पाण्डेय के निर्देशन, मुख्य चिकित्साधिकारी डा. कुमार खगेन्द्र सिंह के नेतृत्व में एवं रेडक्रॉस सचिव डा0 नरेश चैधारी के संयोजन में विश्व रेडक्रॉस के उपलक्ष्य पर वानप्रस्थ आश्रम हरिद्वार में स्वास्थ्य शिविर, वैक्सिनेशन एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में 2022 का थीम बी ड्रम्युम काइंड निर्धारित किया गया। इस मौके पर रेडक्रॉस सचिव डा0 नरेश चैधारी ने कहा कि दया दूसरों की ओर विनम्र और विचारशील होने का गुण है। यह एक ऐसा गुण है जो हर किसी के पास होना चाहिए। यह विनम्र होने और या किसी को भावनात्मक समर्थन देने के रूप में छोटे से योगदान के रूप में भी हो सकता है। सभी को आस-पास के व्यक्तियों की सहायता प्रदान करने और उनसे अच्छे व्यवहार करने के लिए धनी होने की जरूरत नहीं है। इन सबके लिए आपके पास सिर्फ अच्छे दिल एवं नैतिक नीयत की जरूरत है। कहा कि हम में से हर एक के



पास दुनिया को देने के लिए कुछ न कुछ है। हमें ये समझना होगा कि ये क्या है। दया हमें आन्तरिक शान्ति एवं संतुष्टी प्रदान करती है। जो लोग समाज के लिए परोपकार का कार्य करते हैं और लोगों की उनके बड़े-छोटे कार्यों में सहायता भी करते हैं वे उन लोगों से अधिक खुश रहते हैं जो सिर्फ अपने लिए कार्य करते

हैं। विश्व में कोविड-19 महामारी ने समाज की सेवा करना सिखा दिया है कि प्रकृति समय-समय पर ऐसी परीक्षा लेती है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक दुसरे की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहना होगा। रेडक्रॉस की वार्ड्स चेयरमैन डा. उर्मिला पाण्डेय ने कहा कि विश्व रेडक्रॉस दिवस मनाने का उद्देश्य यही है कि आम

निवासियों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं पात्र लाभार्थियों को कोविड-19 की बुस्टर डोज भी लगाई गई। कार्यक्रम में डा. भावना जैश्री, डा. आराधना रावत, डा. अंजली, डा. वैशाली, डा. हेमलता, डा. वर्षा, डा. आकांशा पवार, डा. आकांशा केनूना, डा. रेणु, डा. दीपिका, डा. चारुल, ने सक्रिय सहभागिता की।

सीएम ने किया गंगा सप्तमी के अवसर पर अयोजित गंगा मैया जन्मोत्सव में प्रतिभाग



हरिद्वार, एजेंसी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को हरकी पैड़ी पर श्रीगंगा सभा द्वारा गंगा सप्तमी के शुभ अवसर पर अयोजित गंगा मैया जन्मोत्सव में प्रतिभाग किया, जहां उन्होंने मां गंगा की पूजा-अर्चना की एवं मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करते हुये देश-प्रदेश की सुख-समृद्धि तथा खुशहाली के लिये मां गंगा से प्रार्थना

अधीक्षक डॉ. योगेन्द्र सिंह रावत, अपर जिलाधिकारी श्री पालएल शाह, सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉ. जयपाल सिंह चैवान, मीडिया प्रभारी लव शर्मा, श्री गंगा सभा अध्यक्ष प्रदीप झा, महामंत्री तन्मय वशिष्ठ, पुजारी अमित शास्त्री सहित सम्बन्धित अधिकारीगण एवं पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

संक्षिप्त समाचार

**बाल कृष्ण गुप्ता साहित्योदय राम रत्न सम्मान से सम्मानित**

मदरलैण्ड संवाददाता, चंडीगढ़। साहित्योदय द्वारा आयोजित ऑनलाइन अखण्ड कवि सम्मेलन में आरडीएसओ लखनऊ के भूतपूर्व उपनिदेशक बाल कृष्ण गुप्ता ने प्रेमा भक्ति की अवतार शबरी पर कविता पढ़ी जिसे श्रीराम काव्याचन में स्थान मिला। साहित्योदय द्वारा उन्हें 'साहित्योदय राम रत्न सम्मान' से नवाजा गया। इस समारोह को गोल्डन बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। इसके एवज में गोल्डन बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भी बाल कृष्ण गुप्ता को सर्टिफिकेट दिया गया। सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने राजभाषा के उन्नयन के लिए निरंतर अनेकों काव्य गोष्ठियों में भाग लिया। विद्याधाम यूएसए द्वारा हाल ही में उन्हें 'भारतीय संस्कृति संवाहक अवार्ड' से भी सम्मानित किया गया। बाल कृष्ण गुप्ता द्वारा तीन कहानी संग्रह 'सप्त रंगी कहानियाँ, ओह की बूँदें तथा अंधा इश्क का प्रकाशन हो चुका है। उन्हें विभिन्न संस्थाओं द्वारा 'साहित्य रत्न', साहित्य शिरोमणि तथा साहित्य वाचस्पति मानद उपाधियाँ भी मिल चुकी हैं।



**वॉलीवुड थीम पर मदर्स डे मनाया गया**



मदरलैण्ड संवाददाता, लुधियाना: मनी वर्मा की ओर से मदर्स डे मनाया गया जिसमें सभी मम्मी वॉलीवुड स्टार के स्टाइल में ड्रेस पहन कर आई मनी वर्मा श्री देवी की तरह पीले रंग की साड़ी पहन कर आई वहीं शैरी अग्रवाल ने काजोल की तरह हेट के साथ ब्लैक टॉप और स्काल्ट में डांस किया सभी महिलाओं ने 1980 और 1990 के गानों पर डांस किया शैरी अग्रवाल ने कहा कि आज मम्मी का दिन है और सभी मम्मी ने मिलकर खूब मस्ती और डांस किया इस अवसर पर वंदना और ईशा ने बताया कि आज पूरा दिन अपनी सहेलियों के साथ घूमने का प्लान है रोज रोज घर का काम और बच्चों को संभालने में दिन निकल जाता है मगर एक दिन मिला है जब बच्चों ने कहा कि मम्मी जी लो अपनी जिंदगी अपने दोस्तों के साथ आज पूरा दिन मस्ती और डांस किया।

**दुगरी फेस दो के ग्लाडा हाइट के 12 फ्लैटों को किया सील**



हरप्रीत सिंह, मदरलैण्ड संवाददाता, लुधियाना: ग्लाडा द्वारा दुगरी फेस दो के ग्लाडा हाइट फ्लैट्स बनाए गए थे जिस पर कई प्लेगों पर ताले तोड़ कर कई लोग रह रहे थे जिसकी शिकायत समाज सेवा सोसायटी ने ग्लाडा अफसरों को की इतने साल तो कोई कार्रवाई नहीं हुई अब आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद ग्लाडा अफसर पूरे एक्शन मूड में उतर गए हैं जो ई वरिडर ने बताया कि 12 फ्लैटों को सील कर दिया गया है और बाकी को भी जल्द खाली करने का नोटिस दे दिया है समाज सेवक संजय तिवारी ने कहा कि ग्लाडा के कुछ अफसरों की मिली भगत के कारण ही इन फ्लैटों में बिना अलार्टमेंट के लोग रह रहे थे जिसकी उन्होंने आवाज उठाई थी और धरना प्रदर्शन भी किया था आज ग्लाडा के अधिकारियों ने सही एक्शन लिया और उनको सील कर अपने कब्जे में ले लिया है।

**मदर्स डे पर ओमेक्स लेडीज क्लब ने कैसर पर कराया सेमिनार**



मदरलैण्ड संवाददाता, लुधियाना: पक्खोवाल रोड स्थित ओमेक्स रेजीडेंसी में लेडीज क्लब द्वारा मदर्स डे पर महिलाओं में बढ़ रहे कैसर को रोकने के लिए एक सेमिनार कराया गया जिसमें फोर्टिस हॉस्पिटल से डॉक्टर गुरसिमरन कौर और डॉक्टर श्रिया ने बताया कि किस तरह महिलाओं में ब्रेस्ट कैन्सर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है इससे कैसे बचना चाहिए और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए सभी महिलाओं को जानकारी दी गई इस मौके पर ओमेक्स लेडीज क्लब की प्रधान राज कौर ने विशेष तौर पर दोनो डॉक्टर को सम्मानित किया इस अवसर पर तमनानी, प्रिया कपूर ने कहा कि हम सब महिलाओं को अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए जो जानकारी हमें ब्रेस्ट कैन्सर से बचने के लिए दी गई है हम सब को मिलकर अपने आस पास की महिलाओं को भी देनी चाहिए आज मदर्स डे पर महिलाओं के लिए बहुत अच्छा सेमिनार आयोजित किया गया है।

**डा हिम्मत सिंह को बनाया सांझानपुर का डीआरओ, मनाई खुशी**

मदरलैण्ड संवाददाता, कनीना। कनीना निवासी डा हिम्मत सिंह को उत्तर प्रदेश के सांझानपुर जिला का कांग्रेस का डीआरओ मनोनीत किये जाने पर खुशी का आलम है। उन्होंने सोनियागांधी, राहुलगांधी, प्रियंकागांधी, किरण चौधरी, श्रुति चौधरी, शैलजा, तौकीर आलम राष्ट्रीय सचिव, मधुसूदन चैयरेमन, जयप्रकाश अग्रवाल पीरओ उत्तर प्रदेश, तुषार चौधरी आदि का आभार जताया है कि उन उत्तर प्रदेश संगठन चुनाव हेतु सांझानपुर जिले का जिला चुनाव अधिकारी बनाने पर सभी नेताओं का आभार जताया है।

**डेलिगेट इजलास में हॉर्टिकल्चर वर्कर्स यूनियन का हुआ चुनाव**

विनोद कुमार, मदरलैण्ड संवाददाता

चंडीगढ़: हॉर्टिकल्चर वर्कर्स यूनियन चंडीगढ़ का छठा डेलिगेट इजलास हॉर्टिकल्चर आफिस सेक्टर 23 में हुआ। इजलास में 250 डेलिगेट ने भाग लिया इजलास के मुख्यातिथि चीफ इंजीनियर सी बी ओझा थे उन्होंने इजलास का उद्घाटन किया डेलिगेट इजलास में चीफ इंजीनियर के इलवा डी के अग्रवाल सुपरटेन्डेंट इंजीनियर सकल 1, एसडीओ नवराज सिंह हॉर्टिकल्चर एसडीओ नरिंदर पाल सिंह हॉर्टिकल्चर और अशवनी कुमार कंवीनर ज्वाइंट एक्शन कमेटी कार्यक्रम में शामिल थे। यूनियन ने सीबी ओझा और अन्य अधिकारियों का सरोपा देकर संमानित किया। कर्मचारियों को संबोधन करते हुए सी बी ओझा ने कामयाब इजलास की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के खाली पदों को जल्द भरा जाएगा। और रहती मांगों को जल्द पूरा किया जाएगा। जाएगा डेलिगेट इजलास में ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कंवीनर अशवनी कुमार ने संबोधन करते हुए कहा कि हॉर्टिकल्चर वर्कर्स यूनियन ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी के हर आंदोलन में आगे बढ़ कर भाग लिया है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन कर्मचारियों की मांगों को पूरा



नही कर रहा जिस कारण कर्मचारियों में बहुत रोष है। आउटसोर्स कर्मचारियों का ठेकेदार शोषण कर रहे हैं, उनसे आठ से 10 हजार रुपए की ठेकेदार मांग करते हैं। चंडीगढ़ प्रशासन आउटसोर्स वर्कर्स का डीसी रेट नहीं बढ़ा रहा। आखिर में अगले 2 साल के लिए यूनियन का चुनाव हुआ जिसमें लाल जीत प्रधान, राजा राम जनरल सेक्रेटरी, कमल कुमार चैयरेमन, यूएस सीनियर उप प्रधान, परमजीत सिंह उप प्रधान, हमीद सेक्रेटरी, सुखबीर सिंह ज्वाइंट सेक्रेटरी, छाँगा सिंह ऑर्गनसिंग

सेक्रेटरी, रंजीत सिंह प्रोपोगंडा सेक्रेटरी, गुनाशेकर हेड कैशियर, कलौजी अस्मिट कैशियर, विद्या देव आफिस सेक्रेटरी, पाल सिंह ऑडिटर, अशवनी कुमार, लीगल एडवाइजर और काली चरण, माम राज, सुरेश कुमार और अमरीक सिंह यूनियन के एग्जीक्यूटिव मेम्बर चुने गए। कर्मचारियों को संबोधित करते हुए यूनियन के प्रधान लालजीत, राजा राम जनरल सेक्रेटरी और चैयरेमन कमल कुमार ने सभी डेलिगेट्स का धन्यवाद किया।

**समाज में बुजुर्गों का कम होता सम्मान चिंता का विषय: सत्य पाल जैन**



मदरलैण्ड संवाददाता

चंडीगढ़: चण्डीगढ़ के पूर्व सांसद एवं भारत सरकार के अंपर महासालिसिटर श्री सत्य पाल जैन ने कहा कि समाज में माता-पिता एवं बुजुर्गों का कम होता सम्मान चिंता का विषय है तथा आवश्यकता है कि समाज में बुजुर्गों के आदर सत्कार एवं मान सम्मान को बढ़ाने के लिये एक सामाजिक आंदोलन चलाया जाये। जैन आज परपुराम भवन में ह्यूमन दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के नाते बोल रहे थे। कार्यक्रम की आयोजिका डॉ० नवजीत कौर ने श्री जैन का स्वागत किया। इस अवसर पर शहर के पूर्व महापौर श्री देवेश मोदगिल भी उपस्थित

रहे। जैन ने कहा कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां देश को भी माता यानि ह्यभारत माताहकहा जाता है। गुरबानी में धरती को भी ह्यमाताहकहा दर्जा दिया गया है। दुनिया में हर प्राणी मां के गर्भ के माध्यम से ही आता है तथा धरती माता की गोद के माध्यम से ही वधिस जाता है। जैन ने कहा कि मनुष्य अपने माता-पिता का कर्ज कभी भी नहीं उतार सकता चाहे वह कितना भी बड़ा बन जाये। लेकिन आज परिवारों में संपत्ति के साथ-साथ मां-बाप का भी बंटवारा होने लगा है। उन्होंने कहा कि जिस देश में माता और पिता का सम्मान नहीं होता उस समाज का भविष्य बहुत उज्ज्वल नहीं हो सकता।

**आरआरसीएम में मनाया मातृदिवस**

मदरलैण्ड संवाददाता

कनीना। आर आर सीएम. पब्लिक स्कूल कनीना में मातृदिवस के उपलक्ष्य पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें विद्यालय के विभिन्न सदनों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गईं। इस अवसर पर संस्था के चैयरेमन रोशनलाल ने विद्यार्थियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति सबसे पुरातन एवं सनातन है। इसमें माता को विशेष सम्मान एवं प्रतिष्ठा प्रदान की गई है। माता को बालक का प्रथम शिक्षक माना गया है। माता ही बालक को संस्कारों की शिक्षा देकर उसे महान बनाती है उन्होंने भारतीय इतिहास के कई प्रसंगों के उदाहरण दिए

**रायपुर नगर निगम प्रतिनिधिमंडल ने चंडीगढ़ का किया दौरा एमसीसी परियोजनाओं की प्रशंसा की**



मदरलैण्ड संवाददाता

चंडीगढ़। रायपुर नगर निगम (छ.ग.) के मेयर एजाज देबर, चैयरेमन प्रमोद दुबे, नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने 81 पार्षदों और अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चंडीगढ़ का दौरा किया। यह प्रतिनिधिमंडल रनगर निगम चंडीगढ़ के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और सर्वोत्तम प्रथाओं के संबंध में अपने 2 दिवसीय अध्ययन दौर पर था। प्रतिनिधिमंडल कल शाम चंडीगढ़ पहुंचा और एमसीसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने उसका स्वागत किया। सुबह उनके दिन भर के भ्रमण कार्यक्रम की शुरुआत होटल होमटेल, औद्योगिक क्षेत्र, फेज-क, चंडीगढ़ में नगर निगम की सर्वोत्तम प्रथाओं पर प्रस्तुति के साथ हुई।

सरबजीत कौर, महापौर, चंडीगढ़ अनिदिता मित्रा, आईएस, आयुक्त, नगर निगम चंडीगढ़ ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, सड़क, जल आपूर्ति, उद्यान और हरित पट्टी, स्ट्रीट लाइट, तृतीयक उपचारित जल आपूर्ति, सी एंड डी अपशिष्ट का प्रसंस्करण, संपत्ति कर, गौशालाओं के प्रबंधन, पुनर्वास प्रणाली और एमसीसी की अन्य परियोजनाओं पर संक्षिप्त प्रस्तुति दी। महापौर रायपुर, महापौर चंडीगढ़ और आयुक्त, एमसीसी ने प्रस्तुति बैठक के दौरान स्वच्छता पर एक पुस्तिका का विमोचन किया, जिसकी प्रतिनिधिमंडल ने काफी सराहना की। प्रेजेंटेशन मीटिंग के बाद शिष्टमंडल ने सीटीयू की 5 विभिन्न इलेक्ट्रिक बसों के माध्यम से एमसीसी की विभिन्न बेहतरीन परियोजनाओं का दौरा किया।

**रेडक्रास समिति के जन्मदाता का जन्मदिन मनाया**

मदरलैण्ड संवाददाता

कनीना। शिक्षा विभाग द्वारा रेड क्रॉस समिति के जन्मदाता सर जीन हैंगरी उद्घाटन के जन्मोत्सव पर 7 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस एमसीएम वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय छिन्नौली में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्त बतौर जज के रूप में प्रवक्ता श्रीराम मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कनीना व प्रवक्ता दीपा डबास राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बाघोत मौजूद थे। एमसीएम परिवार की तरफ से प्रमिला, सरोज व किरण कुमार ने जज की भूमिका निभाई। जिसमें सीनियर वर्ग में

कंचन प्रथम मंजू द्वितीय ज्योति तृतीय स्थान पर व सब जूनियर वर्ग में प्रतिष्ठा प्रथम नसीब द्वितीय करिश्मा तृतीय स्थान पर व जूनियर वर्ग में परारुल प्रथम पीयूष द्वितीय वह दिवेश ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। संस्था के डायरेक्टर व प्रवक्ता श्रीराम ने भाषण प्रतियोगिता में विजेता विद्यार्थियों को विद्यालय की तरफ से पुरस्कृत किया। इस मौके पर संस्था के डायरेक्टर अजमेर सिंह दांगी ने बताया कि भारतीय रेड क्रॉस समिति निस्वार्थ भाव से गरीब लोगों की सहायता के लिए प्रयासरत रहती है। इसलिए हमें भी रेडक्रॉस की जन कल्याणकारी गतिविधियों में भागीदारी निभानी चाहिए। इस मौके पर प्रधानाचार्य रेखा दांगी, उप प्राचार्य सत्यपाल यादव, एचओडी. प्रवीण कुमार, सकिंत, नरेंद्र, नीरज, प्रमिला, मनीषा रानी, ललिता, दीपा, मंजू, बबली अनूप, सरोज आदि स्टाफ सदस्य मौजूद रहे।

**एसडी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ककराला में आज अध्यापक-अभिभावक बैठक**

मदरलैण्ड संवाददाता, कनीना। एस डी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ककराला में अध्यापक-अभिभावक बैठक का 8 मई को आयोजन किया जा रहा है। विद्यालय निदेशक जगदेव यादव ने बताया कि विद्यार्थियों की पढ़ाई संबंधित समस्याओं को लेकर उनकी ओर से नियमित रूप से बैठक आयोजन कर मंथन किया जाता है। विद्यार्थियों को खेल-खेल में पढ़ाई को लेकर शेड्यूल तैयार किया जाता है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय प्रबंधन अति संवेदनशील है। समय-समय पर शिक्षक एवं विद्यार्थियों की विशेष कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। जिसमें पढ़ाई के तौर तरीके, व्यवहार व सुरक्षा जैसे पहलुओं को प्राथमिकता दी जाती है। बैठक का समय प्रातः 9:30 से दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा।

**जीएसटी अधिकारियों की छापेमारी के विरोध में व्यापारी हुए एकजुट बैठक कर व्यापारियों ने जताया रोष**

मदरलैण्ड संवाददाता

नारनौल। स्थानीय अग्रवाल सभा नई मंडी में हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल रजिस्टर द्वारा एक व्यापारी बैठक एवं प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। जिसमें पिछले दो माह से नारनौल व उसके आसपास के इलाकों में जीएसटी विभाग के अधिकारियों द्वारा अवैधानिक रूप से छापेमारी के खिलाफ आवाज उठाई गई। बैठक की अध्यक्षता हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के वरिष्ठ प्रदेस उपाध्यक्ष व्यापारी नेता नारनौल नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता किशन चौधरी ने की। प्रेस वार्ता के दौरान मीटिंग में आए सभी व्यापारियों को संबोधित करते हुए किशन चौधरी ने मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार मनोहर लाल खट्टर के नाम प्रेषित ज्ञापन की कापियां दिखाते हुए बताया कि किस तरह जीएसटी विभाग के अधिकारी पिछले दो माह से नारनौल में गलत तरीके से व्यापारी वर्ग का को परेशान कर रहे हैं व्यापारी वर्ग किस तरह भयभीत होकर अपना व्यापार कर रहा है। उन्होंने बताया कि जीएसटी विभाग के अधिकारी नियम और कानून को ताक पर रखकर और व्यापारी के घरों में जीएसटी के नाम पर छाप डालते हैं जो घर में महिलाएं होती हैं उनकी ज्वेलरी, आभूषण भी चेक करते हैं और महिलाओं से आभूषण कितने हैं तुम्हारे पास कहाँ से आई है यह सब पूछते हैं जो कि नियम कानून के खिलाफ है तथा जीएसटी एक्ट का उल्लंघन भी है, यह है की जीएसटी विभाग के 10/15 अधिकारी एकदम से आते हैं और सीधे व्यापारिक प्रतिष्ठान पर ना जाकर उसके घर जाते हैं उसके बाद जो कुछ भी किसी के घर में रखा है। जैसे पैसे को कब्जे में करने की कोशिश करते हैं जो कि नियम के विरुद्ध है किसी भी नकदी को जीएसटी के अधिकारी नहीं ले जा सकते हैं जबकि यहाँ पर तो इसी की आड़ में व्यापारी को



डराने का काम करते हैं। अन्य बिंदु यह है कि इंसपेक्टर राज से व्यापारी को मुक्ति दिलाने के लिए ही सरकार ने जीएसटी का प्रावधान किया था जिसके तहत व्यापारी कोई बिक्री नहीं दिखाता है या कोई सर्विस टैक्स नहीं देता या बिक्री का बिल नहीं काटता या फिर बिक्री करता है और माल नहीं देता इस चीज के पुख्ता सबूत जीएसटी विभाग के पास होने चाहिए तभी कानूनी तौर पर अधिकारी यह छाप डाल सकता है। यह कि जीएसटी एक्ट चैप्टर नंबर 16 सेक्शन 67 में कानून में यह क्लियर लिखा हुआ है कि जीएसटी अधिकारी किसी भी व्यापार से संबंधित स्थान पर छाप डाल सकता है न की किसी के घर पर जाकर रेट कर सकता है। वहीं यह की रेट ज्वाइंट कमिश्नर अपने जूनियर अधिकारी को लिखित रूप में अर्वाइंट करता है तभी अधिकारी रेट डाल सकता है, जबकि जीएसटी के अधिकारियों ने जिला महेंद्रगढ़ में 9 जगह छापेमारी डाली है और अच्छी तरह से व्यापारी वर्ग में भय का माहौल पैदा करने का कार्य किया है। यह की नारनौल महेंद्रगढ़ अटोली में जीएसटी अधिकारियों ने अपने दलाल छोड़ रखे हैं अपने

के लिए गलत जानकारियां देकर व्यापारियों को मुश्किल में डाल रहे हैं। आरटीआई कार्यकर्ता टेकचंद तायल ने बताया कि उक्त अनैतिक छापेमारी के खिलाफ उन्होंने व्यक्तिगत रूप से आरटीआई लगा रखी है। अग्रवाल सभा के पूर्व महामंत्री संजय गर्ग ने कहा की व्यापारियों में भय का माहौल इस कदर हावी है कि जिन लोगों के घरों में जीएसटी हुई है उनमें से 2/3 को छोड़कर वे लोग भी सामने आकर अपना विरोध प्रदर्शित करने से घबराते हैं। किशन चौधरी की अध्यक्षता में इससे मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि आगामी रणनीति की और अधिक सुदृढ़ करने वारंसे एक 2। सदस्य लोगों की कमेटी बनाई जाए जो विभाग के उच्च अधिकारी शत्रुजीत से मिलकर सारे मामले का पताक्षेप करेंगे। इस कमेटी का मुख्य संयोजक नरसिंह दायमा की बनाया गया। वहीं किशन चौधरी, सुरेंद्र चौधरी हैफेड वाले, उद्योगपति अनिल गोयल, गोपाल मित्तल, राजू सब्जीमंडी, टेकचंद तायल, रामबाबू अग्रवाल, बुजमोहन गर्ग, केशव संधी, शुभम कंछल, रामबाबू अग्रवाल, देवकीनंदन दोखरा वाले, नरेश कुमार रोहतक वाले, गोविंदराम मित्तल, नरेंद्र झिमरिया, काकू जैन, संजय जैन, संजयगर्ग, पंकजकिरोड़ीवाल, सुंदरकंछल, ओमप्रकाश तायल आदि की कमेटी का सदस्य बनाया गया है जो अब दलाल किस्म के लोगों पर नजर रखता है। वहीं आसपास में अधिवक्ता नितिन चौधरी, महेश गोयल, अनिल चौधरी उपप्रधान मंडी, मनीष तायल, धनपत मित्तल, पास चौधरी अधिवक्ता, रमेश कुमार, रामानंद सारफ, टिकू, देवेंद्र कुमार, राजेश उर्फ बबलू चौधरी, धर्मेंद्र भोजवासीया, सुरेंद्र चौधरी, सुरेंद्र चौधरी, अनिल कुमार, जयप्रकाश अग्रवाल, तुषार मित्तल, हनु गर्ग, हेमंत बंसल, शिवम गोयल, अनिकेत गर्ग, दिनेश गर्ग, विकास बंसल आदि काफी संख्या में व्यापारी उपस्थित रहे।

# नेपाल में भारत के साहित्यकारों का हिंदी शंखनाद !



डॉ श्रीगोपाल नारसन उदोविकेट

नेपाल की राजधानी काठमांडू के आनंद पशुपति भवन में हुए नेपाल भारत साहित्य महोत्सव में भारत की साहित्यिक, सामाजिक व पत्रकारिता जगत की विभूतियों ने सहभागिता निभाई नेपाल की धरती पर भारत के साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य का शंखनाद कर विभिन्न भाषाओं के लिए सेतु बनने का भी महत्वपूर्ण कार्य किया है इस महोत्सव का हिस्सा रहे भारतीय साहित्यकारों में डॉरिका प्रसाद अग्रवाल बिलासपुर, विभारानी सिंह पटना, प्रदीप देवीशरण भट्ट हैदराबाद, अनिला सिंह चाडक जम्मू, रमा निगम भोपाल, नीता चौधरी जमशेदपुर, राधा पांडे सिक्किम, मी. नसीम अख्तर पटना, डा अलोक कुमार श्रीवास्तव दिल्ली, प्रभु त्रिवेदी इंदौर, हरेराम वाजपेयी इंदौर, ऐश्वर्या सिन्हा जौनपुर, डा मीना कुमारी परिहार बिहार, सावित्री मिश्रा उडुपी, मीरा प्रकाश बिहार, प्रेमलता सिंह राजपूत बिहार, नूतन कुमारी सिन्हा बिहार, कैलाश आदमी भोपाल, त्रिलोक फतेहपुरी हरियाणा, दलबीर फूल हरियाणा, डा राशि सिन्हा नवादा बिहार, रवि भूषण श्रीवास्तव



पटना, मनीष शुक्ला लखनऊ, आदित्य प्रताप सिंह रायपुर, महेश भट्ट बनारस, अरविंद कुमार यादव गाजीपुर, गिरीश त्यागी बिजनौर, मोनिका मेहरोत्रा प्रयागराज से उपस्थित रहे।

द्वितीय नेपाल भारत साहित्य महोत्सव के संयोजक नेपाल के वरिष्ठ साहित्यकार राधेश्याम लेकाली ने दोनों देशों के बीच साहित्य संवाद को एक सेतु की संज्ञा दी इस भव्य आयोजन के मुख्य अतिथि ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान के कुलपति के.के. कर्माचार्य ने साहित्य को दो देशों की सीमा से परे का सदकर्म बताया। कंचना झा व दिनेश डि. सी के संयुक्त कुशल संचालन में तीन दिनों तक साहित्य की गंगा नेपाल में शब्द संवाद के रूप में बहती रही इस साहित्य महोत्सव कार्यक्रम श्रृंखला में बहुभाषी कवि सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें भारत व नेपाल के कवियों ने एक से बढ़कर एक रचनाओं के

माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को धार दी। मुशायरों का आयोजन कंचना झा के संचालन में किया गया जिसमें उर्दू अकादमी नेपाल के अध्यक्ष इम्तियाज वफा, पूनम झा, करुणा झा, मोबिन साकिब हारुनी, रेखा यादव, देवी पंथी, कंचना झा, फुरकान फेजी, प्रदीप बोम्बेज, डा मीना कुमारी परिहार, राधा पांडे, मी. नसीम अख्तर द्वारा कलाम प्रस्तुत किए गए। नेपाल की ललितपुर

नगरपालिका प्रतिनिधि द्वारा सभी भारतीय अतिथियों का स्वागत करते हुए उन्हें पाटन के विश्व धरोहर मे शामिल दरबार स्कायर, कृष्ण मंदिर, गोल्डन टैपल और संग्रहालय का भ्रमण कराया। इस

साहित्य महोत्सव में भारत की तरफ से उत्तराखंड के वरिष्ठ साहित्यकार श्रीगोपाल नारसन द्वारा हिन्दी का भारतीय उपमहाद्वीप और वैश्विक स्तर पर कला, आज और भविष्य पर लिखित शोधपत्र पढ़ा गया।

जबकि नेपाल की तरफ से प्रमोद प्रधान द्वारा नेपाली साहित्य के अंतरराष्ट्रीयकरण पर प्रश्न व अनुवाद समस्या विषय पर शोधपत्र प्रस्तुत किया गया।

वहीं नेपाल भारत संबंध में संस्कृति की भूमिका विषय पर परिचर्चा आयोजित की गई जिसमें डा ऊषा ठाकुर, नीलम कार्की निहारिका ने डा सावित्री मल्ल

के संचालन में सहभागिता निभाई साथ ही नेपाली भाषा में ह्यसाहित्यको विकास र विस्तारमा डायस्पोराको योगदानह्वविषय पर परिचर्चा की गई परिचर्चा के संचालक गोविंद गिरी प्रेरणा और सहभागी ज्ञानु अधिकारी, ज्ञानेंद्र गुराल, दामोदर पुडासैनी रहे।

लघुकथा को समर्पित पांचवे सत्र का संयोजन ओम श्रेष्ठ रोदन रहे और सहभागी विभारानी सिंह, रवि भूषण श्रीवास्तव, मीरा प्रकाश, प्रेमलता सिंह, नूतन कुमारी सिन्हा के साथ नेपाली लघुकथाकारों ने निभाई।

साहित्यिक भ्रमण पर भारत व नेपाल के सभी साहित्यकारों को करीब 7500 फिट की ऊंची पहाड़ी पर स्थित चंद्रागिरी पर्वत पर ले जाया गया, जहां सात सूत्रीय काठमांडू घोषणापत्र भी प्रस्तुत किया गया नेपाल भारत साहित्य महोत्सव के अंतिम सत्र समापन समारोह में नेपाली सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक बड़ी श्रृंखला प्रस्तुत की गई। भारत की ओर से भी झारखंड की नीता चौधरी का भजन आधारित लोकनृत्य मनमोहक रहा।

इस साहित्यिक आयोजन का उद्देश्य नेपाल और भारत के मध्य एक साहित्यिक सेतु का निर्माण कर समाज में नवोदित व युगनानम साहित्यिक व सामाजिक प्रतिभाओं को वरिष्ठ साहित्यकारों के सान्निध्य में एक अंतरराष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराना है प्रथम नेपाल भारत साहित्य महोत्सव नेपाल की औद्योगिक नगरी बिरागंज में वर्ष 2018 में संपन्न हुआ था।

## कोरोना से कितने मरे ?

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना से मरनेवाले भारतीयों की जो संख्या जताई है, यदि वह ठीक हो तो वह भारत के लिए बहुत ही चिंता और लज्जा का विषय है। उसके आंकड़े अगर प्रामाणिक हों तो भारत सरकार कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेगी। भारत सरकार का कहना है कि कोरोना के दो वर्षों में भारत में मौतों की संख्या 4 लाख 81 हजार रही है लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन की रपट कहती है कि यह संख्या 40 लाख 74 हजार है। याने सरकार ने जितनी बताई है, उससे लगभग दस गुना है। यह एक और दस का अंतर क्या बताता है ? क्या यह नहीं कि या तो वह विश्व संस्था झूठ बोल रही है या भारत सरकार ने झूठ बोला है ? यह तो ठीक है कि जब ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो दुनिया की सभी सरकारें उन्हें कम करके दिखाना चाहती हैं ताकि लोगों पर उनका यह छवि बने कि उन्होंने जनहित के खातिर कितना जबरदस्त काम कर दिखाया है लेकिन क्या कोई सरकार इतनी बड़ी धांधली कर सकती है कि वह 10 को 1 में बदल दे ? भारत-जैसे खुले देश में ऐसा करना संभव नहीं है। भारत कोई रूस, चीन या उत्तर कोरिया जैसा देश नहीं है, जहां खबरपालिका प्रायः लकवाग्रस्त होती है। भारत में संसद है, विपक्ष है और हमारे नोकरशाह भी इतने मरियल नहीं है कि कोई सरकार इतनी बड़ी धांधली करे और वे हाथ धरे बैठे रहें। इसके अलावा भारत की जनता हालांकि उदंड नहीं है लेकिन वह इतनी साहसी जरूर है कि वह किसी भी सरकार का निकम्मापन बर्दाश्त नहीं करेगी। वास्तव में विश्व स्वास्थ्य संगठन की इस रपट का मुख्य उद्देश्य यही सिद्ध करना है कि भारत में कोरोना की वजह से लोग मरते रहे और सरकार खराई खिंची रही। यह ठीक है कि शुरू के कुछ दिनों में सरकार ने काफी लापरवाही दिखाई। 2020 में लगभग 40 लाख लोगों ने समुचित चिकित्सा के अभाव में प्राण त्यागे लेकिन वे सब क्या कोरोना के रोगी थे ? क्या यह सत्य नहीं है कि भारत के डाक्टरों, नर्सों और अन्य कर्मचारियों ने अपनी जान पर खेलकर करोड़ों लोगों को जीवन-दान दिया है ? तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्द्धन ने उस जानलेवा माहौल में जिस कर्मठता का परिचय दिया है, वह विलक्षण थी। इसके अलावा हमारे आयुर्वेदिक काढ़े करोड़ों पेकेटों और भारत के घरेलू मसालों ने कोरोना-युद्ध में कमाल कर दिखाया था। भारत के मुकाबले अमेरिका, यूरोप और चीन में जितने लोग मरे हैं, यदि जनसंख्या के अनुपात के हिसाब लगाए तो वे कई गुना ज्यादा हैं। उन राष्ट्रों के शारीरिक स्वास्थ्य और श्रेय चिकित्सा-पद्धति के दावे को इस महामारी ने चूर-चूर कर दिया है। विश्व-स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों का भारत सरकार ने कई आधारों पर कड़ा प्रतिवाद किया है। भारत में हताहतों की संख्या के आंकड़े प्रतिदिन प्रचारित किए जाते थे। उन्हें छिपाने का प्रश्न ही नहीं उठता। विश्व स्वास्थ्य संगठन की उप-महानिदेशक समीरा अस्माने ने, जो इस तरह के आंकड़े जारी करती हैं, कहा है कि भारत सरकार के विरोध पर वे जरूर ध्यान देंगी और अपने आंकड़ों की जांच करवाएंगी। भारत सरकार का विरोध अपनी जगह सही है लेकिन सच्चाई क्या है, यह सिद्ध करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार के बीच दो-टूक संवाद जरूरी है।

## संपादकीय अज्ञान पर विवाद

देशभर में छिड़े लाउडस्पीकर पर अज्ञान के विवाद के बीच एक बार फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला दिया है। इस फैसले में हाईकोर्ट ने कहा है कि लाउडस्पीकर पर अज्ञान मौलिक अधिकार नहीं है। बदामी की नूरी मस्जिद के मुतवल्ली इरफान की ओर से दायर याचिका को जस्टिस विवेक कुमार बिरला और जस्टिस विकास बघवार की बेंच ने खारिज कर दिया। इरफान ने कोर्ट से मांग की थी कि सरकार और प्रशासन को मस्जिद में लाउडस्पीकर/माइक लगाने की इजाजत देने का निर्देश दिया जाए। उसने यह भी दलील दी कि एसडीएम का फैसला अवैध है और उसके मौलिक अधिकारों का हनन है। कोर्ट ने इरफान की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि कानून तय हो चुका है कि मस्जिद पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल मौलिक अधिकार नहीं है। कोर्ट ने इरफान के तर्कों को अस्वीकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। लाउडस्पीकर से अज्ञान पर विवाद की शुरूआत महाराष्ट्र से हुई थी। इसके बाद यह मुद्दा कर्नाटक पहुंच गया और वहां कई हिंदू संगठनों ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर के माध्यम से निकलने वाली आवाज को बंद करने की मांग की। अब यह मसला इन दो राज्यों से आगे बढ़ चुका है। वर्तमान में अनेक प्रकार के प्रदूषण निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। वायु प्रदूषण से तो मानवता जूझ ही रही है, अनेक कारणों से ध्वनि प्रदूषण भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे जन स्वास्थ्य के समक्ष खतरा बढ़ते ही जा रहे हैं। यातायात के साधनों से लेकर फेक्टोरियों आदि तक से निकलने वाला ध्वनि प्रदूषण हमें इसलिए भी बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि विकास की वर्तमान परिभाषा को सार्थक करने के लिए लाइज से ऐसा काफी हद तक आवश्यक भी है, यह बात अलग है कि नवोन्मेष के माध्यम से अब इनमें भी ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा रहा है। इसके अलावा, कई ऐसे अन्य कारक भी हैं जिनसे ध्वनि प्रदूषण की गंभीरता बढ़ रही है। ऐसे में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर से जुड़े विवाद के साथ विचार मंथन भी शुरू हो गया है कि कहीं धर्म की आड़ में लाउडस्पीकर का बढ़ता चलन मानव के जीवन के अधिकार में खलल तो नहीं डाल रहा है। ध्यातव्य है कि जिस प्रकार देश का सभी विधान सभी लोगों पर समान रूप से लागू होता है, उसी प्रकार ध्वनि प्रदूषण संबंधी विधान भी सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए। ईश्वर की आराधना में शोर-शराबे और लाउडस्पीकर जैसे आडंबर की क्या आवश्यकता? गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2020 में फैसला दिया कि अज्ञान इस्लाम का एक हिस्सा है, लेकिन लाउडस्पीकर से अज्ञान देना इस्लाम का हिस्सा नहीं है। चिंता की बात यह है कि धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर ध्वनि प्रदूषण फैलाया जाता है जो वास्तव में हमारे संघ और शिक्षित समाज में चैंकाने वाला है। चूंकि लाउडस्पीकर यानी ध्वनि विस्तारक यंत्र एक हालिया वैज्ञानिक नवाचार है, इसलिए इस तरह के यंत्र के उपयोग का किसी भी पवित्र ग्रंथ में कोई उल्लेख नहीं मिलता है।

## पी एम मोदी की नीसहत या निशाना !



विनोद तकियावाला

नरेंद्र मोदी सरकार की मंशा सब कुछ देश में एक समान करने की है, लेकिन इसमें सफलता नहीं के बराबर मिल पाई है। पेट्रोल-डीजल व ईंधन गैस की कीमतों ने केवल आसमान छू रही हैं, बल्कि उनमें असमानता भी कम नहीं है। राजधानी दिल्ली से नौएड्डा में घुसते ही कीमतों का बड़ा फर्क दिख जाता है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकारों को नसीहत दी कि वे चाहे तो पेट्रोल-डीजल पर अपने राज्य की वैट कम कर उनकी कीमतों में कमी ला सकते हैं। इसे गैर भाजपा शासित राज्य सरकारों पर लगाए गए एक निशाने के नजरिए से भी देखा जा रहा है, जबकि यह विपक्ष की निगाह में राजनीतिक पैतरेबाजी छव व सिमायत के सिवाय और कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री के द्वारा विगत दिनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की आनलाइन बैठक में पेट्रोल और डीजल से वैट नहीं घटाने वाले सात राज्यों के नाम तक गिनाए। उन पर केंद्र सरकार द्वारा करीब पांच माह पहले कम किए गए टैक्स के फायदे से नागरिकों को वंचित रखने का आरोप भी लगाया। इस संवाद के जरिए पीएम मोदी ने जनता के साथ जुड़ने और उन्हें केंद्र सरकार का एक सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की।

सवाल है कि यह नौबत क्यों है ? पीएम के मन के मुताबिक राज्य सरकारें जनता की जेब से पैसे निकाल कर अपना राजकोष भरने की कोशिश में क्यों रहती हैं ? उल्लेखनीय है कि नवंबर 2021 में ईंधन से उत्पाद शुल्क घटा लिया था और राज्यों से भी वैट टैक्स को लेकर कटौती की अपील की थी। कुछ राज्यों ने तो आगे बढ़कर करों में कटौती कर दी, लेकिन कई राज्य ऐसा नहीं कर पाए।

माना कि पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करते हुए किसी की व्यक्तिगत आलोचना नहीं करने की बात कही, लेकिन महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, केरल, झारखंड और तमिलनाडु से वैट कम करने और स्थानीय लोगों को लाभ देने का अनुरोध जरूर किया वे सभी राज्या गैर भाजपा शासित राज्य हैं। पीएम के द्वारा पेट्रोल-डीजल पर से वैट घटा कर आम आदमी को राहत देने की अपील पर थोड़ी ही देर में सियासत शुरू हो गई। विभिन्न राज्यों से विपक्षी नेताओं के बयान सामने आने लगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पेट्रोलियम उत्पादों से वैट घटाने की अपील पर कठोर जवाब दे डाला. वह महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेन्द्र फडणवीस से भिड़ गए. फडनवीस ने भी उद्धव के बयान पर जबरदस्त पलटवार किया.



यह सभी जानते हैं कि राज्यों के पास वैट टैक्स कम करने का मतलब उनके राजस्व में कमी का आना है जिस कारण राज्य सरकारों ऐसा नहीं किया. प्रधानमंत्री के द्वारा दिये गये इस बयान पर विपक्षी भला कहां पीछे रहने वाला था. उन्होंने अपना मजबूत पक्ष रखते हुए कहा कि राज्यों के हिस्से का जीएसटी की मोटी रकम केन्द्र सरकार के पास बचाना है। उभर काँग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी ने पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 26 लाख करोड़ रुपये कमाए, जो उन्हीं को चचे तेल की कीमतों आने वाली कमी से मिले. केंद्र ने इसे राज्यों के साथ साझा नहीं किया। उन्होंने कहा कि आपने राज्यों को जीएसटी का हिस्सा समय पर नहीं दिया ऊपर से हमें राज्यों से वैट को और कम करने के लिए कहते हैं। जबकि उन्हें स्वयं केंद्रीय उत्पाद शुल्क कम करना चाहिए और बाद में फिर दूसरों को वैट कम करने के लिए सलाह देनी चाहिए।

पीएम मोदी के द्वारा उठा ये गये इस मुद्दे के बाद एक बार फिर से डीजल-पेट्रोल पर वैट पर बहस की राजनीति शुरू हो गयी है। आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी इसी के साथ शुरू हो गया है। डीएमके सांसद और महाराष्ट्र सीएम ने जबरदस्त प्रतिक्रिया दी है. डी एम के सांसद टी के एस एलनगोवन ने पेट्रोल पर वैट घटाने को लेकर केंद्र को जवाब देते हुए कहा कि पीएम मोदी सीधे तौर पर विपक्षी दलों की ओर से शासित राज्यों को पेट्रोल से वैट घटाने को कह रहे हैं। पी एम भाजपा शासित राज्यों गुजरात और कर्नाटक की राज्यों से टैक्स कम करने को नहीं कहते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा इकट्ठा किया गए टैक्स की मात्रा इन राज्यों के द्वारा इकट्ठा किए गए टैक्स की मात्रा का तीन गुना है.

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एक ओर 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की बात तो करती है, लेकिन संकट के समय में पीएसयू बेची जा रही है। महाराष्ट्र सीएम की ओर से राज्यों से पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने को लेकर कहा गया राज्य की जनता को राहत देने के लिए राज्य सरकार की ओर से नेचुरल गैस पर टैक्स राहत दी गई है. इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस पर वैट को 13.5 फीसदी से घटाकर महज 3 फीसदी कर दिया है। पेट्रोल -डीजल व ईंधन की राजनीति के पैतरेबाजी व प्रधान मंत्री की अपील पर केंद्र सरकार की कमान केंद्रीय मंत्री हरदीपपुरी ने सम्भाले हुए हैं. उनका कहना है कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से कूड़ आयल की कीमतें 19.56 डालर प्रति बैरल से बढ़कर 130 डालर प्रति बैरल तक जा पहुंची है किंदा ने तो अपनी जिम्मेदारी लेते हुए उत्पाद शुल्क में कमी कर निभाई है। अब राज्यों की बारी है. केंद्रीय मंत्री ने कहा देश में कोविड महामारी के बाद भी केंद्र सरकार जनता के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अब राज्यों आगे आएँ और इसकी जिम्मेदारी लें.

उन्होंने केंद्र सरकार की तारीफ में कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में सबसे कम बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल-डीजल और एलपीजी को भी पिछले 30 फीसदी से बढ़ोतरी हुई है, जबकि केंद्र सरकार ने इसके बदले में अन्य कई जनकल्याणकारी योजनाओं की शुरूआत की है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम अभी तक कोरोना महामारी से उबर नहीं पाए हैं. देश के 80 करोड़ लोगों को अभी भी मुफ्त में राशन दिया जा रहा है किंदा सरकार ने इससे बचने के लिए अभी भी वैक्सिनेशन अभियान चला रखा है।

## यूक्रेन: भारत पहल क्यों न करे ?



डॉ. वेदप्रताप वैदिक

यूक्रेन के मामले में भारत मौका चूक गया। पिछले ढाई महिने से मैं बराबर लिख रहा था कि यूक्रेन-विवाद शांत करने के लिए भारत की पहल सबसे ज्यादा सार्थक हो सकती है लेकिन जो पहल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करनी थी, वह संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेर्रेस ने कर दी और वे काफी हद तक सफल भी हो गए। गुतेर्रेस खुद जाकर पूटिन और ज़ेलेन्स्की से मिले। उन्होंने दोनों खेमों को समझाने-बुझाने की कोशिश की। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद, महासभा और मानव अधिकार परिषद में रूस के खिलाफ जब भी कोई प्रस्ताव रखा गया तो

ज्यादातर सदस्यों ने उसका डटकर समर्थन किया। बहुत कम राष्ट्रों ने उसका विरोध किया लेकिन भारत हर प्रस्ताव पर तटस्थ रहा। उसने उसके पक्ष या विपक्ष में वोट नहीं दिया। भारत के प्रधानमंत्री पिछले हफ्ते जब यूरोप के सात देशों के नेताओं से मिले तो हर नेता ने कोशिश की कि भारत रूस की भर्त्सना करे लेकिन भारत का रवैया यह रहा कि भर्त्सना से क्या फायदा होगा ? क्या युद्ध बंद हो जाएगा ? इतने पश्चिमी राष्ट्रों ने कई बार रूस की भर्त्सना कर ली, उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर लिये और उस पर तरह-तरह के प्रतिबंध लगा दिए, फिर भी यूक्रेन युद्ध की ज्वाला लगातार भभकती जा रही है। भारत की नीति यह थी कि रूस का विरोध या समर्थन करने की बजाय हमें अपनी ताकत युद्ध को बंद करवाने में लगानी चाहिए। अभी युद्ध तो बंद नहीं हुआ है लेकिन गुतेर्रेस के प्रयत्नों से एक कमाल का काम यह हुआ है कि सुरक्षा परिषद में सर्वसम्मति से यूक्रेन पर एक प्रस्ताव पारित कर दिया है। उसके समर्थन में नाटो देशों और भारत जैसे सदस्यों ने तो हाथ ऊँचा किया ही है, रूस ने भी उसके समर्थन में वोट डाला है। सुरक्षा परिषद का एक भी स्थायी सदस्य किसी प्रस्ताव



का विरोध करे तो वह पारित नहीं हो सकता। रूस ने वोटो नहीं किया। क्यों नहीं किया ? क्योंकि इस प्रस्ताव में रूसी हमले के लिए हथियार, हथअक्रमणह या हथअतिक्रमणह जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। उसे सिर्फ हथअक्रमणह कहा गया है। इस हथअक्रमणह को बातचीत से हल करने की पेशकश की गई है। यही बात भारत हमेशा कहता रहा है। इस प्रस्ताव को नावें और मेक्सिको ने पेश किया था। यह प्रस्ताव तब पास हुआ है, जब सुरक्षा परिषद का आजकल अमेरिका अध्यक्ष है। वास्तव में इसे हम भारत के दृष्टिकोण को मिली विश्व-स्वीकृति भी कह सकते हैं। यदि हमारे नेताओं में आत्म-विश्वास होता तो इसका श्रेय भारत को मिल सकता था और इससे सुरक्षा-परिषद की स्थायी सदस्यता मिलने में भी भारत की स्थिति मजबूत हो जाती। इस प्रस्ताव के बावजूद यूक्रेन-युद्ध अभी बंद नहीं हुआ है। भारत के लिए अभी भी मौका है। रूस और नाटो राष्ट्र, दोनों ही भारत से घनिष्टता बढ़ाना चाहते हैं और दोनों ही भारत का समान करते हैं। यदि प्रधानमंत्री मोदी अब भी पहल करें तो यूक्रेन-युद्ध तुरंत बंद हो सकता है।

## संक्षिप्त समाचार

### सीएसपी संचालक से लूट मामले में चार लोगों पर प्राथमिकी दर्ज

मदरलैण्ड संवाददाता, सारण। थाना क्षेत्र के तरेया-उसरी मुख्य सड़क स्थित चोरवा बड़ के समीप सीएसपी संचालक को पिस्टल भिड़कर बाइक व मोबाइल लूट कांड में तरेया थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। सीएसपी संचालक व चकिया गांव निवासी अजय कुमार सिंह द्वारा दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि वे अपने गांव के एक व्यक्ति अमित कुमार सिंह के साथ संध्या समय बाइक से नेवता करने जा रहे थे कि चोरवा बड़ के समीप एक बाइक पर सवार चार लोग पिस्टल दिखाकर कर उन लोगों का बाइक रुकवाकर सोने की चैन, मोबाइल, 3800 रुपये व रत्नमय बाइक छीनकर पिस्टल लहराते दक्षिण की तरफ भाग निकले। जिसमें मौरिया के शंकर ठाकुर व राजवारा मुकीम सगुनी के गुलशन कुमार के साथ दो अज्ञात व्यक्ति थे। जिन्होंने पिस्टल भिड़कर लूटपाट किया। पुलिस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए मौरिया के शंकर ठाकुर को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है।

### जमीनी विवाद में उपमुखिया पति के साथ मारपीट

मदरलैण्ड संवाददाता, सारण। थाना क्षेत्र के चैनपुर-खराटी गांव में जमीनी विवाद को लेकर चैनपुर पंचायत के उपमुखिया पति के साथ मारपीट कर घायल कर देने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में घायल कृष्णा कुमार राम ने तरेया थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराया है। जिसमें उमेश सिंह व अन्य अज्ञात व्यक्तियों को आरोपित किया गया है। पीड़ित उपमुखिया पति का कहना है कि वह अपने जमीन में मिट्टी भरवा रहे थे। तभी आरोपी अपने समर्थकों के साथ आये और महिलाओं के साथ गाली गलौज करने लगे। जब वे लोग इसका विरोध किये तो मारपीट कर घायल कर दिया। घायल अवस्था में रेफरल अस्पताल तरेया में उपचार हुआ। पुलिस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच में जुट गई है।

### देशभक्ति गीतों के धुन बजाकर राष्ट्र प्रेम का दिया संदेश



मदरलैण्ड संवाददाता, मोतिहारी। आजादी के 75 वें वर्ष को उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। भारत सरकार के निर्देशानुसार चंपारण को प्रसंग के रूप में चुना गया है। इस जिले के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थानों पर उत्सव मनाने को लेकर सीआरपीएफ का बैंड दस्ता बास बैंड हवलदार रामकुमार व पार्सि बैंड उपनिरीक्षक परमहंस के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को शहर स्थित सत्याग्रह स्मारक के प्रांगण में सीआरपीएफ के बैंड दस्ता द्वारा देशभक्ति गीतों के धुन बजाकर राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व युप केन्द्र मुजफ्फरपुर के सहायक कमांडेंट वी वी रत्नम के द्वारा किया गया।

### मेघौल पेठिया के समीप माली टीवीएस एजेंसी का किया गया उद्घाटन



मदरलैण्ड संवाददाता, बेगूसराय। रविवार की शाम मेघौल पेठिया के समीप माली टीवीएस एजेंसी का उद्घाटन लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी धर्मेश कुमार, अपर थानाध्यक्ष अर्चना झा, उपप्रमुख नरेश पासवान एवं समाजसेवी राम गुलजार महतो ने संयुक्त रूप से पीता काटकर किया। इस मौके पर अपने संबोधन में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी धर्मेश कुमार ने कहा कि खोदावन्दपुर जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में टीवीएस एजेंसी खुलने से लोगों को काफी सुविधा मिलेगी और लोग अपने मनपसंद की गाड़ियां खरीदने के लिए अब बड़े शहरों का रुख नहीं करना होगा। उन्होंने इस तरह के एजेंसी खोलने के लिए एजेंसी संचालक को बधाई एवं शुभकामनाएं भी दीं। वहीं अपर थानाध्यक्ष अर्चना झा ने कहा कि सुदूर देहात क्षेत्र के लिए माली टीवीएस एजेंसी वरदान साबित होगा। उन्होंने संचालक से ग्राहकों के लिए बेहतर से बेहतर सुविधा मुहैया करवाने की अपील की। मौके पर एएसआई बलवंत कुमार सिंह, बाड़ा पंचायत के पूर्व मुखिया टिकू राय, पूर्व पंसस अश्वनी प्रसाद सिंह, बसंत विहार हॉटल के व्यवस्थापक अजीत कुमार, राकेश कुमार, रणधीर कुमार, समाजसेवी रामकुमार महतो, सुधीर प्रसाद सिंह, संचालक राजीव कुमार समेत अनेक लोग मौजूद थे।

### महाविष्णु यज्ञ को लेकर लोगों में भारी उत्साह, 12 मई से दौलतपुर गांव में होगा यज्ञ

मदरलैण्ड संवाददाता, बेगूसराय। आगामी बारह मई से दौलतपुर गांव में होनेवाले श्री श्री 1008 महाविष्णु यज्ञ को लेकर क्षेत्र के लोगों में उत्साह का माहौल है। इस ग्यारह दिवसीय महाविष्णु यज्ञ की तैयारी अंतिम चरण में है, बताते चले कि यज्ञ स्थल पर भव्य पंडाल, यज्ञशाला, विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण कार्य, बच्चों के मनोरंजन के लिए झुला, दुकानों की भी व्यवस्था पूरी कर ली गयी है। इस महायज्ञ के आयोजक महंत राम लखन दास जी महाराज ने बताया कि क्षेत्रवासियों की सुख समृद्धि एवं कल्याण के लिए जनसहयोग से इस महाविष्णु यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। यज्ञ के दौरान हवन, पूजन, रामायण पाठ, नवाह, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भागवत कथा एवं रासलीला का आयोजन भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दौलतपुर पंचायत समेत क्षेत्र के तमाम लोग इस आयोजन को सफल बनाने के लिए आगे बढ़कर अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। आयोजक ने बताया कि आगामी 12 मई को सुबह आठ बजे कलश शोभायात्रा निकाली जायेगी। इसमें सैकड़ों कन्याएं कलशयात्रा में भाग लेंगी।

# माँ का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व, उसके बिना दुनिया अधूरी-निर्मला

## » मदरलैण्ड संवाददाता

मोतिहारी। मातृत्व दिवस के अवसर पर रविवार को जिले के विभिन्न संगठनों द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कड़ी में इनरव्हील क्लब ऑफ मोतिहारी लोक टाउन ने शहर के अंबिकानगर स्थित एक आवासीय परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्लब की अध्यक्ष निशा देव ने वैश्विक सभ्यता में माँ की स्थिति क्या थी इसके बारे में बताया। अन्य वक्ताओं ने कहा कि माँ शब्द ही हमें गौरवान्वित करता है। वैसे तो माताओं के प्रति प्यार और सम्मान हर पल हर दिन ही मन में होता है लेकिन इस एक दिन उसे जताकर माताओं को खास महसूस कराए जाने का चलन है। वक्ताओं ने कहा कि इस दिन माँ के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर उनके अथाह प्यार और स्नेह के लिए धन्यवाद दिया जाता है। इस दौरान क्लब की चार्टर संगीता चित्रांश ने उपस्थित माताओं को अंगवस्त्र देकर सम्मानित की। मौके पर क्लब की पीपी रजनी कौशल, आशा सिंह, रंजिता रंजन गुप्ता,



संरक्षिका मीरा सिंह, एडिटर चंद्रलता वर्मा, शीला गुप्ता, मीनू श्रीवास्तव, लोकिता, उषा श्रीवास्तव, सिमरन, कुमकुम शुक्ला, पूनम गुप्ता, शीला कुमारी, आबिदा शमीम, सरिता जायसवाल, रुचि रंजन, पल्लवी, मनीषा सिन्हा, नंदिनी सिंह, बिंदु गुप्ता, तुषित सिंह, दीपा गुप्ता, अंजू कुमारी, अनामिका कुमारी, राखी कुमारी, सचिव कुमारी अमृता सहित अन्य मौजूद रहे। इधर, केसरिया प्रखण्ड क्षेत्र के सुंदरपुर स्थित सेवा सदन में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन जिला पार्षद निर्मला

देवी, सामाजिक कार्यकर्ता विनोद गुप्ता, सेवा सदन के संस्थापक विनोद कुमार पटेल, शिवज्योति देवी व वरीय पत्रकार राकेश कुमार रत्न ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला पार्षद निर्मला देवी ने कहा कि एक माँ का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। माँ का प्रेम अपनी सतान के लिए इतना गहरा व अटूट होता है कि वह अपने बच्चे की खुशी के लिए सारी दुनिया से लड़ लेती है। उन्होंने कहा कि माँ बिना दुनिया अधूरी है। कार्यक्रम का संचालन करते हुए सेवा सदन के संस्थापक विनोद कुमार पटेल व वरीय पत्रकार रंजन कुमार ने भी माँ के महत्व पर प्रकाश डाला। इस दौरान उपस्थित बच्चों के बीच पुरस्कार वितरण किया गया। मौके रूपेश कुमार, संदीप कुमार, सुमित कुमार, कृति सिंह, समीर कुमार, हर्षवर्द्धन, गणेश कुमार, जानकी कुमारी, ऋद्धि कुमारी, कृति शेखर, आराध्या कुमारी, निराली कुमारी, कोमल कुमारी, रंजन कुमारी सहित अन्य मौजूद थे।

### रैया में अज्ञात वाहन की ठोकर से एक युवक की मौत, दूसरा घायल

## » मदरलैण्ड संवाददाता

तरेया। मसरख मुख्य सड़क स्थित गंडार गांव के समीप अज्ञात वाहन की ठोकर से बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गये। घायल एक युवक का इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं दूसरे घायल युवक का इलाज चल रहा है। मृतक तरेया - पानापुर रोड स्थित चैनपुर गांव निवासी शिलानाथ राम का 29 वर्षीय पुत्र अरविन्द कुमार राम बताया जाता है। जबकि घायल युवक सत्यनारायण महतो का पुत्र दीपक महतो का इलाज चल रहा है। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार अरविन्द व दीपक घर से बाइक से एक तिलक समारोह में जा रहे थे। तभी पीछे से तेजगति से आ रही अज्ञात चारपहिया वाहन ठोकर मार दिया। जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गये। ग्रामीणों व परिजनों ने आनन - फानन में दोनों को तरेया रेफरल अस्पताल इलाज के लिए भर्ती कराया। अरविन्द की स्थिति गंभीर होने के कारण चिकित्सकों ने छपरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया। लेकिन परिजन जैसे ही छपरा के लिए लेकर निकले कि तरेया थाना के सामने उसकी



मौत हो गयी। तरेया थाना पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को छपरा सदर अस्पताल भेज कर जांच में जुट गयी है। मृतक के गांव व घर चैनपुर में कोहराम मचा हुआ है। मृतक की पत्नी रानी कुमारी व उसकी मां देवती देवी शव से लिपट कर रोते - रोते बार - बार मूर्छित हो जा रही थी। मृतक का दाईं साल का पुत्र आर्यन कुमार पिता के शव व लोगों की रोना देखकर सिर्फ एकटक से देखते जा रहा था। उसे यह पता नहीं था कि उसके माथे से उसके पिता का साया सदा के लिए उठ गया। घटना की सूचना पाकर तरेया सरपंच प्रतिनिधि शत्रुघ्न महतो, पूर्व सरपंच उपेन्द्र सिंह, वार्ड सदस्य राजू कुमार समेत अन्य लोगों ने शव को पोस्टमार्टम में भेजने व बहदवास परिजनों को सात्वना देने में जुटे हुए थे।

### बैरटवा गांव में भीषण आग लगने से तीन घर जल कर राख

## तीन घर जलकर राख, लाखों का हुआ नुकसान



## » मदरलैण्ड संवाददाता

बेतिया। भितहा थाना क्षेत्र के बैरटवा गांव में तीन घर शनिवार की भीषण आग लग जाने से लाखों रुपए का संपत्ति नुकसान हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बैरटवा निवासी भीम गौड़ के घर में करीब रात्रि 12:00 बजे आग लगी जब तक लोग आग पर काबू पाते तीनों घर पूरी तरह से जलकर राख हो गए। इस भीषण अग्निकांड में 1 क्विंटल चावल एवं 3 क्विंटल गेहूँ के साथ-साथ हैं घर के अन्य सभी नगद 30000 तीस हजार रुपए रखे हुए थे शायद के लिए एवं सामान कपड़े बर्तन जल गए। भीम गौड़ ने कहा कि मेरी लड़की की शादी 21/06/2022 को बारात थी आने वाली थी और शादी का पूरा सामान खरीदा भी लिया गया था। आग लगाने से सारे सामान जल गए। हालांकि ग्रामीणों के द्वारा आग बुझाने का काफी प्रयास किया जा रहा था। झपसी गौड़, लुटावन यादव, दहारी गौड़ शुक्देव गौड़, प्रभु गौड़, जगरनाथ गौड़, मोटर गौड़, सत्यनारायण गौड़, आदि पीड़ित परिवार ने अंचल कार्यालय को आवेदन देकर सहायता की मांग की है।

### स्वस्थ समाज के लिए स्वच्छता की अहम भूमिका--बुद्धेश्वर प्रसाद

## » मदरलैण्ड संवाददाता

बेतिया। गौनाहा-प्रखंड के पंचायत गौनाहा, वार्ड संख्या-10 के परसा गांव में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत रात्रि चौपाल का आयोजन वार्ड सदस्य श्रीमती द्रोपदी देवी की अध्यक्षता में किया गया। चौपाल में ठोस एवं तरल अपशिष्ट पत्र बंधन, स्वच्छता, खुले में शौच नहीं करने, शौचालय के नियमित उपयोग, स्वच्छ वार्ड बनाने हेतु समुदाय को जागरूक करने पर स्वच्छता पर्यवेक्षक बुद्धेश्वर प्रसाद द्वारा विस्तृत चर्चा की गयी। स्वच्छता पर्यवेक्षक ने कहा कि समाज को स्वस्थ बनाने के लिए स्वच्छता की महत्वपूर्ण भूमिका है। चौपाल में उपस्थित सभी लोगों से उन्होंने कहा कि समाज को स्वच्छता से जोड़ने के लिये हर सम्भव प्रयास करें। चौपाल में वार्ड सचिव मिथलेश कुमार यादव, सहित भिखम राउत, जंगी ठाकुर, दरोगा राम, नितेश कुमार यादव, नागमती देवी, अर्निता देवी, बचनी देवी, लालपरी देवी, कलावती देवी, सहोदरी देवी, सोसिला देवी, चैती देवी आदि उपस्थित रहे।



एक सबल अोजार मिला था वह भी छीन लिया गया। हम विश्व में निमार्ता के रूप में हैं। हम भारत के मूल निवासी हैं। वहाँ संचालन करते हुए संघ के जिलाध्यक्ष शिवशंकर ठाकुर ने कहा कि हमें मूल अधिकार से वंचित कर सरकार अन्याय है। सरकार को हमारा मूल अधिकार देना होगा। अन्यथा इस समाज के लोग आंदोलन को बाध्य होंगे जिसकी सारी जवाबदेही सरकार की होगी। धरना को संघ के संरक्षक इन्द्रदेव ठाकुर, राधाकांत ठाकुर, संयोजक

अमीरालाल ठाकुर, युवा सेल के अध्यक्ष अभय शर्मा, महिला सेल की अध्यक्ष इंदु देवी, ब्रजबिहारी शर्मा, रामाश्रय शर्मा सहित अन्य ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम के बाद धरनास्थल पर प्रतिनिधिक दंडाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया। मौके पर दीपक शर्मा, शत्रुघ्न शर्मा, कृष्णा शर्मा, राजनारायण शर्मा, नंदलाल ठाकुर, के लाश ठाकुर, अवधेश शर्मा, राधेश्वर शर्मा, सुखदेव ठाकुर, रघुवीर ठाकुर, समिद्व हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे।

### गौनाहा प्रखण्ड में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ भूख हड़ताल पर उतरेगी लोजपा

## » मदरलैण्ड संवाददाता

बेतिया। गौनाहा लोजपा के कार्यकर्ताओं की एक बैठक गौनाहा प्रखंड के भटियानी चौक पर संपन्न हुआ। बैठक में मुख्य रूप से प्रखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा की गई। बैठक में कहा गया कि आम जनता के आवाज को पंचायत से लेकर जिला स्तर तक कोई भी सुनने वाला नहीं है। बिहार सरकार के पदाधिकारी लूट खसोट एवं अफसरशाही की भेंट चढ़ गई और बिहार की अंधी गुंगी और बहरी सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है। जनता की आवाज को नीचे से लेकर ऊपर तक कोई भी पदाधिकारी सुनने वाला नहीं है। प्रखंड कार्यालय लूट खसोट एवं दलालों का अड्डा बन कर रह गया है। अंधी बहरी एवं गुंगी सरकार को जगाने में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनुमंडल प्रशासन के मनमानी एवं लूट खसोट के विरोध में आगामी 16/05/2022 को अनुमंडल पदाधिकारी नरकटियागंज के समक्ष एक दिवसीय भूख हड़ताल करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है। बैठक में मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष दीपक कुमार मिश्रा लेबर सेल जिला अध्यक्ष अनिल चौबे एससी एसटी प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष नागेंद्र शर्मा, कुमार सिद्धार्थ, हिमाचल कुमार, सोहन राम, अरविंद ठाकुर, जयनारायण महतो, प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार महतो, मीडिया प्रभारी कृष्ण कुमार एवं लोजपा परिवार उपस्थित रहा।

# अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लक्षनौता बंद रहने से ग्रामीणों और मरीजों में फैला आक्रोश

## डॉक्टर ड्यूटी से हमेशा रहते हैं गायब लेकीन हर महीने हो जाता है वेतन संधारण

## » मदरलैण्ड संवाददाता

बेतिया। गौनाहा प्रखण्ड अन्तर्गत लक्षनौता पंचायत के लक्षनौता गांव के एकलौता अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र बंद रहने से ग्रामीणों और मरीजों में रोष व्याप्त है। ग्रामीण सह जदयू नेता संजय कुमार गुप्ता, जीउत राम, मीना देवी, भरत गुप्ता आदि लोगों ने बताया कि हमारे गांव के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर नियुक्त चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ब्रजेन्द्र कुमार गुप्ता सप्ताह में कभी एक दिन अपने ड्यूटी पर आते हैं या कभी-कभी लगातार कई सप्ताह नहीं आते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि आज शनिवार दिनांक 7 मई 2022 को भी ड्यूटी पर नहीं आए हैं। जिससे इस गर्मी के मौसम में कई तरह के बीमारियों से पीड़ित गरीब मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। वहीं डॉक्टर ब्रजेन्द्र कुमार गुप्ता पर सम्पर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि आज मेरा केन्द्र पूर्णतः बंद है। क्योंकि मेरा ड्यूटी आज दोमाठ उप स्वास्थ्य केंद्र पर लगाया गया है। जब इसकी जानकारी रेफरल अस्पताल गौनाहा के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शशि कुमार से लिया गया तो उन्होंने बताया कि उनका ड्यूटी जब



अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लक्षनौता में है, तो वह दोमाठ में ड्यूटी की जो बात बता रहे हैं वह सरासर गलत है। उन्होंने बताया कि मैं डॉक्टर ब्रजेन्द्र कुमार गुप्ता से शपथीकरण पूछते - पूछते थक गया हूँ। अब प्रश्न यह है कि इस डॉक्टर का वेतन संधारण कैसे होता है, जब कि उक्त डॉक्टर हमेशा ड्यूटी से गायब ही रहते हैं। बताते चले कि पहले महीने भी जब उक्त डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं पाए गए थे तब भी समाचार पत्र में यह बात प्रकाशित हुई थी। और बेतिया जिला के सिविल सर्जन डॉक्टर बरिन्द्र प्रसाद को भी हस्तार्पण के माध्यम से समाचार का कतरन पढ़ाया गया था। लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई इससे स्पष्ट होता है कि इस डॉक्टर को ड्यूटी नहीं करने की सम्बन्धित विभाग के तरफ से पूरी छूट है। ग्रामीणों ने बताया कि केन्द्र पर नियुक्त एएनएम और परिचारी भी नहीं आए हैं। वहीं एएनएम मुन्नी शुक्ला ने बताया कि आज रेफरल अस्पताल गौनाहा में मेरा मीटिंग है। वहीं जदयू के प्रखण्ड अध्यक्ष बिक्रमा चौधरी ने बताया कि इसकी जांच कराई जाएगी। वाल्मीकि नगर लोक सभा के सांसद शुनिल कुमार महतो के पीए संजय कुमार ने बताया कि इस पर कार्यवाही की जाएगी।

संक्षिप्त समाचार

अज्ञात बाइक की टक्कर से एक महिला की मौत



मद्रलैण्ड संवाददाता, कटिहार। समेली प्रखंड स्थित नवाबगंज चौक पर मोरसंडा निवासी स्वर्गीय वरुण मंडल की पत्नी व गेनेरी मंडल की मां कामो देवी सब्जी बेचकर लौटने के क्रम में शनिवार शाम 6:30 बजे एक तेज रफ्तार आ रही अज्ञात बाइक ने टक्कर मार कर फरार हो गया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें स्वास्थ्य केंद्र कुरसेला रेफर कर दिया। आपातकालीन स्थिति में कुरसेला चिकित्सा पदाधिकारी ने भी भागलपुर रेफर कर दिया। अस्पताल में एंबुलेंस न होने की वजह से प्राइवेट एंबुलेंस से भागलपुर जाने के क्रम में मकन्दपुर चौक के पास घायल ने दम तोड़ दिया। कुरसेला पुलिस प्रशासन की मदद से अंत परीक्षण के लिए सदर अस्पताल कटिहार भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि कामो देवी अत्यंत गरीबी में सब्जी बेचकर अपना व परिवार का गुजारा करती थी। परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने प्रशासन एवं जिला पदाधिकारी से मुआवजे की मांग की है।

विवाद सुलझाने पहुंचे मनसाही के प्रबुद्ध पंचायत जनप्रतिनिधि



मद्रलैण्ड संवाददाता, कटिहार। मनसाही प्रखंड क्षेत्र के साहेबनगर पंचायत के वार्ड ग्यारह के बिसनपुर यादव टोला में वर्षों से चल रहे भूमि विवाद को निपटारे के लिए क्षेत्र के दिग्गज नेता पहुंचे। हालांकि मामले का निपटारा तो नहीं हुआ मगर इस समस्या के स्थाई समाधान हेतु फिर से पंचायत बुला कर मामले के निपटारे को ले सहमति बनी। बताते चलें कि बिसनपुर यादवटोला निवासी मनोरथ कुमार ठाकुर ने अपने पड़ोसी लक्ष्मी ठाकुर पर जबर्न साढ़े सात डिसिमिस जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण कर लेने की बात कही है, और इसी को ले पंचायत बुलाई गई थी। इस अवसर पर प्रमुख प्रतिनिधि निर्मल भगत, प.स.स. प्रतिनिधि रतन यादव, जपि प्रतिनिधि खुशीदा आजाद, उपप्रमुख संतोष यादव, सरपंच मो. जरीफ, प्रमोद सिंह, पूर्व सरपंच जितेंद्र पासवान आदि मौजूद थे।

ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात व्यक्ति हुआ मौत

मद्रलैण्ड संवाददाता, कटिहार। सोनेली-बारसोई रेल खंड अन्तर्गत झौआ के समीप अहले सुबह लगभग तीन बजे एक ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात व्यक्ति का हुआ मौत। मिली जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि रविवार के अहले सुबह लगभग तीन बजे बारसोई की ओर से आ रहे एक ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात व्यक्ति का मौत हो गया बताया जाता है कि झौआ के समीप पटरी पार करते हुए अचानक एक ट्रेन की चपेट में आ गया जिससे उक्त व्यक्ति का मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गया। बताते चलें कि उक्त स्थान पर ओवर ब्रिज बनाने को लेकर ग्रामीणों द्वारा कई बार धरना प्रदर्शन भी किया गया लेकिन इस पर कोई नेताओं एवं अधिकारियों द्वारा सिर्फ अस्वासन ही दिया गया लेकिन आज तक उक्त स्थान पर ब्रिज का निर्माण नहीं हो पाया है। जिसका खामियाजा आज इस प्रकार से एक अज्ञात व्यक्ति का दर्दनाक मौत हो गया। इस बाबत कदवा थानाध्यक्ष रंजय कुमार सिंह ने बताया कि रविवार के अहले सुबह एक ट्रेन के चपेट में आने से एक अज्ञात व्यक्ति का मौत हो गया। जिसे कागजी प्रक्रिया के बाद अंत्यपरीक्षण हेतु सदर अस्पताल कटिहार भेज दिया गया है।

पत्नी पहूची पंचायत



मद्रलैण्ड संवाददाता, कटिहार। मनसाही प्रखंड के मोहनपुर पंचायत के पंचायत सरकार भवन मोहनपुर में पति द्वारा प्रताड़ित करने का मामला पंचों के समक्ष पहुंचा जिसमें पंचों ने दोनों पक्षों की बातों को सुनते हुए लड़के पक्ष को लड़की को सम्मान विदाई कर लाने का आदेश दिया बताते चलें कि मनसाही बिसनपुर तिवाड़ी टोला निवासी मंदू ठाकुर के पुत्र चंदन कुमार ठाकुर का विवाह पिछले वर्ष जुलाई में मनोहारी के कुतुबपुर सीज निवासी स्व. छोटैलाल ठाकुर की पुत्री ममता कुमारी की शादी हिन्दू-रीतिरिवाज से हुई थी मगर विवाह के बाद से पति चंदन किसी न किसी बात पर लड़की को प्रताड़ित करता रहता था व देहेज की मांग करता रहता इस दौरान लड़की सिर्फ पांच महीने ही रसुराल में रह पाई जब वह मायके गई तो पति उसे नापसंद का बहाना बना लाने से इनकार कर दिया इसी को ले लड़की की माँ मसोमात प्रमिला देवी ने मोहनपुर सरपंच से इंसाफ की गुहार लगाई, वहीं पंचों ने लड़के पक्ष को लड़की को सम्मान विदाई कर लाने का आदेश दिया।

आर्मी बहाली के लिये युवा सड़क पर उतरे



मद्रलैण्ड संवाददाता, कटिहार। विगत दो वर्षों से आर्मी की बहाली नहीं लेने का विरोध जताते हुए आक्रोशित बेरोजगार युवाओं ने कटिहार के कुरसेला में शहीद चौक पर हाथ में तिरंगा लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही एन एच-31 को जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे अविनाश कुमार ने कहा सरकार हम युवाओं को रोजगार दे। आर्मी की बहाली ले। सरकार हर कार्य कर रही है। लेकिन हम युवाओं को रोजगार कौन देगा। दो वर्षों से आर्मी की बहाली बंद है। सरकार आर्मी की बहाली प्राथम करवाए। बाद में आर्मी छात्रों को वहां की प्रशासन द्वारा समझा बुझाकर जाम को हटवाया गया। हालांकि कुछ देर के लिए जाम के कारण वाहनों की लंबी कतार लग गई।

रेडक्रॉस के संस्थापक का जन्मदिन रेड क्रॉस भवन में मनाया

मानवता की सेवा में रेडक्रॉस कार्य किया है : डीएम

» मद्रलैण्ड संवाददाता

कटिहार। रेड क्रॉस सोसाइटी कटिहार के सदस्य चेयरमैन अनिल चमरिया के नेतृत्व में आज रेडक्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेट के जन्मदिन रेड क्रॉस भवन में मनाया गया। आज ही के दिन 8 मई 1928 को हमारे संस्थापक का जन्म हुआ था। उनके जन्मदिवस को मानव सेवा में उनके योगदान तथा रेड क्रॉस स्वयंसेवकों के सेवा भाव को याद करने के लिए विश्व रेडक्रॉस दिवस के रूप मनाया जाता है। इस अवसर पर रेड क्रॉस अध्यक्ष सह जिला पदाधिकारी उदयन मिश्रा ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज अपनी स्थापना के 159 में वर्षों में रेड क्रॉस लगभग दस करोड़ स्वयंसेवकों के सहयोग से विश्व के 190 देशों में मानव स्वास्थ्य तथा जीवन की रक्षा में हर पल हर क्षण लगी हुई। उन्होंने रेडक्रॉस के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उनके 13 महीने के कार्यकाल में पीड़ित मानवता की सेवा में हमेशा प्रसाशन के साथ रेडक्रॉस कार्य किया है। उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस के अविस्मरणीय सेवा कार्यों के लिए इसे तीन तीन बार नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया है। चेयरमैन अनिल चमरिया ने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी की कटिहार शाखा प्रतिबद्धता के साथ पीड़ितों को मदद करने में संदेव अग्रणी भूमिका निभाती आई है। उपाध्यक्ष डॉ राजा झा ने कहा



कि चुकी इस बार रेडक्रॉस का थीम था बी ह्युमन काईड इसलिए आज विश्व रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर आज समाज के अंतिम पंक्ति पर विद्यमान लगभग 70 महिलाओं के बीच हाईजीन किट का वितरण भी किया गया।

रेडक्रॉस सचिव संतोष गुप्ता ने कहा कि इस संस्था की पहचान के लिए सफेद पट्टी पर लाल रंग के क्रॉस चिह्न को

मान्यता दी गई। आज यह चिह्न पूरे विश्व में पीड़ित मानवता की सेवा का प्रतीक बन गया है। इसके साथ यह भी अति महत्वपूर्ण है कि विश्व का पहला ब्लड बैंक रेडक्रॉस की पहल पर अमेरिका में 1937 में खुला। आज विश्व के अधिकांश ब्लड बैंकों का संचालन रेडक्रॉस एवं उसकी सहयोगी संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। सह सचिव विवान सरकार, प्रबंध समिति सदस्य पुरुषोत्तम मोदी,

परिवारिक विवाद सहित मामलों को सुलझाने हेतु ग्राम कचहरी का हुआ आयोजन

» मद्रलैण्ड संवाददाता

कटिहार। कोढ़ा प्रखंड के राजवाड़ा पंचायत के मनसाही भवन में शनिवार को सरपंच तानुज खानुन व उप सरपंच शंभू कुमार चौबे की संयुक्त अध्यक्षता में ग्राम कचहरी का आयोजन किया गया। आयोजित ग्राम कचहरी में कुल तीन मामलों पर सुनवाई की गई, मौके पर ग्राम कचहरी में पंचायत से आए विवादित मामलों पर दोनों पक्षों के समक्ष सुनवाई शुरू की गई। मौके पर उपसरपंच शंभू कुमार चौबे ने बताया कि पंचायत क्षेत्र से परिवारिक विवाद, मारपीट, फौजदारी, बटवारा सहित कई मामलों को लेकर आवेदन आए हुए हैं, जिसमें आज कुल तीन मामलों पर दोनों पक्षों को मौजूदगी में सुनवाई की गइल है। साथ ही नए आए कई महल की सुनवाई को लेकर अगली तारीख निर्धारित की गई है।



बताया पंचायत क्षेत्रों में शांति व्यवस्था कायम रहे इसके लेकर प्रत्येक शनिवार को ग्राम कचहरी का आयोजन किया जाता है, जिसमें दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए फैसला सुनाया जाता है। मौके पर उपसरपंच शंभू कुमार चौबे ने बताया कि न्याय सचिव नहीं रहने पर आए

मामलों के विभादन पर परेशानी हो रही है, उन्होंने जिला पदाधिकारी से अपील किया है कि पंचायत ग्राम कचहरी में न्याय सचिव की बहाली की जाए, इस अवसर पर न्याय सचिव बिभा कुमारी, मोहम्मद आजाद अली सहित दर्जनों फरियादी मौजूद रहे।

हरिप्रसाद में ठाकुर बाड़ी के चारदिवारी निर्माण का हुआ शिलान्यास



» मद्रलैण्ड संवाददाता

कटिहार। मनसाही प्रखंड के भेडमारा पंचायत के हरिप्रसाद गांव में अवस्थित ठाकुरबाड़ी की चैराबन्दी हेतु योजना एवं विकास विभाग के द्वारा चारदिवारी का निर्माण किया जाएगा, शिलान्यास विधान पार्षद अशोक कुमार अग्रवाल ने फीता काटकर किया। इस मौके पर श्री अग्रवाल ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता क्षेत्र का सर्वांगीण विकास है, जिसके लिए वे हमेशा तत्पर रहते हैं, उन्होंने कहा कि अगर किसी को कोई समस्या हो तो सीधे मुझे मिले मेरे द्वारा हर सम्भव मदद की जाएगी। इस अवसर पर कार्यपालक अभियंता हेमंत कुमार, कनिष्ठ अभियंता श्रीकांत कुमार, एमएलसी प्रतिनिधि कुमार अमित सूर्य, भाजपा नेता प्रदीप सिंह, कमल किशोर साह, अमित शाह, संवेदक अंजु देवी, गणेश जयसवाल, रंजीत सिंह, ब्रजेश झा, रंजन झा, चंदन साह, वार्ड सदस्य दसनन्दन भुइयॉ आदि मौजूद थे। बताते चलें कि यह ठाकुर बाड़ी बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड से पंजीकृत है, जिसके सेवावत अल्फमैन ओझाइन थीं।

खालसा पंथ के दूजे गुरु अंगद देव जी महाराज की 519 वां प्रकाशपर्व मानव कल्याण अरदास कर समणन्न हुआ

» मद्रलैण्ड संवाददाता

कटिहार। बरारी प्रखंड सिख गुरु एतिहासिक धरती है, पावन धरती पर हो रहे धार्मिक कार्यक्रम से ओत प्रोत हो रही संगत, कोई बोल राम राम, कोई खुदाएँ, कोई सेवै गोरसईया शब्द गायन के साथ गुरुनामक सतसंग सभा गुरुद्वारा बड़ी भैसदीरा में खालसा पंथ के दूजे गुरु अंगद देव जी महाराज की 519 वां प्रकाश गुरुपर्व पर तीन दिवसीय कार्यक्रम आदि गुरुश्री गुरुग्रंथ साहिब जी महाराज का अखंड पाठ शुक्रवार को आरम्भ हुआ, शनिवार को पाठ का मध्य एवं रविवार को अखंड पाठ की समाप्ति के उपरान्त गुरुद्वारा परिसर में श्रीगुरुग्रंथ साहिब की हजुरी में दीवान सजाया गया, खालसा पंथ के पाँच तख्तों में तख्त श्री हरमदजी पटना साहिब के हजुरी राजी जलथा भाई जगत सिंह ने गुरुअंगद देव जी महाराज की प्रकाश गुरुवाणी मनोहर कीर्तन कर खंब साध संगत को निहाल किया, तख्त श्री हरिमंद जी पटना साहिब के कथा वाचक भाई दलजीत सिंह ने गुरुवाणी का श्रवण कराया, लक्ष्मीपुर के राजी जलथा भाई रविन्द्रपाल सिंह ने गुरुसाहिबानों की वाणी का प्रकाश करा संगतों को श्रद्धाभाव से ओतप्रोत किया, उपरान्त देर शाम गुरुग्रंथ साहिब के समक्ष हेडग्रंथी भाई



प्रेम सिंह ने मानव कल्याण के लिए अरदास किया, कड़ाह प्रसाद का वितरण किया गया, तीन दिवसीय गुरुपर्व के सफल संचालन प्रधान सरदार कुंदन सिंह, उपप्रधान बीवी सरिता कौर, महासचिव दर्पण सिंह, कोषाध्यक्ष सावन सिंह, साहेब सिंह, प्रेमसिंह, मनोज सिंह, त्रिलोक सिंह, बलवीर सिंह, बचन सिंह, बीवी प्रीतम कौर, नीलू सिंह, मनोहर, जशवाल सिंह, माया सिंह ने सहयोग में

लगे रहे, मौके पर सेनट्रल सिख वेलफेयर सोसाइटी बिहार के अध्यक्ष गोविंद सिंह, लक्ष्मीपुर के प्रधान प्रदीप सिंह, भण्डारतल के प्रधान अमरजीत सिंह, जदतु नेता सरदार असोक सिंह, जपि सदस्य गुणसागर पासवान, कमल सिंह ने शीश नवाकर गुरु की खुशियां प्राप्त की, गुरु का लंगर अटूट बरताया गया, जो बोले सो निहाल सतश्रीआकाल के जयघोष से तीन दिवसीय गुरुपर्व सम्पन्न हुआ।

गंगा जयन्ती अवसर पर मनिहारी गंगा तट पर महाआरती का हुआ आयोजन

» मद्रलैण्ड संवाददाता

कटिहार। बिहार झारखंड के सीमा पर वसे मनिहारी गंगा तट में भागीर्थ प्रयास के धरती पर अवतरित हुई मोक्षदायिनी मां गंगा काणा प्रति वर्ष बैशाख माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी और गंगा जयन्ती अवसर पर महाआरती का आयोजन हुआ। मनिहारी-साहिबगंज अन्तर्राज्यीय फेरीसेवा के सौजन्य से कटिहार के मनिहारी उत्तरावणी गंगा घाट पर आयोजन किया गया। महेश कुमार गुड़ी पुरोहित मुख्य में काशी से पंडितों की टीम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मां गंगा की जो माता की स्थापना हुई। उस दिन के लिए महा आरती का आयोजन किया। आयोजक बच्चू यादव ने बताया कि गंगा माई के नाम पर झारखंड के साहिबगंज से हम लोग हैं। हम लोग का घाट होता है, तो हम लोग 86 पूजा करते हैं। इस पर हो या उस पर हो हम लोग गंगा माई के आशीर्वाद से समाज के आशीर्वाद से बहुत अच्छे से हम लोग पूजा कर रहे हैं। झारखंड से आकर बिहार में पूजा कर रहा है।



सांसद दुलालचंद गोस्वामी ने कहा कि बनारस से जो है आरती करने के लिए पुजारी लोग आए हुए थे बहुत अच्छा है। लोगों में बहुत उत्साह है मां गंगा की कृपा सब पर बनी रहे। एमप्लसी अशोक अग्रवाल ने कहा कि गंगा आरती का आयोजन किया गया था। यहां के सैकड़ों लोग हजारों लोग हर रोज इस पार से उस

पार आते जाते हैं। मां गंगा कोई क्षति न करें मां गंगा की कृपा सब पर बनी रहे। इसी आयोजन पर मैं सबको बहुत-बहुत साधुवाद देता हूँ। उन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया और हजारों लोग इस आरती में शामिल हुए हैं। जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि सिंह ने कहा कि मैं सर्वप्रथम आज महा गंगा सप्तमी है और मैं गंगा जयन्ती की शुभकामनाएं देना चाहूंगी। अपने पूरे बिहार जिला के वासियों को गंगा जयन्ती है और गंगा सप्तमी की अनंत शुभकामनाएं। काशी विश्वनाथ के महिला पुरुष वाद्य और उनके द्वारा महा गंगा की आरती गाई गई। जिला परिषद चेयरमैन साहेबगंज सुरेंद्र यादव ने कहा कि अंतर राज्य फेरी सेवा की ओर से गंगा सप्तमी के उपलक्ष पर गंगा महा आरती का आयोजन किया गया है। मनिहारी घाट पर हर वर्ष हम लोग करते हैं। मनिहारी घाट पर गंगा सप्तमी के उपलक्ष पर और गंगा दशहरा के उपलक्ष में साहिबगंज में किया जाता है हर वर्ष इसी तरह किया जाता है।

आम लोगों को समय पर स्वास्थ्य लाभ मिल सके इसके लेकर आशा कार्यकर्ताओं की हुई बैठक



» मद्रलैण्ड संवाददाता

कटिहार। कोढ़ा प्रखंड के उप स्वास्थ्य केंद्र राजवाड़ा में आशा कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। आम जनो को समय पर स्वास्थ्य लाभ मिल सके इसके लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा की गई, मौके पर बैठक की अगुवाई करते सचिव आशीष कुमार ने बताया कि क्षेत्रों में जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य की रक्षा को लेकर टीकाकरण कार्यक्रम सहित कोविड वैकसीनेशन कार्यक्रम की सफलता को लेकर आशा कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की जा रही है। बताया क्षेत्रों में वैकसीनेशन के प्रति आम लोगों को जागरूक करने हेतु आशा कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया जा रहा है, बताया क्षेत्रों में छूटे हुए सभी लोगों को कोविड-19 का टीका दिया जाना है, जिसको लेकर समय-समय पर चर्चनित क्षेत्रों में टीकाकरण अभियान चलाया जाता है, आम लोगों को सरकार की महत्वकांक्षी योजना का लाभ समय रहते मिले इसके लेकर स्वास्थ्य विभाग की अगुवाई में कार्यक्रम किए जा रहे हैं, ताकि आमलोग स्वास्थ्य लाभ से लाभान्वित हो सके, मौके पर आम लोगों को वैकसीनेशन के प्रति जागरूक करने को लेकर आशा कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया जा रहा है, इस अवसर पर दर्जनों आशा कार्यकर्ता मौजूद रहे।





# योगी सरकार ने आम आदमी की पतली दाल को गाढी करने की योजना बनाई

2016-17 से 2020-21 के दौरान दलहन उत्पादन 23.94 मीट्रिक टन से बढ़कर 25.34 लाख मीट्रिक टन हुआ

नई दिल्ली, एंजेंसी। खाद्यान्न में रिकॉर्ड उत्पादन के बाद योगी सरकार अब खाद्यान्न सुरक्षा से एक कदम आगे पोषण सुरक्षा के बारे में सोच रही है। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका दलहनी फसलों की होगी। इसके पीछे वजह है कि आम आदमी खासकर शाकाहारी लोगों के लिए प्रोटीन का एकमात्र स्रोत दाल ही है। खपत की तुलना में पैदावार कम होने से अक्सर कुछ वर्षों के अंतराल पर दाल के दाम सुखियों में रहते हैं। ऐसा होने पर आम आदमी के थाल की दाल पतली हो जाती है। इसके लिए योगी सरकार ने आदमी के थाल की दाल पतली दाल को गाढ़ा करने की कार्ययोजना तैयार की है। दरअसल इस योजना पर काम तो योगी सरकार के पहले कार्यकाल में ही शुरू हो गया था। नतीजतन 2016-17 से 2020-21 के

दौरान दलहन का उत्पादन 23.94 मीट्रिक टन से बढ़कर 25.34 लाख मीट्रिक टन हो गया। इस दौरान प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 9.5 क्विंटल से बढ़कर 10.65 क्विंटल हो गई। यह प्रदेश की खपत का महज 45 फीसद है। योगी सरकार ने इसके लिए पांच साल का जो लक्ष्य रखा है उसके अनुसार दलहन का रकबा बढ़ाकर 28.84 लाख हेक्टेयर करने का है। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 12.41 क्विंटल और उत्पादन 35.79 मीट्रिक टन करने का है। उत्पादन में गुणवत्ता बीज की महत्ता को देखते हुए दलहन की विभिन्न फसलों की नई प्रजातियों के प्रमाणित (सर्टिफाइड) एवं आधारीय (फाउंडेशन) बीज का वितरण



28751 क्विंटल से बढ़ कर 82000 क्विंटल किया जाएगा। ये बीज किसानों को अनुदानित दर पर दिए जाएंगे। दलहनी फसलों का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए अंतःफसली एवं जायद की फसलों में दलहनी (उर्द, मूंग) फसलों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। असमतल भूमि पर स्प्रेकलर सिंचाई प्रणाली का प्रयोग करते हुये उत्पादन में वृद्धि, फरो एंड रिज तकनीक से खेती कर उत्पादन में वृद्धि और न्यूगटन समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद की गारंटी दी जाएगी।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल का उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है। सर्वाधिक आबादी के नाते इस उपभोग का सर्वाधिक हिस्सा यूपी का ही है। ऐसे में पूरे दुनिया के दाल उत्पादक देशों (कनाडा, आस्ट्रेलिया, अमेरिका, टर्की, और म्यान्मार) की नजर न केवल भारत और उत्तर प्रदेश के पैदावार बल्कि छह महीने के भंडारण पर भी रहती है। ऐसे में अगर पैदावार कम है तो यहां की भारी मांग के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाल यू ही तेज हो जाती है। इस पर रुपए के मुकाबले डॉलर की क्या स्थिति है? इसका भी बहुत असर पड़ता है। रुपए के मुकाबले अगर डॉलर के दाम अधिक हैं तो आयात भी महंगा पड़ता है। इस तरह दाल के आयात में देश को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भी खर्च करना होता है। अगर उत्तर प्रदेश दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाय तो विदेशी मुद्रा भी बचेगी।

# हाइब्रिड वाहनों पर कर कम कर देश में ईवी स्वीकार्यता को तेजी से बढ़ाया जा सकता है: होंडा

नई दिल्ली, एंजेंसी। होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड (एचसीआईएल) के उपाध्यक्ष (विपणन एवं बिक्री) कुणाल बहल ने कहा कि हाइब्रिड वाहनों पर कर की दर कम कर देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की स्वीकार्यता को तेजी से बढ़ाया जा सकता है। हाइब्रिड प्रौद्योगिकी वर्तमान में भारतीय परिस्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि यह बाहरी चार्जिंग ढांचे पर निर्भर नहीं है। देश में हाइब्रिड वाहनों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) सहित कुल कर का बोझ 43 प्रतिशत बैठता है। वहीं बैटरी दाल इलेक्ट्रिक वाहनों पर पांच प्रतिशत कर लगता है। बहल ने कहा कि करों में एक बड़ा अंतर है। ऐसे में यदि सरकार हमें समर्थन देते हुए हाइब्रिड वाहनों पर कर कम करती है, तो यह एक स्वागतयोग्य कदम होगा। हम सरकार से ऐसा

करने का अनुरोध करते हैं। हमें विश्वास है कि अगर वे इसे कम कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक वाहनों की स्वीकार्यता तेजी से बढ़ेगी। हाइब्रिड वाहन पूर्ण रूप से बिजलीचालित वाहनों की ओर बदलाव में मदद कर सकते हैं। साथ ही इनसे वाहनों से उत्सर्जन और जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करने में भी मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि सरकार उत्सर्जन के स्तर को कम करना चाहती है, हम वास्तव में इसका सम्मान करते हैं। साथ ही वे ईंधन की खपत को भी कम करना चाहते हैं। इन दोनों लक्ष्यों को हाइब्रिड वाहनों से हासिल किया जा सकता है। बहल ने कहा कि होंडा का मानना है कि हाइब्रिड देश के लिए सबसे अच्छा समाधान है, क्योंकि खरीदारों के लिए रेंज का कोई मुद्दा नहीं रहेगा और इस तरह के वाहनों के प्रदर्शन पर किसी तरह का अंकुश भी नहीं है। उन्होंने कहा कि मौजूदा परिदृश्य में हमारे अनुसार इससे (हाइब्रिड) बेहतर कुछ नहीं है। यह अभी सबसे अच्छा समाधान है। कंपनी हाल में मुख्यधारा के हाइब्रिड खंड में उतरी है और उसने सिटी ई-एचईवी उतारी है। होंडा की 2030 तक वैश्विक स्तर पर 30 इलेक्ट्रिक वाहन मॉडल उतारने की योजना है। कंपनी का उस समय तक सालाना 20 लाख इकाइयों के उत्पादन का लक्ष्य है। वाहन क्षेत्र की प्रमुख कंपनी की योजना अगले 10 साल में इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में 40 अरब डॉलर का निवेश करने की है। बहल ने कहा कि वैश्विक रुख बिजली चालित वाहनों की ओर है। हम मानते हैं कि भारतीय ग्राहक वास्तव में इलेक्ट्रिक यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं।

## संक्षिप्त समाचार

### पेट्रोल और डीजल की कीमत 32वें दिन भी स्थिर

नई दिल्ली, एंजेंसी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 110 डॉलर प्रति बैरल पार करने के बावजूद देश में तेल विपणन कंपनियों ने रविवार को 32वें दिन भी पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। सार्वजनिक क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के अनुसार रविवार को दिल्ली में पेट्रोल 105.41 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.67 रुपए प्रति लीटर पर स्थिर रहा। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 120.51 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 104.77 रुपए प्रति लीटर पर स्थिर है। यूकेन और रूस के बीच जारी जंग से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में घट-बढ़ जारी है। अंतरराष्ट्रीय लंदन ब्रेंट क्रूड 112.39 डॉलर प्रति बैरल पर और अमेरिकी क्रूड 2.17 प्रतिशत की बढ़त के साथ 110.61 डॉलर प्रति बैरल की कीमत पर कारोबार कर रहा है। देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें 137 दिन की स्थिरता के बाद गत 22 मार्च से बढ़नी शुरू हुई थीं। कंपनियों ने 42 दिन में 14 बार पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि की। इस दौरान इनके दामों में करीब 10 रुपए प्रति लीटर की तेजी आई है।

### स्विगी ने गरुण एयरोस्पेस के साथ की साझेदारी

मुंबई, एंजेंसी। जल्द ही आपके पास ड्रोन के जरिए खाना या किराने का सामान पहुंचाने का सपना साकार होने जा रहा है। दरअसल, घर बैठे ऑर्डर पर खाना पहुंचाने वाली कंपनी स्विगी ने गरुण एयरोस्पेस के साथ एक साझेदारी की है। इस साझेदारी के जरिए स्विगी खाने की डिलीवरी ड्रोन के जरिए करने की तैयारी कर रही है। शुरुआती दौर में दिल्ली-एनसीआर और बंगलुरु में इसका ट्रायल शुरू होगा। ट्रायल सफल होने के बाद अन्य शहरों में इसे लागू किया जाएगा। बता दें कि स्विगी एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी है। जिसकी स्थापना 2014 में हुई थी। स्विगी भारत की सबसे बड़ी फूड डिलीवरी कंपनी है। 2019 तक स्विगी 100 शहरों में काम कर रही है। 2019 के बाद कंपनी ने स्विगी स्टोर्स के नाम से विस्तार किया है।

### आईएचसीएल एसेट-लाइट मॉडल और स्वामित्व वाले होटलों में साधेगी संतुलन

कोलकाता, एंजेंसी। टाटा समूह की समर्थित कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड ने कहा कि आगामी दिनों में कंपनी स्वामित्व वाली संपत्तियों और एसेट-लाइट संपत्तियों को बराबर संख्या में बनाए रखेगी। आईएचसीएल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ताज ब्रांड के लग्जरी होटलों के स्वामित्व वाले आईएचसीएल में अभी 50 फीसदी संपत्तियां एसेट-लाइट मोड में हैं। एसेट-लाइट का मतलब संपत्तियों में स्वामित्व कम करने से होता है। कोलकाता के न्यू टाउन में ताज सिटी सेंटर की शुरुआत करते हुए आईएचसीएल के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुनीत चटवाल ने कहा कि हम 50 फीसदी संपत्ति एसेट-लाइट रखना चाहते हैं और बाकी स्वामित्व वाली या किराए की संपत्तियां रखना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि देश में कंपनी की 177 संपत्तियां हैं और चार या पांच को छोड़कर ज्यादातर भावी होटल एसेट-लाइट मॉडल वाले हैं।

### सेंसेक्स की 10 प्रमुख कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 2.85 लाख करोड़ घटा

नई दिल्ली, एंजेंसी। बीते सप्ताह संसेक्स की 10 प्रमुख कंपनियों के बाजार पूंजीकरण सामूहिक रूप से 2,85,251.65 करोड़ रुपए कम हो गया है। सबसे अधिक नुकसान में रिलायंस इंडस्ट्रीज रही। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) का बाजार मूल्यांकन 42,847.49 करोड़ रुपए टूटकर 12,56,152.34 करोड़ रुपए रह गया। एचडीएफसी बैंक की बाजार वैल्यू 36,984.46 करोड़ रुपए के नुकसान से 7,31,068.41 करोड़ रुपए रह गई। हिंदुस्तान यूनिलीवर का मूल्यांकन 20,558.92 करोड़ रुपए घटकर 5,05,068.14 करोड़ रुपए रह गया। समीक्षाधीन सप्ताह में आईसीआईसीआई बैंक का बाजार पूंजीकरण 16,625.96 करोड़ रुपए टूटकर 5,00,136.52 करोड़ रुपए पर और भारतीय एयरटेल का 16,091.64 करोड़ रुपए के नुकसान से 3,90,153.62 करोड़ रुपए पर आ गया। एचडीएफसी के मूल्यांकन में 13,924.03 करोड़ रुपए की गिरावट आई और यह 3,90,045.06 करोड़ रुपए पर आ गया। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की बाजार वैल्यू 10,843.4 करोड़ रुपए घटकर 4,32,263.56 करोड़ रुपए रह गई। इन्फोसिस का बाजार पूंजीकरण 10,285.69 करोड़ रुपए घटकर 6,49,302.28 करोड़ रुपए रह गया। अडाणी ग्रीन एनर्जी की बाजार वैल्यू 2,322.56 करोड़ रुपए घटकर 4,49,255.28 करोड़ रुपए पर आ गई। शीर्ष 10 कंपनियों की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले स्थान पर कायम रही। उसके बाद क्रमशः टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईसीआईसीआई बैंक, अडाणी ग्रीन एनर्जी, एसबीआई, भारतीय एयरटेल और एचडीएफसी का स्थान रहा।

### ओला इलेक्ट्रिक करेगी पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च

नई दिल्ली, एंजेंसी। ओला इलेक्ट्रिक कंपनी जल्द ही अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करेगी। यह इलेक्ट्रिक कार वहीं टीम डिजाइन करेगी, जिसने लंबे समय तक भारतीय प्रमुख कार निमाता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ काम किया है। जानकारी के मुताबिक, रामकृपा अनंतन के नेतृत्व वाले क्रूक्स स्टूडियो ने ओला के व्हीकल प्रोजेक्ट्स को डिजाइन करने के लिए टाइप किया है।



बताया जा रहा है कि डिजाइन फर्म ओला इलेक्ट्रिक के कार प्रोजेक्ट में शामिल हो सकती है। रामकृपा अनंतन ने महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए एक इशक से ज्यादा समय तक काम किया है। इस दौरान उन्होंने कंपनी कई बड़े प्रोजेक्ट्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा उन्होंने महिंद्रा यूवीएस जैसे टीयूवी300, मारजो, एक्सयूवी500, एक्सयूवी300 और अल्टरारास जैसी कारों को डिजाइन किया है। अब ओला की इलेक्ट्रिक कार डिजाइन करने की जिम्मेदारी रामकृपा अनंतन के क्रूक्स स्टूडियो को दी गई है।

### विदेशी निवेशकों ने मई में अब तक शेयर बाजारों से 6,400 करोड़ निकाले

नई दिल्ली, एंजेंसी। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने चालू महीने के पहले चार कारोबारियों में भारतीय शेयर बाजारों से 6,400 करोड़ रुपए से अधिक निकाले हैं। बीते सप्ताह भारतीय रिजर्व बैंक और अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें बढ़ाईं जिसका असर एफपीआई के रुख पर पड़ा है।



बाजार के जानकारों ने कहा कि कच्चे तेल की ऊंची कीमतों, मौद्रिक रुख में सख्ती और अन्य कारणों से निकट भविष्य में एफपीआई के प्रवाह में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। अप्रैल, 2022 तक लगातार सात महीने तक एफपीआई भारतीय बाजारों में शुद्ध बिकल रहे हैं और उन्होंने शेयरों से 1.65 लाख करोड़ रुपए से अधिक की निकासी की है। इसका मुख्य वजह अमेरिकी केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में

बढ़ोतरी की आशंका के बीच खराब होती भू-राजनीतिक स्थिति रही है। लगातार छह माह तक बिकवाली के बाद अप्रैल के पहले सप्ताह में एफपीआई ने भारतीय शेयर बाजारों में 7,707 करोड़ रुपए का निवेश किया था। उसके बाद से वे लगातार बिकवाली कर रहे हैं। 11 से 13 अप्रैल के दौरान कम कारोबारी सत्र वाले सप्ताह में उनकी बिकवाली शुरू हुई और यह आगे बढ़ी वृद्धि हो सकती है।

### वैश्विक रुख और वृहद आर्थिक आंकड़ों से तय होगी शेयर बाजार की चाल

### कच्चे तेल के दाम और रुपए का उतार-चढ़ाव भी बाजार की चाल तय करेंगे

नई दिल्ली, एंजेंसी। इस सप्ताह वैश्विक बाजारों का रुख, मुद्रास्फीति, औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े और कंपनियों के तिमाही परिणाम शेयर बाजारों की चाल तय करेंगे। बाजार के विशेषज्ञों का मानना है कि सप्ताह के दौरान वैश्विक स्तर पर भी कई वृहद आर्थिक आंकड़े आने हैं जिसकी वजह से बाजारों में उतार-चढ़ाव कायम रह सकता है। इसके अलावा विदेशी कोषों का प्रवाह, कच्चे तेल के दाम और डॉलर के मुकाबले रुपए का उतार-चढ़ाव भी बाजार की चाल तय करेंगे। बाजार के जानकारों का कहना है कि वैश्विक बाजारों का रुख, डॉलर इंडेक्स का उतार-चढ़ाव तथा कच्चे तेल के दाम बाजार को प्रभावित करते रहेंगे। इसके अलावा 11 मई को अमेरिका के

मुद्रास्फीति के आंकड़े आने हैं, जबकि 12 मई को भारत के महंगाई और औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े आने हैं। निश्चित रूप से बाजार को इष्टि से ये आंकड़े महत्वपूर्ण रहेंगे। उन्होंने कहा कि बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के नतीजों की अब अंतिम खेप आना शेष है। इस वजह से कुछ शेयर विशेष गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। सप्ताह के दौरान एसबीआई, टाटा मोटर्स, एलएंडटी, यूपीएल, टेक महिंद्रा और सिप्ला जैसी बड़ी कंपनियां तिमाही नतीजों की घोषणा करेंगी। उनका कहना है कि सबसे पहले बाजार रिलायंस इंडस्ट्रीज के तिमाही नतीजों पर प्रतिक्रिया देगा जिसका चौथणा शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद हुई है। इसके अलावा रूस-यूक्रेन युद्ध और अन्य बाजारों

का प्रदर्शन भी यहां असर डालेगा। वृहद आर्थिक मोर्चे पर 12 मई को औद्योगिक उत्पादन (आईआईपी) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े आएंगे। बाजार की निगाह इन आंकड़ों पर रहेगी। तेल रिफाइनिंग मार्जिन में जोरदार उछाल, दूरसंचार और डिजिटल सेवा क्षेत्र की सतत वृद्धि और शुद्ध कारोबार के लगातार मजबूती से आगे बढ़ने के बीच रिलायंस के मुनाफे में बढ़ोतरी हुई है। इस सप्ताह बाजार दुनियाभर के महंगाई के आंकड़ों पर प्रतिक्रिया देगा। वृहद आर्थिक आंकड़ों, तिमाही नतीजों के अलावा सप्ताह के दौरान कई आर्थिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) भी खुलने जा रहे हैं। ऐसे में बाजार में अभी उतार-चढ़ाव कायम रहेगा।

# नई ऑडी ए8एल लग्जरी सेडान की बुकिंग प्रारंभ

10,00,000 रुपये टोकन अमाउंट देकर करा सकते हैं बुक

नई दिल्ली, एंजेंसी। भारत में लग्जरी सेडान नई ऑडी ए8 एल की बुकिंग शुरू हो गई है। ऑडी इंडिया की साइटा और ऑडी इंडिया डीलरशिप पर नई सेडान की बुकिंग हो रही है। ऑडी ए8 एल को आप 10,00,000 रुपये टोकन अमाउंट देकर बुक करा सकते हैं। ऑडी ए8 एल में खास दर्जे की लज्जती, फेसिलिटी और फीचर्स हैं, जो इस प्रीमियम सेडान को बेहद खास बनाती है। वहीं, नई ऑडी ए8 एल को कस्टमाइजेशन के कई पैकेज के साथ पेश करने की तैयारी है, जिनमें रिक्लाइनर के साथ ही रियर रिलेक्सेशन पैकेज, फुट मसाज और कई अन्य बेहतरीन फीचर्स हैं। भारत में 2022 ऑडी ए8एल का मुकाबला बीएमडब्ल्यू सीरीज और मर्सडीज बेंज एस क्लास जैसी लग्जरी कारों से होगा। अब तक बिक रहे 2017 ऑडी ए8एल के मुकाबले अपकमिंग मॉडल में बहुत कुछ खास देखने को मिलेगा।



नई ऑडी ए8 एल बुकिंग शुरू करने के मौके पर ऑडी इंडिया के प्रमुख बलबीर सिंह दिल्ली ने कहा कि हम आज अपनी फ्लैगशिप सेडान नई ऑडी ए8 एल की बुकिंग शुरू कर रहे हैं। इस कार का कस्टमर बेस काफी स्ट्रॉन्ग है और हमें विश्वास है कि यह खूबसूरत सेडान अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखेगी। नई ऑडी ए8 एल के साथ सेगमेंट में एंट्री मारते हुए टाटा पंच पॉलान्च की ओर इस छोटे एएसयूवी की भी खूब बिक्री हो रही है। एएसयूवी सेगमेंट में अब टाटा मोटर्स को टक्कर देने के लिए मारुति सुजुकी और ह्यूंदी वेन्यू से साथ ही ब्रेजा की बुकिंग शुरू हो रही है। ऑडी ए8 एल को आप 10,00,000 रुपये टोकन अमाउंट देकर बुक करा सकते हैं। इसके ब्रैंड दुनियाभर के 100 से ज्यादा मार्केट में मौजूद है।

ऑडी और इसके पार्टनर्स 13 देशों में 21 जगहों पर ऑटोमोबाइल्स और मोटरसाइकिलों का उत्पादन करते हैं। आपको बता दें कि 2022 ऑडी ए8एल में 3.0 लीटर टाटोफएसआई इंजन, 48वीं इलेक्ट्रिक-हाइब्रिड सिस्टम और नवोद्रे ऑल-व्हील ड्राइव देखने को मिलेंगे, जिसके कि नई ऑडी ए8एल ड्राइविंग के लिए बेहतरीन बन जाएगी। इस लग्जरी सेडान में एनिमेटेड प्रोजेक्शंस के साथ डिजिटल मैट्रिक्स एलईडी हेडलाइट्स समेत अन्य खास बातें देखने को मिलती हैं।

# भारत में लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ ईवी की खरीदारी की

नई दिल्ली, एंजेंसी। भारत में पिछले एक साल में लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ ईवी की खरीदारी की है। इसी के साथ वित्त वर्ष 2021-22 में, गैर-पनबिजली नवीकरणीय ऊर्जा की नई क्षमता 15.5 गीगावाट रही, जबकि पिछले वित्त वर्ष में महज 7.7 गीगावाट क्षमता स्थापित की गई थी। यह बात काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर-सेंटर फॉर एनर्जी फाइनेंस (सीईडब्ल्यू-सीईएफ) की मार्केट हैंडबुक के नए संस्करण में सामने आई है, जिसे आज जारी किया गया है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, कुल कोयला आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी पिछले वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 33 प्रतिशत की कमी देखी

गई। जबकि बिजली की अधिकतम मांग (पीक पावर डिमांड) काफी ऊंचाई तक की है। इसी के चलते मार्च 2022 में गैर-पनबिजली नवीकरणीय ऊर्जा की नई क्षमता 15.5 गीगावाट रही, जो मार्च 2021 में सिर्फ 0.5 गीगावाट थी। भारत की अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता (पनबिजली सहित) 150 गीगावाट रहने के कारण यह 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन से 500 गीगावाट बिजली उत्पादन क्षमता स्थापित करने के लक्ष्य से काफी दूर है। 2030 के लक्ष्य को पाने के लिए अभी सालाना लगभग 40 गीगावाट क्षमता स्थापित करने की जरूरत होगी इस बारे में सीईईडब्ल्यू-सीईएफ के डायरेक्टर गगन

सिद्ध ने कहा, ह्यवित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में 2021-22 में नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता बढ़ोतरी में 100 प्रतिशत से ज्यादा उछाल अच्छा है लेकिन हाल में बिजली सेक्टर पर आए दबाव के कारण कई राज्यों को बिजली कटौती की आशंकाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसने ऊर्जा जरूरतों में तापीय बिजली की भविष्य में भी केंद्रीय भूमिका बनी रहने के तथ्य को रेखांकित किया है। हालांकि, नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता में बढ़ोतरी तापीय ऊर्जा की स्पलाई संबंधी समस्याओं को काफी हद तक दूर कर सकता है, लेकिन इसके लिए नवीकरणीय ऊर्जा की एक बड़ी कमी- इंटरमिटेसी (प्राकृतिक कारणों से आने वाला व्यवधान, जैसे धूप न

होने पर सौर ऊर्जा का उत्पादन रुक जाना) को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर बैटरी स्टोरेज स्थापित करने की जरूरत है। हाइब्रिड और चौबीसों घंटे (आर-टी-सी) जैसे बिजली खरीद के नए प्रारूप भी इंटरमिटेसी से कुछ हद तक सुरक्षा देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि वित्त वर्ष 2021-22 में 17.5 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की नीलामी हुई, जिसमें से 4.3 गीगावाट या एक-चौथाई हिस्सा इन नए खरीद प्रारूपों के तहत था। उम्मीद कर सकते हैं कि आगे यह हिस्सेदारी और बढ़ेगी, क्योंकि यह लगता है कि डिस्कॉम नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में इंटरमिटेसी की समस्या से निपटने के लिए डेवलपर्स की ओर रुख कर रहे हैं।



## आईपीएल में आज केकेआर और मुम्बई में होगा मुकाबला उमरान को बुमराह के साथ गेंदबाजी करते देखना चाहते हैं हरभजन

नवी मुंबई, एजेंसी। आईपीएल में सोमवार को कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) और मुम्बई इंडियंस के बीच मुकाबला होगा। केकेआर की अगर प्लेऑफ के लिए अपनी हल्की सी भी संभावनाएं बनाये रखनी हैं तो उसे इस मैच को हर हाल में जीतना होगा। वहीं विरोधी टीम मुंबई इंडियंस पहले ही प्लेऑफ से बाहर हो गयी है और ऐसे में वह बिना किसी दबाव के खेलते हुए केकेआर का खेल बिगाड़ना चाहेगी। मुंबई की टीम अंकतालिका में सबसे नीचे हैं। वहीं केकेआर के लिए भी इस टूर्नामेंट में अब आगे जाने की राह बेहद कठिन है। उसे पिछले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के हाथों करारी हार झेलनी पड़ी थी। ऐसे में उसका मनोबल भी गिरा हुआ है। जबकि दूसरी ओर मुंबई ने अपने पिछले मैच में अंतिम ओवरों में उलटफेर करते हुए शीर्ष स्थान पर चल रही गुजरात टाइटंस को हराया था। इससे मुम्बई की टीम अब बढ़े हुए हॉसिले के साथ इस मैच में उतरेगी। केकेआर के अब तक 11 मैचों में आठ अंक हैं। ऐसे में वह बचे हुए तीन मैच जीतने के बाद भी कुल 14 अंक तक ही पहुंच सकती है। इसके बाद भी वह प्लेऑफ में नहीं पहुंच सकती। ऐसे में अब इस मैच को जीतकर दोनों ही टीमों अपना रिकार्ड बेहतर करना चाहेगी। इन दोनों के बीच पिछले



आंकड़ों पर नजर डालें तो मुम्बई का पलड़ा भारी है। उसे 22 जबकि केकेआर को आठ मैचों में ही जीत मिली है। अब मुंबई अपने इस रिकार्ड को बेहतर करना चाहेगी। मुंबई की बल्लेबाजी कप्तान रोहित शर्मा के अलावा युवा ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ियों पर आधारित रहेगी। इस मैच में रोहित अच्छी बल्लेबाजी करते हुए बड़ा स्कोर बनाने के इरादे से उतरेंगे। वहीं गेंदबाजी को बात करें तो मुम्बई इसमें कर्मजोर कही जा सकती है। उसके मुख्य गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी अब तक उम्मीद के अनुसार

गेंदबाजी नहीं कर पाये हैं। बुमराह के अलावा टीम के अन्य गेंदबाजों ने निराश किया है। कीरोना पोलार्ड भी अब तक नाकाम रहे हैं। वहीं दूसरी ओर केकेआर की बल्लेबाजी कप्तान श्रेयस अय्यर पर आधारित है लेकिन जिस प्रकार वह रनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उससे टीम को नुकसान उठाना पड़ रहा है। आरोन फिंच भी लय में नहीं हैं। नीतीश राणा और रिकू सिंह ने अच्छा प्रदर्शन किया है पर इनके खेल में निरंतरता की कमी रही है। टीम के मुख्य कोच ब्रेडन मैकुलम का मानना है कि उनके शीर्ष बल्लेबाज पर्याप्त रन नहीं बना पा रहे हैं।

जिससे टीम हार रही है। टीम की गेंदबाजी टीम साउदी और उमेश यादव पर आधारित है। उमेश ने अब तक अच्छी गेंदबाजी की है और उनका सामना करना मुम्बई के लिए आसान नहीं रहेगा पर स्पिनर वरुण चक्रवर्ती प्रभावी नहीं रहे हैं।

**दोनों ही टीमों इस प्रकार हैं :**  
कोलकाता नाइट राइडर्स: श्रेयस अय्यर (कप्तान), आरोन फिंच, अभिजीत तोमर, अजिंक्य रहाणे, बाबा इन्द्रजीत, नीतीश राणा, प्रथम सिंह, रिकू सिंह, अशोक शर्मा, पैट कर्मिस, रसिख डार, शिवम मावी, टिम साउदी, उमेश यादव, वरुण चक्रवर्ती, अमन खान, आदिरसेल, अनुकुल रॉय, चमिका करुणारत्ने, मोहम्मद नबी, रमेश कुमार, सुनील नारायण, वेंकटेश अय्यर, सैम बिलिंग्स, शेल्डन जैक्सन।

मुंबई इंडियंस : रोहित शर्मा (कप्तान), अनमोलप्रीत सिंह, राहुल बुद्धि, रमनदीप सिंह, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, टिम डेविड, अर्जुन तेंदुलकर, वासिल थम्पी, ऋतिक शौकीन, जसप्रीत बुमराह, जयदेव उनादकट, मयंक मार्कंडे, सुरजन अश्विन, रिले मेरिडिथ, टाडमिल मिस्स, कार्तिकेय सिंह, डेनियल सैम्स, डेबाल्ड ब्रेविस्, फैबियन एलन, कीरोना पोलार्ड, संजय यादव, आर्यन जुयाल और ईशान किशन।

मुम्बई, एजेंसी। दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह ने आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से अपनी तेज गेंदबाजी के कारण छठे उमरान मलिक की जगह पर प्रशंसा करते हुए कहा है कि इस गेंदबाज को भारतीय टीम में जगह मिलनी चाहिये। हरभजन ने कहा कि आज कोई अन्य गेंदबाज भारत में इतनी तेज गेंद नहीं फेंक रहा है। अब हरभजन ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी20 विश्व कप में जसप्रीत बुमराह के साथ उमरान को गेंदबाजी करते हुए देखना चाहते हैं। हैदराबाद की ओर से खेल रहे 22 वर्षीय मलिक लगातार 150 किमी प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं।



उन्होंने कहा, 'उमरान मेरा पसंदीदा गेंदबाज हैं, मैं उसे भारतीय टीम में देखना चाहता हूँ क्योंकि वह शानदार गेंदबाज है।' उन्होंने कहा, 'ऐसा कोई एक गेंदबाज बताओ जो 150 किमी प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहा है और देश के लिये नहीं खेल रहा। इसलिए मुझे लगता है कि यह अच्छा होगा और इससे वह जहां से आया है, वहां से अन्य युवा भी खेल में आने के लिये प्रेरित होंगे।'

हरभजन सिंह ने आगे कहा, 'मैं नहीं जानता कि उसे चुना जायेगा या नहीं, लेकिन अगर मैं चयन समिति का हिस्सा होता तो मैं उसे शामिल करता। उमरान की ऑस्ट्रेलिया में टी20 विश्व कप में जसप्रीत बुमराह के साथ गेंदबाजी करनी चाहिए।' वहीं इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर का भी मानना है कि उमरान को भारतीय टीम में जगह मिलनी चाहिये।

### संक्षिप्त समाचार

#### दिल्ली कैपिटल्स का नेट गेंदबाज निकला कोरोना संक्रमित

मुंबई, एजेंसी। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में अब दिल्ली कैपिटल्स का एक नेट कोरोना संक्रमित पाया गया है। ऐसे में अब दिल्ली के खिलाड़ियों की मुश्किलें बढ़ गयी हैं। सीएसके टीम के के खिलाफ रविवार को मैच से कुछ घंटे पहले एक नेट गेंदबाज का परीक्षण पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद कैपिटल्स के सभी खिलाड़ियों को कमरों में ही रहने के लिए कहा गया है। यह आईपीएल में दूसरा अवसर है जब दिल्ली की टीम को अलग-थलग रहना पड़ रहा है। इससे पहले फ्रिजियो पेट्रिक फरहाट, ऑलराउंडर मिशेल मार्श, विकेटकीपर-बल्लेबाज टिम सीफर्ट तथा सहयोगी स्टॉफ के तीन अन्य सदस्य भी परीक्षण में संक्रमित पाये गये थे। इस कारण दिल्ली के पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैचों को पुणे के जगह मुंबई में ही आयोजित किया गया था। गौरतलब है कि आईपीएल हार्प्रोटोकॉल के अनुसार दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ियों और अन्य सदस्यों को अब दूसरे दौर की जांच से भी गुजरना होगा।

#### एनआईएस पटियाला में दो नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी गयी

पटियाला, एजेंसी। केन्द्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय खेल संस्थान (एनआईएस) पटियाला में दो नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। सरकार तीन साल के अंदर यहां शीर्ष खेल सुविधा के विकास के नाम पर 150 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करेगी। इससे युवा खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं भी मिलेंगी। पहली परियोजना खेल कोचिंग के राष्ट्रीय केंद्र के गठन से जुड़ी है जिसके तहत आधुनिक खेल विज्ञान प्रयोगशाला और डिप्लोमा धारकों की शिक्षा के लिए स्ट्रेच एवं अनुकूल हॉल भी रहेगा। वहीं दूसरी परियोजना पूर्ण रूप से वालानुकूलित रसोईघर और हॉफ़ कोर्ट के निर्माण की है। इसमें एकसाथ 400 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। इसके साथ ही रसोई घर में एक साथ 2000 लोगों का खाना भी बन सकेगा। वहीं तीसरी परियोजना परिसर में दो नए छात्रावासों के निर्माण की रहेगी।

#### जोकोविच को हराकर एल्कारेज मैड्रिड ओपन टेनिस के फाइनल में पहुंचे

मैड्रिड, एजेंसी। स्पेन के कार्लोस एल्कारेज मैड्रिड ओपन टेनिस के फाइनल में पहुंच गये हैं। एल्कारेज ने सेमीफाइनल में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच को 6-7 (5/7), 7-5, 7-6 (7/5) से हराया। एल्कारेज इसके साथ ही इस टूर्नामेंट में स्पेन के राफेल नडाल और जोकोविच को हराने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। एल्कारेज ने इसी के साथ ही इस सत्र में शीर्ष-10 खिलाड़ियों में से सात के खिलाफ जीत हासिल की है। मैड्रिड ओपन के खिताबी मुकाबले में अब एल्कारेज का सामना एलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। ज्वेरेव पिछले नौ मुकाबलों से लगातार जीतते रहे हैं। एल्कारेज 17 साल के इतिहास में पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने विश्व के नंबर एक खिलाड़ी को हराया है। वहीं एक अन्य सेमीफाइनल में ज्वेरेव ने सुनान के स्टेफानोस सिसिपास को 6-4, 3-6, 6-2 से हराकर तीसरी बार मैड्रिड ओपन के फाइनल में जगह बनायी है।

#### चीन में कोरोना संक्रमण के कारण अब डायमंड लीग प्रतियोगिताएं भी रद्द

मोनाको, एजेंसी। कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ने के कारण चीन में एशियाई खेलों के बाद अब दो और बड़ी खेल प्रतियोगिताओं डायमंड लीग ट्रेक को भी रद्द कर दिया गया है। आयोजकों का कहना है कि शंघाई और शंजेन में सत्र के बीच में होने वाली डायमंड लीग ट्रेक प्रतियोगिताओं को चीन में कड़ी पुश्तकवास की शर्तों और यात्रा पाबंदियों के कारण रद्द कर दिया गया है। वहीं इसकी जगह अब पोलैंड में 6 अगस्त से एक स्थानांतरित प्रतियोगिता करायी जायेगी। गौरतलब है कि डायमंड लीग सीरीज ज्यूरिख में 7-8 सितंबर को डायमंड लीग फाइनल के साथ ही समाप्त होगी। इन दोनों डायमंड लीग प्रतियोगिताओं को पिछले साल भी कोरोना वायरस संक्रमण के कारण रद्द कर दिया गया था।

## आईपीएल ने सिखाया कठिन हालातों के बीच खेलना : रबाडा


मुंबई, एजेंसी। पंजाब किंग्स की ओर से खेल रहे दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज केमरिस रबाडा ने कहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से उन्होंने सीखा है कि क्रिया प्रकार दबाव के बीच भी कठिन हालातों में अच्छा प्रदर्शन किया जा सकता है। रबाडा ने कहा कि आईपीएल आपकों सिखाता है कि दबाव में कैसे प्रदर्शन करना है। इसमें हर दिन एक खेल कठिन है। किसी तरह, हमेशा एक करीबी खेल होता है, चाहे आप किसी भी टीम के लिए खेलें। यह एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी टूर्नामेंट है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप वास्तव में कर सकते हैं। कभी ब्रेक नहीं मिलता है, हर गेंद एक घटना



है। रबाडा ने माना कि इस सत्र में गर्मी में खेलना एक कठिन चुनौती होगी क्योंकि दोनों

पक्षों के खिलाड़ियों की फिटनेस का स्तर ठोस परीक्षण के तहत आता है। यह गर्म है। मैं

## थॉमस कप में भारत ने जर्मनी को 5-0 से हराया



बैंकाक, एजेंसी। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप में अच्छी शुरुआत करते हुए जर्मनी पर 5-0 से बड़ी जीत दर्ज की है। भारत के लक्ष्य सेन ने एकल में विश्व के 64वें नंबर के खिलाड़ी मैक्स वीजकिर्चन को 21-16, 21-13 से हराया हालांकि भारत के ही सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेटी की युगल जोड़ी को जोन्स रास्फ्री यानसेन और

मार्विन सीडेल के खिलाफ 21-15, 10-21, 21-13 से जीत दर्ज करने के लिए जमकर पसीना बहाना पड़ा। वहीं एक अन्य मुकाबले में किरांवी श्रीकांत ने काइ शेफर को 18-21, 21-9, 21-11 से हराकर भारत को ग्रुप सी के इस मुकाबले में 3-0 की बढ़त दिलाई। इसके बाद एमआर अर्जुन और ध्रुव कपिला ने ब्योर्न गीस और जान कॉलिन वोएलर को दूसरे पुरुष युगल मुकाबले में 25-23, 21-15 से पराजित किया। जो एएस प्रणय ने मैथियास किकलिट्ज को 21-9, 21-9 से हराया। इस प्रकार भारत ने जर्मनी पर 5-0 की बड़ी जीत दर्ज की। इस प्रकार अब भारत के यहां पदक जीतने की संभावनाएं बढ़ गयी हैं।



लीवरपूल में प्रीमियर लीग फुटबॉल में खेलते हुए खिलाड़ी।

## आईपीएल अंकतालिका में शीर्ष पर पहुंची सुपरजायंट्स गुजरात दूसरे और राजस्थान तीसरे स्थान पर

मुंबई, एजेंसी। आईपीएल के 15 वें सत्र में लखनऊ सुपरजायंट्स की टीम गुजरात टाइटंस को पीछे छोड़ते हुए अंक तालिका में पहले स्थान पर पहुंच गयी है। लखनऊ ने कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) को हराकर अंक तालिका में पहला स्थान हासिल किया। वहीं एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की टीम पंजाब किंग्स को हराकर तीसरे स्थान पर पहुंची है। राजस्थान के अब 11 मैचों से 14 अंक हो गए हैं और उसे प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अब केवल एक और जीत की ही जरूरत है।



पंजाब के 11 मैचों में 5 जीत के साथ 10 अंक हैं और वह 7वें स्थान पर ही बनी हुई है। पंजाब की टीम को अब प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अपने बचे हुए मैचों केकेआर को प्लेऑफ में बने रहने के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच जीतना जरूरी था पर वह इसमें नाकाम करने में विफल रहती है तो दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद को प्लेऑफ में जगह बनाने में आसानी होगी।

केकेआर को प्लेऑफ में बने रहने के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच जीतना जरूरी था पर वह इसमें नाकाम करने में विफल रहती है तो दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद को प्लेऑफ में जगह बनाने में आसानी होगी।

## बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में हम पीछे रहे : अय्यर

मुम्बई, एजेंसी। कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के कप्तान श्रेयस अय्यर की टीम को आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा है। इस हार से निराश अय्यर ने कहा, हलखनऊ ने हमें बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में पीछे छोड़ा। पावरप्ले में हमारी शुरुआत खराब रही और डेथ ओवरों में भी हमने काफी रन दे दिये। हम पिच का अंदाज नहीं समझ पाये। हमने टॉप जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया जो गलत रहा। हम उन्हें 155-160 पर रोक सकते थे लेकिन हमें अंत में एक अच्छा लक्ष्य मिला है हम छोटी-छोटी चीजों से लभ नहीं उठा पाये। बीच के ओवरों में हम अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। हमें पावरप्ले और डेथ ओवरों में अच्छा प्रदर्शन



करने की जरूरत थी। हमें इसका आंकलन करने और वापसी करने की जरूरत है। अगले 3 मैचों में हमें ऐसा ही करना होगा है वहीं विजेटा लखनऊ ने आईपीएल के इस सत्र में लगातार चौथी जीत दर्ज की और 2 अहम अंक हासिल किए। इससे वह बेहतर नेट रनरेट की बदैलत 16 अंक लेकर पहले स्थान पर पहुंच गई है।

## पुजारा ने काउंटी में लगाया चौथा शतक, टीम इंडिया में वापसी के लिए पेश किया दावा

लंदन, एजेंसी। भारतीय टेस्ट टीम से बाहर चल रहे बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा का बल्ला आजकल काउंटी क्रिकेट में जमकर चल रहा है। पुजारा ने काउंटी में सेकेड डिविजन टीम ससेक्स की ओर से लगातार चार शतक लगाये हैं। इस क्लब की तरफ से उन्होंने अब तक 4 मुकाबलों में बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाये हैं। उन्होंने मिडिलसेक्स के खिलाफ दूसरी पारी में शानदार शतक लगाया। पुजारा ने यह शतक 133 गेंदों में ही लगा दिया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ भी कुछ अच्छे शॉट्स खेलें। तीसरे दिन का खेल खत्म होने पर पुजारा ने 149 गेंद में 125 रन बना लिए थे। इस पारी में उन्होंने 16 चौके और 2 छक्के लगाये। इससे उनकी टीम ससेक्स को मिडिलसेक्स पर 270 रन की बढ़त भी मिल गयी है। इससे पहले पुजारा को खराब प्रदर्शन के कारण ही श्रीलंका के



खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी जगह नहीं मिली थी। इसके बाद आईपीएल में भी उन्हें किसी टीम में नहीं खरीदा। इसके बाद ही वह ससेक्स की टीम से काउंटी क्रिकेट खेलने यहां पहुंचे। इस टीम की ओर से उन्होंने अब तक 4 मैचों में 2

दोहरे शतक और 2 शतक लगाकर 500 से अधिक रन बनाये हैं। इस प्रकार उन्होंने टीम इंडिया में अपनी वापसी का दावा पेश किया है। भारत को इंग्लैंड दौरे में पूर्व टेस्ट खेला है जिसमें इस बल्लेबाज को अवसर मिल सकता है।

## आईपीएल ने सिखाया कठिन हालातों के बीच खेलना : रबाडा

मुंबई, एजेंसी। पंजाब किंग्स की ओर से खेल रहे दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज केमरिस रबाडा ने कहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से उन्होंने सीखा है कि क्रिया प्रकार दबाव के बीच भी कठिन हालातों में अच्छा प्रदर्शन किया जा सकता है। रबाडा ने कहा कि आईपीएल आपकों सिखाता है कि दबाव में कैसे प्रदर्शन करना है। इसमें हर दिन एक खेल कठिन है। किसी तरह, हमेशा एक करीबी खेल होता है, चाहे आप किसी भी टीम के लिए खेलें। यह एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी टूर्नामेंट है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप वास्तव में कर सकते हैं। कभी ब्रेक नहीं मिलता है, हर गेंद एक घटना



है। रबाडा ने माना कि इस सत्र में गर्मी में खेलना एक कठिन चुनौती होगी क्योंकि दोनों

पक्षों के खिलाड़ियों की फिटनेस का स्तर ठोस परीक्षण के तहत आता है। यह गर्म है। मैं

## विराट तीसरी बार गोल्डन डक हुए

मुम्बई, एजेंसी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूर (आरसीबी) के पूर्व कप्तान विराट कोहली खराब फार्म से उबर नहीं पा रहे हैं। विराट यहां सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ हुए आईपीएल के 54वें मुकाबले में (गोल्डन डक हुए) पहली ही गेंद पर पवेलियन लौटे। 15 वें सत्र में यह तीसरी बार है जब विराट पहली ही गेंद पर आउट हुए हैं। कोहली स्पिन गेंदबाज जगदीश सुचित की मैच के पहले ओवर की पहली ही गेंद पर ही शॉट लगाने के प्रयास में कैच आउट हो गये। विराट का यह कैच सनराइजर्स के कप्तान केन विलियमसन ने पकड़ा। इस प्रकार आईपीएल में देखा जाये तो विराट ने कुल मिला



कर छठी बार पहली ही गेंद पर अपना विकेट गंवाया है। पहली बार साल 2008 में उन्हें आशीष नेहरा ने मैच की पहली ही गेंद पर आउट किया था। तब नेहरा मुंबई इंडियंस की ओर से खेल रहे थे। साल 2014 में पंजाब किंग्स के गेंदबाज संदीप शर्मा ने जबकि 2017 में कोलकाता नाइटराइडर्स के तेज

गेंदबाज नाथन कुल्टर नाइल ने उन्हें पहली ही गेंद पर आउट किया था। वहीं इस सत्र में इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज दुर्भ्याचमीरा और सनराइजर्स के तेज गेंदबाज मार्को यानेसन ने उन्हें पहली ही गेंद पर अपना शिकार बनाया था।



खराब जीवनशैली और अस्वस्थ खान-पान के कारण पिछले एक दशक में लोगों में हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या काफी तेजी से बढ़ी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, हाइपरटेंशन हृदय रोगों का मुख्य कारण माना जाता है। लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अधिक बने रहने की समस्या के कारण हार्ट अटैक और स्ट्रोक का जोखिम काफी हद तक बढ़ जाता है। पर हालिया अध्ययन में वैज्ञानिकों ने बताया है कि हाइपरटेंशन सिर्फ हृदय रोग ही नहीं अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को भी जन्म दे सकता है। अध्ययन में वैज्ञानिकों ने बताया है कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या वयस्कों में मिर्गी के दौर के जोखिम को

# आदर्श पति-पत्नी के गुण

शारीरिक एक ऐसा बंधन है, जिसमें लड़का-लड़की एक दूसरे के साथ अग्नि को साक्षी मान कर सात जन्म तक साथ निभाने का वचन देते हैं। शादी के बंधन में दो व्यक्तित्व ही नहीं बंधते, बल्कि उनके परिवारों के भी रिश्ते एक दूसरे के साथ बंध जाते हैं। उनकी आदतें, उनका स्वभाव, उनकी खुशी, उनका दुःख दर्द सब एक दूसरे के साथ बंध जाता है। दोनों के लिए एक नए जीवन की शुरुआत होती है। शादी के बाद पति और पत्नी दोनों की

ही जिम्मेदारी हो जाती है कि एक दूसरे की खुशी का ध्यान दें। अब उन्हें अकेले के लिए न सोचते हुए दोनों के लिए सोचना होता है। अगर पति की आदतों में पत्नी अपनी खुशी और पत्नी की आदतों में पति अपनी खुशी खोज ले तो लाइफ में कोई टेंशन नहीं होती। शादी ब्याह का बंधन पूरा एक विश्वास के धागे पर टिका होता है। पति पत्नी दोनों को चाहिए कि वो अपने पार्टनर के साथ हमेशा विश्वास बनाए रखें। आइए, जानें की एक आदर्श पति और पत्नी के रिश्ते में क्या गुण होने चाहिए।



साथ खड़े होते हैं, तो आप एक आदर्श पति-पत्नी को चाहिए कि वो एक दूसरे की इच्छाओं को हमेशा कद्र करें। अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, तो अपने पार्टनर की रजामंदी जरूर लें। पति पत्नी के रिश्ते में सब्र का होना बहुत जरूरी है। **गलतियों को नजरअंदाज करें** गलती चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो? कठिन परिस्थिति में भी आप अपने पार्टनर को दोष न देकर उसके

## गंभीर समस्या को भी जन्म दे सकता है हाई ब्लड प्रेशर



दोगुना तक बढ़ा सकती है। **हाइपरटेंशन के कारण मिर्गी के दौर का खतरा** एपिलेप्सिया जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में वैज्ञानिकों ने हाइपरटेंशन के इस जोखिम के बारे में लोगों को सचेत किया है। 58 वर्ष की औसत आयु वाले 2,986 अमेरिकी वयस्कों पर किए गए अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति या एंटीहाइपरटेंसिव दवाओं के उपयोग वाले लोगों में मिर्गी की समस्या होने का जोखिम दो गुना अधिक पाया गया है।

**उच्च रक्तचाप बन सकता है मिर्गी का कारण** अध्ययन से पता चलता है कि जिन लोगों में लगातार उच्च रक्तचाप की समस्या बनी रहती है उनमें अन्य लोगों की तुलना में मिर्गी के दौर पड़ने का जोखिम 2.44 गुना अधिक हो सकता है। उच्च रक्तचाप की समस्या उन तंत्रिकाओं की सामान्य गतिविधियों को प्रभावित कर सकती है, जो इस तरह के झटकों की समस्या से लोगों को सुरक्षित रखने में मदद करती है।

**उच्च रक्तचाप से बचाव बहुत आवश्यक** तमाम आयु वर्ग के लोगों पर किए गए इस अध्ययन में पाया गया है कि यदि समय रहते उच्च रक्तचाप का निदान और इसके उपचार की प्रक्रियाओं को शुरू कर दिया जाए तो न सिर्फ मिर्गी, बल्कि हृदय रोग और कई अन्य गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों को कम किया जा सकता है।

- उच्च रक्तचाप से कैसे करें बचाव?**
- स्वस्थ आहार का करें सेवन।
  - नियमित रूप से व्यायाम करें।
  - शरीर के वजन को नियंत्रित बनाए रखें।
  - शराब और धूम्रपान से दूरी बनाकर रखें।

**एक दूसरे का सम्मान करें** सम्मान किसी नहीं पसंद होता है? जब पति पत्नी के रिश्ते की बात हो तो ये सम्मान एक दूसरे के लिए और ज्यादा होना चाहिए। आपका पार्टनर चाहे रुपये, पढ़ाई लिखाई, गुण या फिर नौकरी में भले आपसे कम हो, उसके बाद भी आप उनकी अच्छी बातों के लिए उनका सम्मान करें। आप एक दूसरे के लाइफ पार्टनर हैं यही काफी है। इसलिए एक आदर्श पति पत्नी के

## ब्लैक या ग्रीन टी से भी बेहतर है गुड़ की चाय



चाय, भारत का सबसे लोकप्रिय पेय है। अधिकांश भारतीय अपने दिन की शुरुआत एक कप गर्म चाय से करते हैं। कई लोग चाय के इतने दीवाने होते हैं वे दिन में 4 से 5 कप चाय पीते हैं। मगर यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें चीनी की भारी मात्रा होती है, जो कई बीमारियों को जन्म दे सकती है। ऐसे में बहुत लोग आजकल अलग-अलग तरह के चीनी के विकल्प की तलाश कर रहे हैं। जिससे वो चाय का भी आनंद ले सकें और उनका शुगर इंटैक भी कम हो सके। यदि आप

रिश्ते में एक दूसरे के लिए सम्मान होना चाहिए। **पार्टनर से करें प्रेम** पति-पत्नी के रिश्ते में सबसे जरूरी होता है एक दूसरे को प्यार करना। आप अपने पार्टनर के बाहरी रंग-रूप को ध्यान न देते हुए उसकी आंतरिक सुंदरता से प्रेम करें। जब आप अपने पार्टनर को बिना किसी स्वार्थ के प्यार करेंगे तभी आपका रिश्ता एक आदर्श रिश्ता बनेगा।

## सौंफ खाने के फायदे

मात्रा होती है, जो ब्लड प्रेशर को कम करता है। इतने पोषक तत्व से भरपूर सौंफ को खाने के बहुत फायदे हैं- **डाइजेशन और आंतों के लिए फायदेमंद** भोजन के बाद रोजाना 30 मिनट बाद सौंफ लेने से कॉलेस्ट्रॉल काबू में रहता है। खाना खाने के बाद सौंफ लेने से लीवर और आंतों की

## कामयाब लोगों में कॉमन होती हैं ये बातें



कामयाबी पाने की कोई सटीक परिभाषा या मंत्र नहीं है, लेकिन कामयाब लोगों की ऐसी कई बातें हैं, जो कॉमन होती हैं। सफलता मिलने के बाद भी कामयाब लोग आगे बढ़ना बंद नहीं करते। आइए, जानते हैं कि कामयाब लोगों की कौन-सी बातें होती हैं कॉमन- **खुद को कम नहीं आंकना** सभी की लाइफ में कभी न कभी ऐसा पॉइंट आता है, जब वे खुद पर से विश्वास खोने लगते हैं और खुद को कम समझने लगते हैं, लेकिन ऐसा कभी-कभी होना आम बात है, लेकिन एक ऑप्टिमिस्ट के तौर पर देखें, तो कामयाब लोगों को खुद पर भरोसा होता है और वे खुद को कम नहीं आंकते।

**भावनाओं में आकर फँसले न करना** कामयाब होने के लिए वैलेंस रहना बहुत जरूरी है। कामयाब लोग भावनाओं में आकर कभी फँसला नहीं लेते। किसी भी फैसले को लेने के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच होना बेहद जरूरी है। आप भावनाओं में आकर फँसले लेंगे, तो आपको देर-सवेर इसके बुरे नतीजे देखने को मिलेंगे। **प्रॉयटिज (प्राथमिकताएं) सेट करना** प्रॉयटिज सेट करना हर इंसान की बस की बात

नहीं होती। कई लोग अपनी पूरी लाइफ में गलत लोगों को जगह देकर अपना टाइम, मेहनत और इमोशन खर्च करते रहते हैं, जिससे सिर्फ उन्हें परेशानी ही मिलती रहती है इसलिए सफल लोगों को यह बात पता होती है कि उन्हें लाइफ में किसे, कितनी अहमियत देनी है। **बुनीतियों का सामना करना** ऐसा कई इंसान नहीं हैं जिसने कभी दुखों का सामना नहीं किया हो। एक कामयाब इंसान हमेशा अपने आपको बुरी सिचुएशन या फेलियर के लिए तैयार करके रखता है। उसे पता होता है कि वक्त कभी भी एक-सा नहीं रहता।

## घर लाएं फेंगशुई का मनी फ्रॉग पैसा खिंचा चला आएगा आपके पास

सिक्के दबाए रखता है, जो कि धन-संपदा और समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। **फेंगशुई के अनुसार तीन टांगों वाले मेंडक को घर के मेन गेट के पास रखना चाहिए।** ऐसा करने से निगेटिव एनर्जी का घर में प्रवेश रूक जाता है और केवल सुख-सौभाग्य का प्रवेश होता है। **इस मेंडक को घर में रखने से घर का वास्तु दोष भी समाप्त हो जाता है और आपके जीवन में सकारात्मकता आने लगती है।** **फेंगशुई के अनुसार इस मेंडक को कभी भी घर के किचन या टॉयलेट में नहीं रखना चाहिए।** ऐसा करने से दुर्भाग्य में वृद्धि होती है। **फेंगशुई के इस चैन-सू मेंडक को लोग मनी-फ्रॉग भी कहा जाता है क्योंकि एक ओर तो ये मुंह में सिक्के दबाये रखता है दूसरी ओर माना जाता है कि इस मेंडक**



को घर में लाने से मनी यानि पैसा अपने आप खिंचा चला आने लगता है। **मनी मेंडक या तीन टांगों वाले मेंडक की कुछ मूर्तियों में उसे सिक्कों के ऊपर बैठा हुआ बनाया जाता है। इस मनी फ्रॉग को घर में रखना और भी ज्यादा शुभ माना जाता है।**

## सर्दियों के मौसम में इन चीजों का करें सेवन और रहें सेहतमंद

सर्दियों के दिनों में खास तौर से कुछ विशेष चीजों का सेवन करना कई तरह से फायदेमंद साबित होता है। जानिए ऐसी ही चीजें जिनका प्रयोग सर्दियों में रखेगा आपकी सेहत, सुंदरता और मस्तिष्क का विशेष ख्याल... **खसखस** - भीगी हुई खसखस खाली पेट खाने से दिमाग में तरावट और दिनभर ऊर्जा बनी रहती है। आप चाहे तो खसखस वाला दूध या फिर खसखस और बादाम का हलवा खा सकते हैं। **काजू** - इसमें कैल्शियम ज्यादा रहती है। ठंड में शरीर का तापमान नियंत्रित रखने के लिए ज्यादा कैल्शियम की आवश्यकता होती है। काजू से कैल्शियम मिलती है जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। **बादाम** - यह दिमाग को तेज करने में सहायक होता है। ठंड के दौरान इसे खाने से प्रोटीन, कैल्शियम मिलता है। इसके चाहे तो रातभर पानी में रखकर सुबह खा लें या फिर इसका दूध या हलवा बनाएं। **अखरोट** - कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होता है। इसमें फायबर, विटामिन ए और प्रोटीन रहता है। जो कि शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता प्रदान करता है। **अंजीर** - इसमें आयरन होता है, जो खून बढ़ाने में सहायक होता है। **च्यवनप्राश** - च्यवनप्राश प्रतिदिन खाने से शरीर का पाचनतंत्र सुदृढ़ होता है, स्मृति बनी रहती है। **गजक** - यह गुड़ और तिल से बनाई जाती है। गुड़ में आयरन, फास्फोरस अधिक मात्रा में पाया जाता है। तिल में कैल्शियम व वसा होता है। इसके कारण ठंड के समय शरीर को

## स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए टिप्स

**शा** यदि आपको इस बात का भान नहीं कि हमेशा तनाव में रहने से हमारे शरीर की कोशिकाओं को कभी आराम नहीं मिलता। जब हम बहुत अधिक चिंतित होते हैं, तो हम कभी भी वर्तमान क्षण का आनंद नहीं ले पाते। ऐसे में जरूरी है तनाव को मैनेज करना। **धैर्य का अभ्यास करें** अपने दिन की शुरुआत इस इरादे से करें कि आप अपने हर काम में धैर्य रखेंगे। इससे तनाव और भय कम होगा। दिन के दौरान, अपने आप को याद दिलाए कि शांति आपके जीवन की गुणवत्ता, सेहत, करियर, आपके रिश्ते को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। इन शब्दों को दोहराएं, 'मैं



शांत हूँ, सब कुछ नियंत्रण में है।' **सोच-समझ कर दें प्रतिक्रिया** कोई भी काम करने से पहले सोचने की कला का अभ्यास करें। सोचें, कल्पना करें, फिर बोलें या करें। यह तनाव को कम करने में मदद करता है। बहुत जल्दी प्रतिक्रिया करने में गलतियाँ भी हो सकती हैं। सकारात्मक प्रतिक्रिया करना सीखने का एक शक्तिशाली तरीका है कुछ गहरी सांस लें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें, जब तक कि आप महसूस न करें कि आपकी चिंता कम हो रही है। जैसे-जैसे आपकी सांस धीमी

होती है, आप पल भर में अधिक तनावमुक्त हो जाते हैं। **प्रेम भरी प्रतिक्रिया** तनाव और चिंता को कम करने के लिए सबसे अच्छी प्रतिक्रिया प्रेम है। जब भी बोलें या कोई काम करें, तो उसे प्यार से कहें और करें। यदि आप प्यार से जवाब देते हैं, तो आप अपनी खुद की ऊर्जा को बढ़ाएंगे व आपके आसपास के अधिकांश लोग आपके हावभाव को सराहना करेंगे। प्रेम आपको अधिक दयालु और शांतित्वपूर्ण बनाता है। इससे आप अधिक मित्र बनाएंगे। प्यार आपकी आत्मा को मजबूत करता है और आपके दिमाग को सशक्त बनाता है व सकारात्मक रहने में मदद करता है। **अपने शब्दों पर ध्यान दें** अपनी शब्दावली से नकारात्मक शब्दों को हटा दें और उन्हें मीठे और सकारात्मक शब्दों से बदलें। याद रखें आपके द्वारा बोले गए शब्द आपके मन में विचार बन जाते हैं और आपके व्यवहार को संचालित करने लगते हैं। इसलिए हमेशा मीठा और कोमल



अधिक कैल्शियम मिल जाती है और शरीर का तापमान भी नियंत्रित रहता है। **पिंड खजूर** - इसमें आयरन के साथ मिन्नरल्स और विटामिन भी रहते हैं। इसे ठंड में 20 से 25 ग्राम प्रतिदिन लेना चाहिए। **दूध** - रात को सोते समय केसर, अदरक, खजूर, अंजीर, हल्दी दूध में डालकर लेना चाहिए। सर्दियों के मौसम में होने वाली सर्दी-खांसी से बचाव हो जाता है। **गोंद लड्डू** - इस मौसम में ज्यादा अच्छे रहते हैं क्योंकि आसानी से पच जाते हैं। एक लड्डू में 300 से 350 कैल्शियम होता है। **मिक्स दाल के लड्डू** - दाल में प्रोटीन होता है। यह बाल झड़ने को रोकता है और शरीर को स्मृति प्रदान करता है। **हरी सब्जियाँ** - सर्दी में हरी सब्जियों की आवक खूब होती है अतः इनका भरपूर सेवन करें। हरी सब्जियाँ पर्याप्त पोषण के साथ-साथ शरीर को आंतरिक शक्ति प्रदान करती हैं। **शाहद** - शाहद एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक है जिसमें मौजूद औषधीय गुण आपको सर्दी की सेहत समस्याओं से बचाएंगे और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। **साबुत अनाज** - चूँकि यह मौसम सेहत बनाने के लिए बढ़िया होता है अतः इस मौसम में साबुत अनाज लेना हमेशा फायदे का सौदा है। चाहे अंकुरित करके या फिर सभी प्रकार के अनाज का आटा बनाकर प्रयोग करें।

## प्रदूषण पर वार करने वाली डाइट

को रोकता है। **पुदी के साथ अनानास का जूस** अनानास जूस में पुदीने का फ्लेवर। नाम सुनते ही मुँह में पानी आ गया होगा। पर क्या आप जानते हैं कि अनानास में मौजूद कुछ तत्व फेफड़ों को प्राकृतिक रूप से डिटॉक्स करते हैं। **यह कैसे मदद करता है** अनन्नास में ब्रोमेलिन एंजाइम फेफड़ों में जमा होने वाले जहरीले तत्वों को साफ करने में मदद करता है। वहीं पुदीने का एंटीहिस्टामाइन बंद नाक, जुकाम और छींक जैसे लक्षणों में एंटीडोट्स के रूप में काम करता है। तो अगर संभव हो, तो इनमें से किसी भी एक पेय को जरूर लें। प्रदूषण के साथ सर्दी से भी बचाव होगा।

**फेफड़ों की सेहत के लिए केले की स्मूदी** केले की स्मूदी को बनाने के लिए आपको चाहिए पका केला, अदरक का रस और नारियल का ताजा पानी। इन तीनों को एक साथ ब्लेंड करें और फिर पी लें। इसे सप्ताह में दो या तीन दिन ले सकते हैं। **केले की स्मूदी को बनाने के लिए आपको चाहिए पका केला, अदरक का रस और नारियल का ताजा पानी। इन तीनों को एक साथ ब्लेंड करें और फिर पी लें। इसे सप्ताह में दो या तीन दिन ले सकते हैं**

बोलें। यह आपके विचारों को शुद्ध और आपकी ऊर्जा को और अधिक मजबूत रखने में मदद करेगा। **आभारी रहें** हमेशा उन सभी अच्छी चीजों के बारे में सोचें और बात करें, जो आपने अपने जीवन में अनुभव किए हैं। अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता के साथ करें। जो लोग कृतज्ञ होते हैं, वे हमेशा खुश और शांतिपूर्ण रहते हैं। हर सुबह इस विचार के साथ उठें, 'मैं अपने जीवन और इस दिन के लिए भाग्यशाली हूँ।' ब्रह्मांड को उसके समर्थन के लिए धन्यवाद दें- 'मैं अपनी चिंताएं, शंकाएं आदि को आपको सौंप देता हूँ और मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ।' जब भी लगे कि आप नकारात्मकता से घिर रहे हैं, मानसिक रूप से शब्दों का जाप करना शुरू करें, 'ब्रह्मांड आपके आशीर्वाद के लिए आपका धन्यवाद, सब कुछ अच्छा होगा।' तब तक जप करते रहें जब तक आपकी बेचैनी कम न हो जाए।

## आज की रेसिपी 'कॉर्न पनीर कटलेट्स'



सर्दियों में शाम की चाय के साथ टिक्की, पकौड़े, कटलेट्स मिल जाए तो मजा ही आ जाए। तो आज हम आपके साथ एक हेल्दी टिक्की की शेरार करने वाले हैं जो आपकी आपको बेहद पसंद

- सामग्री**
- कॉर्न - 2 कप
  - तेल - 1 टीस्पून
  - हरी मिर्च बारीक कटी - 1/2
  - पतागोभी - 1/2 कप
  - अदरक कट्टकस किया - 1 टेबलस्पून
  - नमक - स्वादानुसार, काली मिर्च स्वादानुसार
  - बेसन - 1/4 कप
  - पनीर कट्टकस किया - 1 कप
  - कॉर्नफ्लेक्स हाथ से मसले हुए - 1/2 कप
  - नींबू का रस - 1/2
  - धनिया पत्ती बारीक कटी - 2 टेबलस्पून
- विधि**
- ▶ कॉर्न को मिक्सी में पीस लें। बहुत ज्यादा नहीं पीसना है। दरदरा पीसना है।
  - ▶ नींबू का रस में तेल गर्म करें। इसमें अदरक, हरी मिर्च डालकर तड़काएं। इसके बाद पतागोभी, शिमला मिर्च डालकर 2 मिनट और पकाएं।
  - ▶ अब इसमें दरदरा पीसा कॉर्न, नमक, बेसन, काली मिर्च डालकर मिक्स करें। बेसन का कच्चापन दूर होने तक पकाएं।
  - ▶ मिक्सचर को अच्छी तरह से ढंडा हो जाने दें।
  - ▶ बाउल में मिक्सचर डालें और इसी में कट्टकस किया पनीर, 1/4 कप कॉर्न फ्लेक्स, नींबू का रस और धनिया पत्ती मिलाएं। मिक्सचर बहुत ज्यादा हाथों पर चिपक रहा है तो थोड़ा और कॉर्न मिक्स कर लें।
  - ▶ अब इन्हें तेल में सुनहरा होने तक फ्राई कर लें।